



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935

No. 624]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2014

**का.आ. 733(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथाअपेक्षित जनता की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, वह लिखित रूप में, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते : [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in) पर भेज सकेगा ।

**प्रारूप अधिसूचना**

पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी तट के सीमांत पर एक महत्वपूर्ण भौगोलिक भूमि स्वरूप हैं और यह गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अनेक संख्या में अन्य नदियों का उद्गम है तथा यह कन्याकुमारी के उत्तर में ताप्ती नदी से लगभग 1500 कि.मी. दूरी पर विस्तारित है, दक्षिण में औसतन 600 मीटर से अधिक उत्थान पर है और छह राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर तिरछे फैला है ।

और, पश्चिमी घाट वैश्विक जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्थल और जैव विविधता का खजाना है और यह अनेक कुसुमित पादपों की स्थानिक प्रजातियों, स्थानिक मत्स्य, उभयचरी सरीसृप पछियों, स्तनपायी और अशकशेरुकियों की आश्रयस्थली है और यह मिर्च,

इलायची, दालचीनी, आम और कटहल जैसी किफायती महत्वपूर्ण वातावरण के अनुकूल वनस्पति के किस्मों के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र भी है ;

और, पश्चिमी घाटों में अनेक अभूतपूर्व प्राकृतिक वास हैं जो मेरिस्टिका दलदल, सपाट शिखर परवर्ती पठार, शोला तथा नमभूमि और तटीय पर्यावरण प्रणाली जैसे वनस्पति और जीवजंतु की स्थानिक किस्मों की प्रजातियों के लिए गृह है ;

और, यूनेस्को ने पश्चिमी घाटों के पहचान किए गए कुछ भागों को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है क्योंकि पश्चिमी घाट अनेक प्रजातियों की उत्पत्ति का केंद्र हैं, साथ ही यह समृद्ध स्थानिक जैव विविधता के लिए गृह भी है और इसलिए यह जैव विविधता के विकास के लिए अवलम्ब है ;

और, पश्चिमी घाट केवल समृद्ध जैव विविधता के लिए आश्रय ही नहीं हैं, बल्कि यह लगभग पचास मिलियन लोगों की जनसंख्या को सहारा भी देते हैं और इसमें अधिक मानवीय जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं और अतः क्षेत्र के धारणीय और अंतर्वेशित विकास को अनुज्ञात करते समय पश्चिमी घाटों की अभूतपूर्व जैव विविधता को बनाए रखने और संरक्षित करने की आवश्यकता है ;

और, मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी वातावरणिक अक्षतता और साकल्यवादी विकास के परिरक्षण का उनकी समृद्धिशीली और अपूर्व जैव विविधता की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह का गठन किया था और आज्ञापक रूप से मुद्दे पर साकल्यवादी दृष्टिकोण अपनाने का और पर्यावरण तथा जैव विविधता के संरक्षण के बीच सहक्रिया लाने तथा क्षेत्र के, धारणीय विकास और वातावरणिक अक्षतता के लिए स्थानीय तथा देशी लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के लिए तथा उपाय सुझाने और पश्चिमी घाटों की संवेदनशील पारिस्थितिकी के और ह्रास को रोकने के लिए मार्ग दिखाने का कार्य दिया गया था ;

और, उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह ने 15 अप्रैल, 2013 को मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे संबंध पणधारियों की टीका-टिप्पणियां/विचार मांगने के लिए लोक क्षेत्र में रखा गया था और उसे पश्चिमी घाटों के क्षेत्र की संबद्ध छह राज्य सरकारों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को रिपोर्ट पर उनकी सुविचारित टीका-टिप्पणियां/विचारों के लिए भेजा गया था ;

और, उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह ने पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के रूप में लगभग सैंतीस प्रतिशत पश्चिमी घाटों की पहचान की है, जिसमें पश्चिमी घाटों के प्राकृतिक भूदृश्य का 59,940 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है और यह 1,500 कि०मी० की क्षैतिज दूरी पर प्राकृतिक वनस्पति के लगातार फैली पट्टी का प्रतिनिधित्व करता है और यह पश्चिमी घाटों क्षेत्र के छह राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और जिसमें संरक्षित क्षेत्र और पश्चिमी घाटों के विश्व विरासत स्थल सम्मिलित हैं और उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह ने पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र में पहचान की गई परियोजनाओं और क्रियाकलापों, जिससे पारिस्थितिकी प्रणाली में अधिकतम दखल और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, के प्रतिषेध और विनियमन की सिफारिश की है ;

और, मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं० 1-4/2012-आरई(भाग), तारीख 20 दिसंबर, 2013 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक सत्यापन के आधार उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह द्वारा पहचान किए गए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र की सीमाओं में उपांतरणों पर राज्य सरकार से सुझाव चाहे गए हैं ;

और, केरल की राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह की सिफारिशों के समाघात का अध्ययन करने के लिए और जमीनी स्तर की जानकारी का निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके भौतिक सत्यापन द्वारा राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र का सीमांकन किया है, इसने स्थल पर ही क्षेत्र सत्यापन और पणधारियों के साथ संपर्क किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के भीतर आने वाले 123 ग्रामों में पंचायत स्तर समितियों का भी गठन किया था ;

और, विशेषज्ञ समिति तथा पंचायत स्तर समितियों ने भौतिक सत्यापन के आधार पर उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह द्वारा यथारूप से पहचान किए गए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र से सांस्कृतिक भू-भाग के अपवर्जन की सिफारिश की थी और केरल राज्य सरकार का यह विचार है कि कृषि क्षेत्र बागान, बागवानी प्लाट, रोपण और आवासी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र से बाहर रखा जाए ;

और, केरल राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किया गया पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र 9993.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें वन क्षेत्र का 9107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है और 886.7 वर्ग किलोमीटर वन विहीन क्षेत्र है और उस राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र ने उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह द्वारा सिफारिश किए गए 13,108 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 9993.7 वर्ग किलोमीटर की परिगणना की है ;

और, राज्य के लिए उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह द्वारा सिफारिश किए गए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के बजाय केरल राज्य के लिए केरल सरकार द्वारा सीमांकित पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए कुल पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र ने 56,825 वर्ग किलोमीटर की परिगणना की है ;

और, अतः, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 59,940 वर्ग कि०मी० के पहचान किए गए क्षेत्र, जो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारि-संवेदी क्षेत्र के रूप में कहा गया है) के रूप में छह राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के आर-पार फैला है, को अधिसूचित करती है ।

**2. पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र की सीमा और वर्णन**—(1) केरल राज्य को अपवर्जित करते हुए उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह द्वारा यथारूप से सिफारिश किए गए पारि-संवेदी क्षेत्र की सीमा और वर्णन निम्नानुसार हैं :—

(क) प्रत्येक राज्य में आने वाले पारि-संवेदी क्षेत्र का विस्तार **उपाबंध क** के अनुसार है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में पारि-संवेदी क्षेत्र के भाग का राज्यवार मानचित्र **उपाबंध ख1** से **उपाबंध ख5** के अनुसार है ;

(ग) अपने-अपने जिलों और तालुकों के साथ पारि-संवेदी क्षेत्र के भीतर आने वाले ग्रामों की राज्यवार सूची **उपाबंध ग** के अनुसार है ।

(2) केरल राज्य में पारि-संवेदी क्षेत्र 9993.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 9107 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र सम्मिलित है और 886.7 वर्ग किलोमीटर का वर्ग विहीन क्षेत्र है और पारि-संवेदी क्षेत्र की सीमा और वर्णन तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पारि-संवेदी क्षेत्र का ग्रामवार ब्यौरा केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

**3. पारि-संवेदी क्षेत्र में परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रतिषिद्ध या विनियमित होना**— (1) उन प्रस्तावों के सिवाय, जिसे 17 अप्रैल, 2013, वह तारीख, जिसको उच्च स्तरीय कार्यकरण समूह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, और विचार के लिए लंबित है, से पूर्व विशेषज्ञ आकलन समितियों या पर्यावरण और वन मंत्रालय या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समितियों या राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात समाधान निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, पारि-संवेदी क्षेत्र में परियोजनाओं और क्रियाकलापों के निम्नलिखित प्रवर्ग प्रतिषिद्ध होंगे और ऐसे प्रस्तावों पर उस समय विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों और नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

(क) खनन : पारिस्थिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और सभी विद्यमान खानें इस अंतिम अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से या विद्यमान खनन पट्टे की समाप्ति पर, इनमें जो भी पहले हो, पांच वर्ष के भीतर प्रावस्थाबद्ध रूप से समाप्त कर दी जाएंगी ।

(ख) तापीय विद्युत संयंत्र : कोई नई तापीय विद्युत परियोजनाएं और विद्यमान संयंत्रों का विस्तार पारिस्थिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उद्योग : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी नए "लाल" प्रवर्ग और ऐसे विद्यमान उद्योगों के विस्तार को प्रतिबंधित किया जाएगा । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट "लाल" प्रवर्ग उद्योगों की सूची **उपाबंध ड** पर है ।

(घ) निर्माण, संनिर्माण, नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजना : 20,000 वर्ग मीटर तक और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाले निर्माण एवं संनिर्माण की सभी नई और विस्तार परियोजनाएं और 50 हेक्टेयर और उससे अधिक वाले सभी नए और विस्तार नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएं या 1,50,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक का निर्मित क्षेत्र प्रतिषिद्ध होंगे ।

(2) निम्नलिखित परियोजनाओं के प्रवर्ग और क्रियाकलापों को नीचे दिए गए अनुसार विनियमित किया जाएगा :-

(क) जल विद्युत परियोजनाएं : नई जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना के अनुसार अनुज्ञात की जाएंगी, अर्थात् :-

- (i) तब तक अकाल मौसम में कम से कम तीस प्रतिशत सरिता प्रवाह का अबाधित पारिस्थितिकीय प्रवाह जब तक प्रत्येक परियोजना के लिए व्यापक अध्ययन व्यष्टिक आधार रूपरेखाएं स्थापित न हो जाए ।
- (ii) संचयी अध्ययन, जो सरिताओं और वन तथा जैव विविधता हानि के प्रवाह पैटर्न पर प्रत्येक परियोजना के समाघात का निर्धारण करता है ;
- (iii) तीन किलोमीटर पर एक परियोजना और दूसरी परियोजना के बीच न्यूनतम दूरी बनाई रखी जाती है और किसी भी समय सरिता की द्रोणी का पचास प्रतिशत से अनधिक प्रभावित होता है,

(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट "नारंगी" प्रवर्ग उद्योग वातावरणीय विनियमों के कड़े अनुपालन के साथ अनुज्ञात किए जाएंगे किंतु निम्न वातावरणीय समाघात वाले उद्योग का संवर्धन करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ।

(ग) उन क्रियाकलापों के मामले में, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना सं.का.आ.1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और ऐसी परियोजनाओं और क्रियाकलापों के सिवाय जो उपपैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिषिद्ध किए गए हैं, पारि-संवेदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मंत्रालय द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के संबंध में विचार करने से पूर्व संचयी समाघातों तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए संवीक्षित किए जाएंगे और निर्धारित किए जाएंगे ।

(घ) पारि-संवेदी क्षेत्र में गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के मामलों में विशिष्टितया और सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आवेदन प्रक्रम से लेकर अनुमोदन तक परियोजना की संपूर्ण जानकारी पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों के वन विभाग की वेबसाइट पर लोक अधिकार क्षेत्र रखी जाएगी ।

(ङ) अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन पूर्व सूचित सम्मति की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा और परियोजनाएं तथा क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए ग्राम सभा की सम्मति आज्ञापक होगी ।

**4. कार्यान्वयन तथा निगरानी तंत्र** - (1) इस अधिसूचना के उपबंधों की निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी पश्चिमी घाट क्षेत्र के संबद्ध राज्य सरकारों के पास होगी और राज्य सरकारें पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र में निर्बंधनों के प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगी और ऐसे तंत्र स्थापित करते समय, अन्य बातों के साथ, राज्य सरकारें, विद्यमान विनियामक संस्थाओं और आदेशिकाओं को सुदृढ़ करना और विनिश्चय करने में स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा उनके सम्मिलित होने को सुनिश्चित करेगी और ऐसे तंत्रों के ब्यौरों का पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा हिस्सा बंटया जाएगा ।

(2) पश्चिमी घाट विनिश्चय सहायता और निगरानी केंद्र पश्चिमी घाटों की छह राज्य सरकारों के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा जो नियमित आधार पर पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी की प्रास्थिति का निर्धारण करेगा और रिपोर्ट करेगा और इस अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन में विनिश्चय सुविधा प्रदान करेगा तथा वैज्ञानिक विनिश्चय करने एवं प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए तंत्रों को भी सुकर बनाएगा ।

(3) पारि-संवेदी क्षेत्र में अनुज्ञात परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों की पश्च अनापत्ति निगरानी संबद्ध राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा की जाएगी और पारि-संवेदी क्षेत्र की सभी ऐसी परियोजनाओं की, जिन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति या वन संबंधी अनापत्ति प्रदान की गई है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार निगरानी की जाएगी ।

(4) पारि-संवेदी क्षेत्र में ऐसी सभी परियोजनाओं की, जिन्हें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन स्थापित करने के लिए या उन्हें प्रचालित

करने के लिए सम्मति प्रदान की गई है, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निगरानी की जाएगी और संबद्ध राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की निगरानी करने तथा उनके प्रवर्तन में उठाए गए कदमों के, अन्य बातों के साथ, ब्यौरे देते हुए वार्षिक आधार पर उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले पश्चिमी घाट क्षेत्र की बाबत "स्वास्थ्य रिपोर्ट की स्थिति" तैयार करेगी और उसे लोक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध कराएगी ।

5. **उल्लंघन के लिए कार्रवाई** :- इस अधिसूचना के उपबंधों के किसी उल्लंघन की दशा में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 2) के उपबंधों और अन्य सुसंगत परिणियमों के अधीन तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

6. इस अधिसूचना के उपबंध, लंबित वाद में न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन होंगे ।


उपाबंध क

सारणी : पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र का राज्यवार क्षेत्र


क्रम सं.	राज्य	पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1	गुजरात	449
2	महाराष्ट्र	17340
3	गोवा	1461
4	कर्नाटक	20668
5	तमिलनाडु	6914


## अनुबंध ख 1


## गुजरात राज्य के अंतर्गत आनेवाले पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र का राज्य-वार मानचित्र




## मुद्रालेख

 राष्ट्रीय सीमा

 राज्य सीमा

 जिला सीमा

 पारिसंवेदी क्षेत्र-

Point c

\_ujpts.txt

0 10 20 Kilometers




## गुजरात में पारि-संवेदी क्षेत्र की बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतर

बिंदु	अक्षांतर	देशांतर
1	73.6032	21.115
2	73.6322	21.1018
3	73.6505	21.0659
4	73.625	21.0793
5	73.6069	21.0374
6	73.6553	21.0406
7	73.7128	21.0508
8	73.6303	21.0184
9	73.6174	20.9179
10	73.6545	20.9095
11	73.6924	20.8578
12	73.7185	20.9055
13	73.725	20.968
14	73.5147	21.0124
15	73.5154	20.9491
16	73.4792	20.9875
17	73.4447	20.9682
18	73.4826	20.9432
19	73.5138	20.9101
20	73.5482	20.9305
21	73.5136	20.8413
22	73.4317	20.7544
23	73.4227	20.7929
24	73.6622	20.6
25	73.6784	20.6307
26	73.718	20.6179
27	73.7638	20.6209
28	73.8108	20.6506
29	73.7521	20.6693
30	73.7374	20.7053
31	73.7607	20.7363
32	73.8176	20.7309
33	73.8638	20.7539
34	73.8474	20.7254
35	73.8962	20.743
36	73.9232	20.7463
37	73.9075	20.779
38	73.9067	20.8222
39	73.6185	21.1326
40	73.7369	21.0523





बिंदु	अक्षांतर	देशांतर
41	73.6563	21.0015
42	73.6173	20.9957
43	73.5705	21.0126
44	73.5484	21.0285
45	73.5327	20.9373
46	73.5063	20.9267
47	73.5014	20.8211
48	73.5042	20.856
49	73.4502	20.8136
50	73.4769	20.7495
51	73.4884	20.79
52	73.7381	21.0018
53	73.6472	20.9811
54	73.9282	20.8433
55	73.9318	20.7644
56	73.94	20.7574
57	73.8786	20.7286
58	73.8306	20.7035
59	73.6328	21.1482
60	73.6676	21.1525
61	73.7273	20.5759

## अनुबंध ख 2

## महाराष्ट्र राज्य में आनेवाले पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र का राज्य-वार मानचित्र



मद्रालेख

-  राष्ट्रीय सीमा
-  राज्य सीमा
-  जिला सीमा
-  पारिसंवेदी क्षेत्र-

0 40 80 Kilometers



**महाराष्ट्र में पारि-संवेदी क्षेत्र की बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतर**

बिंदु	अक्षांतर	देशांतर
1	74.0058	20.8256
2	74.1064	20.7453
3	74.0194	20.6892
4	74.0191	20.612
5	73.9412	20.6054
6	73.8781	20.5993
7	73.8235	20.4918
8	73.9932	20.5268
9	74.0579	20.5785
10	74.053	20.4379
11	74.019	20.3664
12	73.8978	20.4141
13	73.6994	20.4375
14	73.72	20.5541
15	73.6027	20.5913
16	73.5408	20.5605
17	73.5606	20.4596
18	73.5139	20.3488
19	73.4652	20.28
20	73.5387	20.2201
21	73.486	20.1581
22	73.3898	20.1504
24	73.3232	19.9966
25	73.2398	20.0314
26	73.4839	20.0493
27	73.4799	19.9053
28	73.5366	19.8061
29	73.5707	19.7128
30	73.1098	20.0325
31	73.043	19.9627
32	73.1282	19.893
33	73.1898	19.7765
34	73.1248	19.6719
35	73.1853	19.6466
36	73.1206	19.5384
37	73.1944	19.4682
40	73.3863	19.6241
41	73.4258	19.4225
42	73.5894	19.4016
43	73.5123	19.2406
44	73.4137	19.068
45	73.3746	18.8911
46	73.3242	18.7207
47	73.2432	18.6505
48	73.0729	18.534
49	72.987	18.4214


बिंदु	अक्षांतर	देशांतर
51	73.253	18.4548
52	73.3929	18.3701
53	73.3688	18.2641
54	73.4378	18.1272
55	73.5931	18.092
56	73.5066	17.9903
57	73.3683	17.8302
58	73.4914	17.6993
59	73.5768	17.5912
60	73.5668	17.4195
61	73.5612	17.3075
62	73.6318	17.1219
63	73.6692	16.942
64	73.5789	16.781
65	73.6967	16.664
66	73.6991	16.4548
67	73.7466	16.3661
68	73.6751	16.1957
69	73.7503	16.0491
70	73.8298	15.8853
71	73.7949	15.7828
72	73.6179	15.9528
73	73.4909	16.2748
74	73.507	16.3905
75	73.6341	16.4554
76	73.6904	16.3323
77	73.6095	16.287
78	73.5076	16.6068
79	73.4641	16.5316
80	73.585	16.4986
81	73.6308	16.6018
82	73.5247	16.7018
83	73.3717	16.7962
84	73.4256	16.8789
85	73.452	16.9324
86	73.5682	17.0074
87	73.4826	17.2027
88	73.4341	17.3787
89	73.5529	17.4818
90	74.2737	15.8547
91	74.1505	15.9612
92	74.2395	16.0693
93	74.1872	16.1125
94	74.1853	16.2414
95	74.111	16.2907
96	74.0468	16.438
97	73.9774	16.5363

**महाराष्ट्र में पारि-संवेदी क्षेत्र की बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतरजारी -**

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
98	74.0095	16.6283
99	73.9938	16.7393
100	73.9498	16.8317
101	73.9167	17.0049
102	73.9114	17.2037
103	73.9035	17.2977
105	73.907	17.5424
106	73.8982	17.7378
107	73.7499	17.8679
108	73.7291	17.9999
109	73.768	18.187
110	73.634	18.3107
111	73.5707	18.4865
112	73.6273	18.608
113	73.5363	18.7441
114	73.661	18.8266
115	73.7288	19.0291
116	73.7184	19.1723
117	73.8576	19.2728
120	73.7481	19.5626
121	74.1112	19.8825
123	74.0361	18.2506
124	74.1293	18.2123
125	73.9262	20.8634
127	74.0179	19.2985
128	74.2116	15.7818
129	74.3292	15.7708
131	74.0329	17.0921
132	73.2838	20.1816
133	73.8762	15.7646
134	73.2917	18.0346
135	73.8744	18.0533
136	73.2079	20.1065
137	73.4285	20.4364
138	73.4266	20.3054
139	73.416	20.2726
140	73.3578	20.1963
141	73.501	20.6588
142	73.6228	20.6055
143	73.6677	21.1502
144	73.6165	21.1373
145	73.6692	21.1088

## अनुबंध ख3

## गोवा राज्य में आने वाले पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र का राज्य-वार मानचित्र




**गोवा में पारि-संवेदी क्षेत्र की बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतर**

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
1	74.061	15.6167
2	74.0747	15.585
3	74.0886	15.5509
4	74.082	15.5315
5	74.0956	15.5021
6	74.1345	15.5168
7	74.1222	15.4865
8	74.0765	15.4595
9	74.0736	15.4127
10	74.1451	15.3546
11	74.1572	15.2726
12	74.1658	15.2156
13	74.1222	15.172
14	74.0698	15.1603
15	74.1028	15.1079
16	74.1737	15.0881
17	74.1586	15.0672
18	74.097	15.042
19	74.0633	14.9976
20	74.0904	15.3369
21	74.1355	15.2921
22	74.0895	15.3022
23	74.0471	15.6247
24	74.1187	15.6524
25	74.1191	15.4324
26	74.1723	15.1895
27	74.2903	15.2865
28	74.2845	15.3846
30	74.2842	15.139
31	74.2565	14.9944
32	74.0886	14.8973
33	73.954	15.0733
34	74.0037	15.0992
35	73.9808	15.0539
36	74.0384	14.9855
37	74.1823	15.0414
38	74.1574	15.1446
39	74.1075	15.284
40	74.2832	15.5271

अनुबंध ख 4

कर्नाटक राज्य में आने वाले पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र का राज्य-वार मानचित्र




**कर्नाटकमेंपारि-संवेदीक्षेत्रकी बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतर**

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
1	74.4129	15.6723
2	74.4876	15.5252
3	74.6629	15.4352
4	74.5932	15.2894
5	74.66	15.0722
6	74.8283	15.1482
7	74.8796	14.967
8	74.9464	14.8263
9	75.011	14.556
10	74.8652	14.2586
11	75.4945	14.0639
12	75.6272	13.7396
13	75.7526	13.6307
14	75.8488	13.3619
15	75.6886	12.9701
16	75.7594	12.6417
17	75.7	12.3889
18	75.798	12.1444
19	76.063	12.1388
21	75.9291	12.5904
22	76.0666	12.2477
23	76.2529	12.1801
24	76.4395	11.964
25	76.6229	11.8531
27	75.4768	12.6429
28	75.4099	12.73
29	75.3231	13.0082
30	75.0113	13.236
31	74.9341	13.4982
32	74.7493	13.7269
33	74.6565	13.8462
34	74.5589	14.0847
35	74.5099	14.375
36	74.3415	15.7662
37	74.1127	14.9139
38	74.4032	14.6117
39	74.5263	14.2409
40	74.4801	14.1365
41	75.3164	12.4984
42	75.6327	13.0114
43	75.7697	12.6816
44	76.5561	11.8571
45	71.2007	31.6736
46	75.4844	14.1767

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
47	75.1941	14.2836
48	74.95	14.396
49	74.9011	15.0293
50	74.6538	15.3973
51	75.6091	13.7619
52	75.6079	13.8175
53	75.8127	13.5053
54	75.8119	13.4009
55	75.6333	13.1691
56	75.78	12.4875
57	75.9165	12.388
58	76.087	11.9669
59	76.8555	11.6903
60	75.9437	12.8503

अनुबंध ख 5

तमिलनाडु में पारि-संवेदी क्षेत्र की बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतर



## तमिलनाडु में पारि-संवेदी क्षेत्र की बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतर

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
1	76.3587	11.5908
2	76.484	11.5287
3	76.2936	11.4753
4	76.4141	11.4403
5	76.5232	11.3701
6	76.6616	11.4376
7	76.7509	11.6147
8	76.5443	11.6855
9	76.5505	11.3356
10	76.8576	11.3275
11	76.8158	11.2267
12	76.979	11.3812
13	76.8468	11.5823
14	76.8278	11.4419
15	76.7466	11.5029
16	77.0007	11.545
17	76.7311	11.1922
18	76.7516	11.119
19	76.8047	11.0562
20	76.6974	11.2378
21	76.6218	11.263
22	76.7846	10.8908
23	76.7399	10.9689
24	76.8442	11.0219
25	76.8403	10.5569
26	76.9277	10.4858
27	77.0441	10.517
28	77.0779	10.508
29	77.0757	10.3926
30	77.0957	10.3096
31	76.9054	10.2526
32	77.0137	10.3166
33	76.9682	10.3876
34	76.8399	10.3396
35	77.1681	10.4634
36	77.3215	10.4354
37	77.2622	10.262
38	77.2896	10.231
39	77.3497	10.2701
40	77.3928	10.2299
41	77.4353	10.2976
42	77.4089	10.3664
43	77.5377	10.3861
44	77.5389	10.2938
45	77.6344	10.2687

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
46	77.7063	10.2348
47	77.7317	10.3423
48	77.7157	10.3833
49	77.6559	10.4359
50	77.7524	10.4886
51	77.8165	10.3799
52	77.7829	10.2681
53	77.9114	10.2525
54	77.9753	10.1325
55	78.1257	10.1882
56	78.0026	10.2859
57	77.6005	10.1977
58	77.5129	10.2443
59	77.4065	10.1677
60	77.4647	10.129
61	77.4792	10.0654
62	77.3904	10.0104
63	77.2568	10.0352
64	77.1946	9.6102
65	77.3288	9.6757
66	77.4932	9.8542
67	77.5872	9.7667
68	77.4037	9.5274
69	77.4791	9.5639
70	77.5272	9.6455
71	77.6318	9.5993
72	77.5755	9.492
73	77.4443	9.4418
74	77.4065	9.3953
75	77.3412	9.4186
76	77.379	9.3137
77	77.3457	9.2004
78	77.2709	9.2035
79	77.3292	9.138
80	77.2939	9.076
81	77.247	9.0632
82	77.2143	9.0252
83	77.161	9.0076
84	77.1764	8.988
85	77.2291	8.9406
86	77.3238	8.8819
87	77.2808	8.9206
88	77.2584	8.878
89	77.329	8.772
90	77.3955	8.6927
91	77.2315	8.6385
92	77.494	8.6214



**तमिलनाडु में पारि-संवेदी क्षेत्र की बाहरी सीमा के मुख्य बिंदुओं के अक्षांतर और देशांतर जारी -**

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
93	77.5498	8.6042
94	77.34	8.5533
95	77.271	8.5808
96	77.5213	8.5209
97	77.5746	8.4171
98	77.4866	8.3937
99	77.448	8.4753
100	77.3076	8.4547
101	77.215	8.5113
102	77.2993	8.4024
103	77.3391	8.3529
104	77.3883	8.303
105	77.5358	8.3922
106	77.5572	8.2926
107	77.5406	8.1984
108	77.4718	8.2709
109	77.215	8.5113

## अनुबंध ग

राज्य	जिला	तालुक	गांव का नाम
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	अंजून
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	शिरोली
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	गुल्ले
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	बयालवाडा
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	पाली
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	सिंगना
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	सापीबुडरुक
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	जर्मा
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	ननेली
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	मलोनी
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	काँपरडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	कर्मबलीब्रम्हा
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	हेडोडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	उसटे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	अम्बेडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	डोंगवाडा
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	मुंसी
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	भुईपाल
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	बॉम्बेडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	वेलुज
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	सॉनाल
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	कुमारखंड
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	वलपाँय
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	सनवरडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	वेलगुए
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	हसोले
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	कर्मबलीबुर्जुक
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	बरजन
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	पनसे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	शेलपीखुर्द
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	भिरोन्डे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	खोटोडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	सिरसोडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	करनजोल
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	असोडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	मेलावली
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	गोटीखानडीवाडा
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	अंबेली
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	गवने
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	मालपोन
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	सुरला
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	सतरे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	गोली

गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	चारवाडा
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	आईवरेखुर्द
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	आईवरेबुदरुक
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	केलवाडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	रिवर
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	कोदाल
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	डोंगुरवाडा
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	डेरोडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	वयागनी
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	ननोडे
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	जरानी
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	कोदाल
गोवा	उत्तरीगोवा	सतरी	पेनरल
गोवा	दक्षिणगोवा	कानकाँन	कोला
गोवा	दक्षिणगोवा	कानकाँन	गा०नडोनग्रेन
गोवा	दक्षिणगोवा	कानकाँन	कोटीगांव
गोवा	दक्षिणगोवा	कानकाँन	पो०े०गुनीन
गोवा	दक्षिणगोवा	कानकाँन	लोलेन
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	सुरला
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	अलोट
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	द्रबंदोरा
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	संगोड
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	शिगोन
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	कमारखंड
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	कमारखंड
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	रूमबरेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	दुदल
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	सलवली
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	कुर्दी
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	रेवोना
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	कोलम्बा
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	नाक्युनिम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	डाईगली
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	नूने
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	सकवोरडे
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	मोलने
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	करनझोल
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	कोलेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	कोलेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	सोनाँली
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	बोमा
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	आक्सेल
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	डोंगर्ली
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	मलीनगेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	पटीएम

गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	उगेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	तोडोव
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	पोटरेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	वीलयान
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	डोंगर
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	पोरटेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	नेत्रावली
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	वेरलेम
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	वाटी
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	कुबारी
गोवा	दक्षिणगोवा	संगुम	सिंगोनेम
गुजरात	नवसारी	बंसदा	कालाअम्बा
गुजरात	नवसारी	बंसदा	केवदी
गुजरात	नवसारी	बंसदा	सदाददेवी
गुजरात	नवसारी	बंसदा	वघाई
गुजरात	नवसारी	बंसदा	अम्बाबरी
गुजरात	सूरत	सोंगध	खोखस
गुजरात	सूरत	सोंगध	कंनजी
गुजरात	सूरत	सोंगध	इकवागोलन
गुजरात	सूरत	सोंगध	मेधा
गुजरात	सूरत	सोंगध	नानातरपडा
गुजरात	सूरत	सोंगध	ओझर
गुजरात	सूरत	सोंगध	भारदादा
गुजरात	सूरत	सोंगध	हिनडला
गुजरात	सूरत	सोंगध	खादी
गुजरात	सूरत	सोंगध	टेमका
गुजरात	सूरत	सोंगध	ददी
गुजरात	सूरत	सोंगध	सेलझर
गुजरात	सूरत	सोंगध	कपडबंध
गुजरात	सूरत	उच्चाल	झरनपडा
गुजरात	सूरत	व्यार	धोलियाउमर
गुजरात	सूरत	व्यार	छेवदी
गुजरात	सूरत	व्यार	भुरीवेल
गुजरात	सूरत	व्यार	धमनदेवी
गुजरात	सूरत	व्यार	अमोनिया
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	बंधपडा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	गिरमल
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	धुलदा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	ककर्दा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	चिखाल (कालीबेलसजा)
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	सवरदकसाद
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	महल
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	चिकार (जावदसजा)
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	झरी
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	वदीयावान

गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	चीनचधरा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	करदियाम्बा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	महरदार
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	मोरजिरा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	मदालबरी
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	जवतला
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	चीनचली
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	रवचोंड
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	सदर (बोरखलसजा)
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	कोसमबिया
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	लिंगा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	अंजानकुड
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	उखतिया
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	कमद
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	चिनचोड
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	सीनबंद
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	पिलपदा (गलकुनडसजा)
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	मुरामबी
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	पयारपाडा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	वनकी
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	अमबलिया
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	वनार
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	उमरया
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	जमदर
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	समगाहन
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	कोटमदार
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	रनपडा
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	जोबरी
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	मेलगांव
गुजरात	दडेंगस	दडेंगस	बर्दपानी
कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	धमनेएस. बाइलुर
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	चीगुले
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	बेदगेरी
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	मोरब
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	हुलंड
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कनकुम्बी
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	बाइलुर
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	गोलयली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	उचवाडा
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	चोरला
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	बेटने
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	जमबोली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	जमबोती
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कलमनी
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	परवाड

कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	गवासे
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	चपोली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	चीखले
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	दरोली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कपोलीक. चपोली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	मुगवाडे
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	अमगोव
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कबनाली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	अलोली-कंसोली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कवले
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	गवाली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	नर्से
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	पस्तोली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कोंगली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	मनतुर्गा
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	खानपुर (ग्रामीण)
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	होलदा
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	तरगली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	जमनागांव
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	अबनाली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	शिरोली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	केलील
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	डोंगरगांव
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	मनदिल
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	देगांव
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	पदलवाडी
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	हेम्मदेगा
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	अम्बवाडी
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कमादेगा
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	किरवले (के.जी.)
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	बरखडपाटे
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	घोस (बी.के.)
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	मोहीसेट
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	घोटगली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	शिंधोली (बी.के.)
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	सतनली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	अकरली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	बसताबाड
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कोडगन
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	सुलेगली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	मुदेवाडी
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	नगरागली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	तारावाड
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	चिचेवाडी
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	सुवतवाडी

कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	कुम्बर्दा
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	घरली
कर्नाटक	बेलगांव	खानपुर	नगरागली
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बेरमवादीराज्यवन
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बेरमवादीजिलवन
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बर्गी
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बेरमवादीजिलवन
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	होेंगहाली
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	चन्नामलाईपुरा
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	मद्दुर
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बेरमवादी
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बच्चाहली
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	लक्कीपुरा
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	कल्लीपुरा
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	कुंगहाली
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बेरमवादीराज्यवन
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	हेगगवाडी
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	चिरकानहली
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	कदबुर
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बांदीपुरराज्यवन
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	मगुविनहाल्लीमेलकमानहल्ली
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बांदीपुरराज्यवन
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	बांदीपुर
कर्नाटक	चमराजानगर	गुंडलुपेट	कन्यापुरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	मेलगिरि
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	केसविनमने
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	हिलपा
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	हेगगरमतवनी
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	मदला
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	अथीगिरि
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	मेलीनहुलुवथी
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	केसवे
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	सुगुदुवनी
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	सिरगोला
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	कोलगवे
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	हगरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	शिरवासे
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	बिदरे
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	मलगरू
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	दत्ताश्रेयपैटा
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	चुरचुगुडेकवल
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	बोगगसे
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	बसपुरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	कदवंदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	बेरंगोडु

कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	हुग्रे
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	बसरवली
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	सरगुडी
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	बनबौर
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	अरेनूर
कर्नाटक	चिकमगलुर	चिकमगलुर	बिक्कारेन
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	केलकुली
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	गुनवंदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	हिरेकुडाइगे
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	बोलपुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	बंदीगडी
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	केसेव
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	कुम्बरकोप्पा
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	देवरहाल्ली
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	कग्गा
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	होंगरू
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	तलमक्कीराजय
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	अड्डा
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	नुग्गी
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	शंकरपुरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	हेगगरू
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	कंनचुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	मरीथोटलु
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	बिलगड्डे
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	होसरू
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	उदना
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	मचीकोप्पा
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	करिमने
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	बेलवादी
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	लोकनाथपुरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	दयामबल्ली
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	अदीगेबलु
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	हेगगरू
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	हुलीहरदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	देवगोडी
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	हरलेने
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	मेगुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	कोप्पा	कल्लुगुड्डी
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	थानदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	होर्नडु
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	कलकोडु
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	समसे
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	ईदकनी
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	केलगुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	कुनदुर



कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	दर्शन
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	अरमनेथालगुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	हेगुदलु
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	थटकोला
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	केनजिगेराज्य
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	दुर्गदहल्ली
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	मुदुगुंदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	बलुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	अट्टीग्रे
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	तरुवे
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	बरिमेलराज्य
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	कोगिले
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	गुट्टी
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	मुलरहल्ली
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	ऊबगे
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	होसक्रे
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	बाईपुरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	मेकंगट्टी
कर्नाटक	चिकमगलुर	मुदिगेरे	बाईरपुराराज्य
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	बाईरपुरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	कुसबुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	कोनकेरे
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	मदबौर
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	रामबल्ली
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	मल्लदुरू
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	विट्टला
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	कदहिनबाईलु
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	हाथबुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	बेल्लुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	डंडुबिट्टहरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	कोनोदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	नंदीगेवे
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	गुब्बीग
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	ंअरलीकोप्पा
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	वरकटे
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	सनकसे
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	बले
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	सलुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	हेब्वे
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	सरया
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	कनुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	वग्गडे
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	हरवरी
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	लेहाल्ली
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	दवना

कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	करेकेशवरा
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	होसुरु
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	मेगरमक्की
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	मुदुगुनी
कर्नाटक	चिकमगलुर	नरसिम्हाराजपुरा	हलसुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	नीलंदुर
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	एसनबलु
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	कुबरगुडु
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	मसीगे
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	मैगा
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	रुसलेशरिंगपुरा (मरकल)
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	मसिजे
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	येदादल्ली
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	येदादल्लु
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	बलकेदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	नेम्मरु
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	जिनिकल
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	कुथगोडु
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	केरे
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	सनकंडमक्की
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	मलंनदु
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	मुदुब
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	मलंदु
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	केरे
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	नेम्मरराज्य
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	गुलंगनरीमने
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	हदी
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	मथुवल्लीराज्य
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	बलग्रेरे
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	बलग्रेरे
कर्नाटक	चिकमगलुर	सरिंगेरि	शेरलु
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	हममियला
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	कलौरु
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	मोन्नंगिरि
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	मुक्कोदलु
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	गलीबेडु
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	समपाजे
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	मेलचम्बु
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	करिके
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	भगमडला
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	बेतथुर
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	मडे
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	कुडचेरी
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	कोपट्टी
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	थाननीमानी

कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	चेरंगला
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	कोलागडलु
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	सन्नापुलिकोट्टु (एसओ2)
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	अयनगिरि
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	पेरौर
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	नालदी
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	लेवकपडी
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	चेलवरा
कर्नाटक	कुर्ग	मेरकर	करदा
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	कुमारल्ली
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	सुरलबी
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	मलंबीवन
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	मविनहल्लावन
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	निदथा
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	येदववनदुवन॥
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	जैनकलवैट्टावन
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	येदववनदुवन॥
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	बलॉकटसेजैनकलवैट्टा
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	एनकडवन
कर्नाटक	कुर्ग	सोमवरपेट	अतुरवन
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	कदीगुडु
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	मलद्रे
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	चनयानकोटे
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	देवमाचीवन
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	अरेकेरीवन -॥॥
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	अरेकेरीवन -॥॥
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	केदमुल्लुर
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	पलंगला
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	अरेकेरीवन -॥
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	देवनुर
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	हेगन
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	हथुगट्टुवन॥
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	कुट्टंदी
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	बदगा
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	बदगरकेरी
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	परकटहेरी
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	नलकेरीवन
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	थेरलु
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	कुर्ची
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	कुट्टा
कर्नाटक	कुर्ग	विराजपेट	मनचल्लीएवंवन
कर्नाटक	हासन	अलुर	अदिवलु
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अचानहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	मरगुनडा
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अगनी

कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	कुमाराहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	होडचहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	कदुमने
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	देवीहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	केसगनहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	कदुमनेराज्य
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	कदुमनेराज्य
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	हेगडड्डी
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अलुवल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	कगेनारीलराज्यवन
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	कदगरवल्ले
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	कदगरवल्ले
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	यदेवकुमारी
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	होेगदाहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	बलेहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	होसहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	मरकल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	जेदीगड्डी
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	बट्टेकुमारी
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	यथहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अथीहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अरिनी
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	यारगल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अथहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	मरगथुर
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अरिनी
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	वनगौर
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	मनकनहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	मनकनहल्ली
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	अरिनीराज्य
कर्नाटक	हासन	सकलेशपुर	बनगेरे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	कोदलागड्डी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	शिकलीतुरली
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	शेवकर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	कमगे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	लककेगुली
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	मल्लानी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	गुले
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	सोनागीनमने
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	सनकसल
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	कट्टीनहक्कल
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	हेगगर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	वरीलवेना
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	हलवल्ली
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	सकलवेना

कर्नाटक	कारवार	अनकोला	डोंगरी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	मरूगड्डी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	कनचीनमेल
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	बेरडे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	कममनी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	हेवबुल
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	हेगगर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	नवगड्डे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	अदलुर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	बोगरिबेल
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	अगसुर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	कंटगनी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	हिल्लुर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	तलगड्डी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	गुले
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	मनीगड्डी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	वसरकुडरिगे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	वरिलबेन
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	सुरवे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	वसरकुडरिगे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	अचवे
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	मोरल्ली
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	कोदसनी
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	शिरूर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	करेबैल
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	केनकनीशिवपुर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	करेबैल
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	ब्रह्मुर
कर्नाटक	कारवार	अनकोला	तकतगेरी
कर्नाटक	कारवार	भटकल	कोप्पा
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हेनजले
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हसरवल्ली
कर्नाटक	कारवार	भटकल	बदबग
कर्नाटक	कारवार	भटकल	अग्गा
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हुदिल
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हाल्लयानी
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हुदिल
कर्नाटक	कारवार	भटकल	अंतरावल्ली
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हाल्लयानी
कर्नाटक	कारवार	भटकल	कितरे
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हदवल्ली
कर्नाटक	कारवार	भटकल	वानीबगेल
कर्नाटक	कारवार	भटकल	कुरनदुर
कर्नाटक	कारवार	भटकल	मरूकेरी
कर्नाटक	कारवार	भटकल	कुरनदुर

कर्नाटक	कारवार	भटकल	कंटवानी
कर्नाटक	कारवार	भटकल	अरवक्की
कर्नाटक	कारवार	भटकल	बिलुरमने
कर्नाटक	कारवार	भटकल	वेसे
कर्नाटक	कारवार	भटकल	केरेहिट्टल
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हेज्जिल
कर्नाटक	कारवार	भटकल	हल्लारी
कर्नाटक	कारवार	भटकल	केक्कोड
कर्नाटक	कारवार	भटकल	वेन्नदौर
कर्नाटक	कारवार	भटकल	कगगुदुरी
कर्नाटक	कारवार	भटकल	मुगली
कर्नाटक	कारवार	भटकल	नुज
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	चंदवर
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	कदनिर
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	होदकेशिरौर
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हिरेबेल
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	होसगोड
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	सलकोड
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	निलकोड
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	जैनाकदकल
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	गुंडबाला
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	माहीमे
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	तुमबोल्ली
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हेरवली
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	जलवल्ली
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	सरलागी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हुलेगर
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हनेहल्लीकाबिनाहाक्कल
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हेरंगाडी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	नगरबस्तीकेरी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	केलगिन-ईदगुनजी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	उपोनी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	गुलवनते
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	नगरबस्तीकेरी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हिनूर
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	बिरंगोड
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	बिगोदी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	मगोद
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	मेलिन-मन्नीज
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हदगिरी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	शिरकुर
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	मगोद
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	गुडमक्की
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	अदुकल
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	मंकी

कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	खंदोड़ी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	दब्बोद
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हडिकल
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	अदेकीकुली
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	अशीकेरी
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	कोटा
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	तुम्बेवीला
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	सामपोली
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	सुलेबिल
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	हिराली
कर्नाटक	कारवार	हाँनवार	कुचोड़ी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	पालदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	रंगारुक
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	विरांजोल
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अखेती
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	वाट्ला
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	देवुल्ली (तिनाई)
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अखेती
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	पयासवादी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अनामोद
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कालंबुली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	चंदवाड़ी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	दुर्ग
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कॉन्सेट
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कुनाजिनी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अमसेत
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	चपोली (ए)
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	काम्रा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	मिरासकुम्बेली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	शिंंगारगाँव
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	वेलिफकुम्बेली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	आसू
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बोरी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	इवोली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कुदालगाँव
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बोरगाली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	तिम्भोली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	वैजगाँव
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अवेदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कसारली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	वादा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बामनवाड़ी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कुवेशी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कुम्त्राल
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	डॉन्सीट

कर्नाटक	कारवार	जाँइद	वरान्दी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	पुशेली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बंदोदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बंडोडा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	वैनी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	जागलबेट
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	उसोदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	असुल्ली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	पिसोस
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कोंदा (हलीयाल)
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	विराल
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	मावालिंग
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बदगुंड
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	डिग्गी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	विरनोली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बेपली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	पणजेली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	तिराली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	प्रधानी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	गेवगली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	सामजोयदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	नगोदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	सनगेव
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	जालावली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	चपोली (कलसई)
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	जोयडा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	चपोली (कलसई)
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	देरिये
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	नागरी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	चपोली (ए)
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	हुसादा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कावली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कुंदल
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	केतिल
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	गंगोदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	केतिली (कम्बरवडा)
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	गंगोदा
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कुम्बेली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	तिनाईखण्ड
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	गोदाशेट
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	गुंड
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	गुंड
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कालासई
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	नुज्जी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अम्बोली



कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अम्बोली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	ईरामुख
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	निगुन्दी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	चफर
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	वेदसगड्डी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बडपोली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बिडोली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	हिब्ल
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	शिवापुर
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अनाशी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	तुलाशगिरी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	शिवापुर
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	अलवी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	कोदथल्ली
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	नेतुरगी
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बिरखोल
कर्नाटक	कारवार	जाँइद	बिरखोल
कर्नाटक	कारवार	कारवार	लांदे
कर्नाटक	कारवार	कारवार	कामरगाँव
कर्नाटक	कारवार	कारवार	गोयार
कर्नाटक	कारवार	कारवार	गोतगाली
कर्नाटक	कारवार	कारवार	मैगिनी
कर्नाटक	कारवार	कारवार	वालेमानी
कर्नाटक	कारवार	कारवार	भैर
कर्नाटक	कारवार	कारवार	काद्रा
कर्नाटक	कारवार	कारवार	गोपशित्ता
कर्नाटक	कारवार	कारवार	हन्कोन
कर्नाटक	कारवार	कारवार	मुदगेरी
कर्नाटक	कारवार	कारवार	होतगेली
कर्नाटक	करवार	करवार	दिवाकर
कर्नाटक	करवार	करवार	आरव
कर्नाटक	करवार	करवार	स्वांतवाडा
कर्नाटक	करवार	करवार	मल्लापुर
कर्नाटक	करवार	करवार	वीरजे
कर्नाटक	करवार	करवार	केरवादी
कर्नाटक	करवार	करवार	कूचेगढ
कर्नाटक	करवार	करवार	कादिए
कर्नाटक	करवार	करवार	कैगा
कर्नाटक	करवार	करवार	देवालमक्की
कर्नाटक	करवार	करवार	शिरवे
कर्नाटक	करवार	करवार	नीवली
कर्नाटक	करवार	करवार	हरतुगा
कर्नाटक	करवार	करवार	सिददार
कर्नाटक	करवार	करवार	कडवाड
कर्नाटक	करवार	करवार	बरगल
कर्नाटक	करवार	करवार	नीवली
कर्नाटक	करवार	करवार	बेलूर

कर्नाटक	करवार	करवार	नागेकोवे
कर्नाटक	करवार	करवार	शिरवाड
कर्नाटक	करवार	करवार	तोदुर
कर्नाटक	करवार	करवार	चेन्दीये
कर्नाटक	करवार	करवार	अरगा
कर्नाटक	करवार	करवार	अमादल्ली
कर्नाटक	करवार	कुमता	हेरले
कर्नाटक	करवार	कुमता	याना
कर्नाटक	करवार	कुमता	कडकुड
कर्नाटक	करवार	कुमता	कोलीमनजागुनी
कर्नाटक	करवार	कुमता	संदोली-मुटोली
कर्नाटक	करवार	कुमता	बेलांगी
कर्नाटक	करवार	कुमता	कुरीगडडे
कर्नाटक	करवार	कुमता	मुगवेकनवादी
कर्नाटक	करवार	कुमता	येल्लावल्ली
कर्नाटक	करवार	कुमता	कोडाम्बाले
कर्नाटक	करवार	कुमता	आनेगुन्डी
कर्नाटक	करवार	कुमता	येदातारे
कर्नाटक	करवार	कुमता	यातिन्नाबेल
कर्नाटक	करवार	कुमता	हेबबेल
कर्नाटक	करवार	कुमता	अल्कुड
कर्नाटक	करवार	कुमता	नीलकुड
कर्नाटक	करवार	कुमता	आनेगुन्डी
कर्नाटक	करवार	कुमता	अन्तरावली
कर्नाटक	करवार	कुमता	संतूर
कर्नाटक	करवार	कुमता	भान्डीवल
कर्नाटक	करवार	कुमता	कनाकले
कर्नाटक	करवार	कुमता	मलवाल्ली
कर्नाटक	करवार	कुमता	कावालोडी
कर्नाटक	करवार	कुमता	कलवे
कर्नाटक	करवार	कुमता	शिरगुंजी
कर्नाटक	करवार	कुमता	मोरसे
कर्नाटक	करवार	कुमता	कलाबे
कर्नाटक	करवार	कुमता	बंगाने
कर्नाटक	करवार	कुमता	कंडावली
कर्नाटक	करवार	कुमता	मुदगी
कर्नाटक	करवार	कुमता	होसद
कर्नाटक	करवार	कुमता	सोपिनहोसाली
कर्नाटक	करवार	कुमता	दिवाल्ली
कर्नाटक	करवार	कुमता	मुंडनाल्ली
कर्नाटक	करवार	कुमता	बसोल्ली
कर्नाटक	करवार	कुमता	मेदिनी
कर्नाटक	करवार	कुमता	संतागल
कर्नाटक	करवार	कुमता	होलानगाड्डे
कर्नाटक	करवार	कुमता	अबोली

कर्नाटक	करवार	कुमता	हिंदबेल
कर्नाटक	करवार	कुमता	हरवाली
कर्नाटक	करवार	कुमता	ऊल्लूरमठ
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	गिराडे
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	अरेहल्ला
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	देवीसार
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	शिगेहाल्ली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	घत्तीकई
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	तागीनबलगर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	केलगिनसरकुली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मदांकल
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	अदकल्ली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मनीगर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	यूम्बलमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हल्लीबेल
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कांचीकई
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	येलुगर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हलदोत
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बोलेकई
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	गुलगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	गवीनगुडे
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बीदारमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मुलगुंडा
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	करजागी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बालेसर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हुल्लेनडे
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मटटीहाली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हीरेकई (कोडसरहलकानी)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	सुरगीकोपा
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मुधाली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कालेनहल्ली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	तारेसर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	नीलकुड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कोडसर (मुथाली)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	नन्दयाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेगगी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	गोडलाब्रिल
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हसारगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेगगारानी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हुतागर (मुथाली)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	सम्पागोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हुकाली (वाजगोड)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हरिगढ
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हंडियानेमठ
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेगे

कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हविनबिल
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	शिवालमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	उन्नचाली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	नीडगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	अलगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मुट्टीगे(गुंजागोड)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेगगोडमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	गोलगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	होन्नेकोम्ब
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हलदोत
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	नालीगर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बंदीसारा
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	गिजागिनी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हादिरीमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हलागडीकोपा
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	नैईगढ
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	इल्लीमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कस्तूर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बिलेगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कडावडी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मानवीकोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	डोडमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बल्लाटी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेगाडे
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बालेसर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	नीरगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कौनसाले
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बिलगी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बालेकोपा (शिराल्गी)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बालगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	माघेगर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कोलगी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	बेगार
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कुडेगोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कोडीगाडे
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मुत्तीगे (कवलकोप्पा)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	इतागी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	संगोलीमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	दनमाव
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	तारागोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	तालेकेरी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	केरीमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	अल्लावली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	अल्गोड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	सुत्तालमाने

कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	माटीगर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	चन्द्राघटगी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हुकाली (वाजगोड)
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हरालीकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कोडगाडे
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मालेमाने
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेमागर
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेजानी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	किलार
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कुलीबिड
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कोडकानी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मालवाजाडी
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	हेगगेकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	कोरालकई
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मूसावली
कर्नाटक	करवार	सिद्धापुर	मालवाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गद्दीहाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गद्दीहाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सोनागिनमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	धोरानगिरि
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कोडनागाडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	यादल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुस्की
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गोडाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मोगाडडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कोनामुस्की
कर्नाटक	करवार	सिरसी	दासनगाडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	वनाल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	औदाला
कर्नाटक	करवार	सिरसी	शिवाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हुलगोल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गुरूवल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सिरगनी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुदुबेल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बक्काल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सोंदा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गोनसर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	अंगोदकौप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	उल्लाल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कोदीगर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कुगटेमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हुदेलकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बोप्पानल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	नकसे

कर्नाटक	करवार	सिरसी	बेंगी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुरेगर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हरेहुल्लेकल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	अंगासल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कुगटेमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	केलगिनकेरी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सदाशिवाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मलालगांव
कर्नाटक	करवार	सिरसी	शिगेहाल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मनदुर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	इसलूर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कोटेकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हेबबल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुडगनमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	केलगिनओनीकेरी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	उम्मादी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	नीलकानी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बिसलाकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सरगुप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हुल्देवनसर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मट्टीहाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	नैईगढ
कर्नाटक	करवार	सिरसी	पुरा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	जददीगोडडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	अच्छानल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मोदूर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	दासनगाडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हरेपाल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गोनगट्टा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सिंगालनल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	देवनल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	केन्दारजी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गोनूर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कारजीगीमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हेडीजेमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बायागाडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कलवे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हुसरी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	ओनीगडडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुंडागेसर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुरगुंडी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	क्याडगीकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हेडीगेमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सन्नाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	याचादी

कर्नाटक	करवार	सिरसी	हेरगर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बेनागांव
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सुगावी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कलकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कल्लाल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हक्कीगडडे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कालूगर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कलकारडी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुंडागेसर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	काम्बीगर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कनाल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गडगेरी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	अदाल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हल्लूसरगी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	टेप्पर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	होस्टोटा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हल्लूसरगी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मंजागुनी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हेब्रे
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कोडगीबाली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कलगुंडीकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	नविलगर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	गाडीहल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बिदराल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	वाडिडन्नाकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	होस्टोटा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हदललागी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	नवानगरी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कुकरी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सोमानल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	उपलेकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	उम्बलेकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुंडगेहल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	सम्पाखंडा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	जनमाने (एच)
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बंडल
कर्नाटक	करवार	सिरसी	तुदुगुनी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कुगटेमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	मुडगेहाल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	हानागर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	नेरलावल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बीसलाकोप्पा
कर्नाटक	करवार	सिरसी	देवीमाने
कर्नाटक	करवार	सिरसी	देवीमाने

कर्नाटक	करवार	सिरसी	होसुर
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बालावल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बदागी
कर्नाटक	करवार	सिरसी	कडगोड
कर्नाटक	करवार	सिरसी	अदल्ली
कर्नाटक	करवार	सिरसी	बुगादी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	होतागेरी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	लालगुली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	किरावती
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कन्नीगेरी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	गोटगुली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	नगराखान
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कन्नादागल
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	सवागाडडे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	अन्नोड
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	मदनूर
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बिल्लेगेरी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हिरीयाल
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	गोपाडमाने
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बारागडडे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कात्तीगे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बिस्मोड
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	चिम्मानल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	सिस्टामुडी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	देहाल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	टाटागढ
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हमसानागडडे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हेगगापुर
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कलासुरु
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बालागढ
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	सोमानल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	लिंगाडाबेलू
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हुतखांडा
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बाराबल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	दोनागर
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बंकासल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बेदीगेरी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	चाँदगुली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कालाछे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कोमांदी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	वागीनकाटा
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	गाडीजोगाडमाने
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	छिमनाली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	भोमनाली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	घरवास



कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	पुरातबोमाली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बेगार
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	तेलानगर
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	इडागुंडी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बिल्की
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	केरेहोसाली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	तारगर
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	होतागेरी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	चिकोटी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	मलालगांव
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	होनागडडे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कोडलागडडे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	काम्पली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	मावीनामने
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	सिरानाला
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हेगुमबाले
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	आलवाड
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	मागोड
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	गुल्लापुर
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कैलाशी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	दाबागुली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बारे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हालागोड
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हालारामाने
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बारे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	जाङ्गोली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कुसगुली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बैचगोड
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हरिगाडे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	यादल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हालासिनकोप्पा
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	ऊचागेरी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बिडराली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	जाडडीगाडडे
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	गेरल
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हिरेसर
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	भारतनाहल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	इलेहल्ली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हितलाली
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बेलाम्बी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कानागोड-बालेहाडा
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	तारेहाला
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हासलमाने
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	भारानी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	चवाटी

कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	हेमादी
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	बिजानाकोप्पा
कर्नाटक	करवार	येल्लापुर	कानुर
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	नारवी
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	मालावनथीगे
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	कुथुरु
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	सुलकेरीमोगरू
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	सिरलालू
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	नवारा
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	सवानालू
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	चारमाडी
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	सुलकेरी
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	नवोरू
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	नेरिया
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	नाडा
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	पुदुवेट्टू
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	शिशिला
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	कलांजा
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	शिवाजे
कर्नाटक	मंगलौर	बेलथानगढी	रेखाया
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	कोवकराडी
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	गोलीथाट्टू
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	शिराडे
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	अलानथाया
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	श्रीवागीलू
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	इचलामपाडे
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	श्रीवागीलू
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	बाल्या
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	कोम्बारू
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	बिलीनेले
कर्नाटक	मंगलौर	पुत्तुर	डोलपाडये
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	बालपा
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	येनूकालू
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	सुब्रामण्या
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	सुब्रामण्या
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	नालकुरु
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	कुथकुंजा
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	इनाकिडु
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	देवाचल्ला
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	हरिहारापल्लाथडका
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	बालागोडू
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	बालागोडू
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	मादाप्पाडे
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	उबारादकामिटूर
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	कलमाकारू

कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	अरानथोडू
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	अलेटटे
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	सम्पाजे
कर्नाटक	मंगलौर	सूल्या	थोडीकाना
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	राजेगोदानहुंडी
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	सोलापुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	गोवदीमाचानकानाहाल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	सिददापुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	मेटीकुप्पेफोरेस्ट
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	अगासानाहुंडी
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	मेटीकुप्पे
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	मेटीकुप्पेकावेल
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	अमानीजंगले
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	हीरेहल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	होननूरकुप्पे
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	अंधारासंते
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	रागलाकुप्पे
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	माचनगोडानहल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	काकानाकोटेफोरेस्ट
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	कोनानालाथुर
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	एन. ब्रेलाथुर
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	नीसना
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	नीसना
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बेगुरू
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	केचनहाल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	हरियालापुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	कितुर (थेरानीमंती)
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	शंबूगोवदानाहल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	कालावालू
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	थेनेकालू
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	लक्ष्मणपुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	हरियालापुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बाईरापुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बेगुरजंगले
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	हुरालीपुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बदागा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	कंडालाइके
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	अलालाहाली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	सिगेवादी
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बैंकावादी
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	अनेमाला
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	होसाकोटे
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	चन्नागुंडी
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	नेतकलहुंडी
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	काकानाकोटेफोरेस्ट

कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	होसाकोटे
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	काडेगडडे
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	हीरेहल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	मोलेयुरु
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बेरामबादीस्टेटफोरेस्ट
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बेगरू
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	चौवदाहाल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	इंनूरमारीगुडीजंगले
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	कुरनागाला
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	चिक्काकुंदुर
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	अनकुपुरा
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	बारागी
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	अलानाहाल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	वेदराहाल्ली
कर्नाटक	मैसूर	हेगदादेवनकोटे	हीरेहाल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	नान्दरी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	डोडडाबिलागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अलावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हुलुसालेमालावाल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	होलागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अमाची
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	थोटाडाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हरीदरावती
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	एचहुनासावली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मेनासे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मासारूर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	नेलागलाले
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कनागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	गुबबीगा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मेलीनासम्पाली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	चुरडा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बसावापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मजावना
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	नेरालामाने
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बसावापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बेनावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अरासालू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	सिदियापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	वीरभद्रापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	काचीगेबाईलू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कालासेट्टीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कुकाकालाले
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	होसाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	जेनी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बिल्की

कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अंदागोली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हीरेमाथे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हालेथोटा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हरोहीथलू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कालकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कोटेशिरूर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मालावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हेबब्रीगे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	पुनाजे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	नीलाकांतानाथोटा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	थम्मादीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अरागोडी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मलाली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	केसारे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	एच. होनेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	करागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	तिरिगा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मासागल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हरमबल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	दुम्मा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कोलावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कालीकापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मुगदथी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मुलागाडे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कुसगुडी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कालासे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	तलाले
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मुथुर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	गुबब्रीगा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कलकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	यालागल्लु
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अदागोडी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कल्लूर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कागाची
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कारीगेरासू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बेल्लौर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	नागोडी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हुलीगाडडे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मंजागलाले
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	के. कुन्नूर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हेबबुरली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	होसुर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बिधारल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बेहाल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	के. कुन्नूर

कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मासाकानी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	शाकावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	एल.गुडडेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	वाधाहोसाली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अमरूथा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मलालीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	सावनथूर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अरामानेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कम्माची
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बालेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	एच. होनेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हीरीयोगी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कटटीनाहोले
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	दोबिलो
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	माथीकाई
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	ब्राह्मणाथुरवे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कोदुर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	नेल्लूण्डे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	श्रीनीवे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कोडासे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	आनेगाडे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	भ्रामानवादा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बसावनाबाइना
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	किलान्दुर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	थोगारे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बाइसे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मुदुगोप्पा (नगरा)
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बिल्लोडी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हिलोकुंजी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कालूविडीअब्बीगल्ला
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	मलाली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बेल्लौर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	किलान्दुर
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कादिगरे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कारीमाने
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कबाले
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	रायावे
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	अदागोडी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	ख्यारुगुंधा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	गिनीकल्लू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कोलावदी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	नीदागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कवारी
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	सूलागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	यादूर

कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	काटकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	हुम्मानदागल्लू
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	गूबीगा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	बेगाडाली
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	उलथिगा
कर्नाटक	शिमोगा	होसानगर	कोरानाकोटे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	गुथानहाल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	तालाकालाले
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कोरलीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	तालावाटा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हालावागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	जम्बानी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	तालावाटा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बिलीसिरी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मादासुरु
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कानूथोटा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बिदारूर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हीरेमाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बेलानदुर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	लावीगैरे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हीरेमाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	केरोडी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बेल्लाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मल्ला
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	भाइरापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	युरूलागल्लू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कुडीगैरे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	होन्नेमारादू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नादावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	ब्राह्मणाइल्लाकालाले
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कानूरू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नारागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चन्नाशेट्टीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नीचादी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हीरेबिलागुंजी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बालीगैरे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	यालावरसी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	सम्पाली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	शिरागुप्पे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	सम्पाली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कनापागारू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मंडावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बानूमाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	अरालागोडे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	यालागलाले

कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नीटलीहालेथोटा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	अरावाडे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हरोगोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चिक्काबुल्लागुंजी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हेनागेरे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बनादाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	गोथामपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हीरेहराका
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बाइअदाराकोप्पे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	काप्टेमाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	उल्लूरू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	केशाविनमाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कोप्पारिगी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हुलाकोडू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	पुरादासरा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कासपाडी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	होतालासारा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नागावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कोप्पालगाडे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चन्नाशेट्टीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	गुडीहितालू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नेदारावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नादावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	दानानदुर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चिक्कामातुर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मट्टीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चिपली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नदावडल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	ब्राह्मणाचित्राते
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हारोगोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नारासिपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	भानुकुली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मुमबालू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कानूरइनम
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	नन्दीटाले
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मलाली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	होनगोडू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	जाम्ब्रेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	होसागुंडा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चन्नागोंडा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	वालीगे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मावीनासारा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कानूमाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मुडीगेसारा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	तनगलावाडी



कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चन्नीगनाथोटा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	गुडीहितालू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कालूरू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	तूमारी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	संगाला
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	अम्बरागोडूलू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हिब्बासे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	जीलालागुंडी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बल्लीबाइलू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बलागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हेबबारिगे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	चदारावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कुरवारी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	केरेहितालू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	वेसुर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	येबबोडू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	तुमारीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	काप्टेमाने
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	हेगगाटू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	अराबल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	लक्कावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	सतालालू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	गीजागा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	इंडूवल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	काटटीनाकारू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	गंतीनाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कुडारूरू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बोबबिगे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	होतलासारा
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कोलूर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कोलूर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कानीके
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मलूरू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कालूर
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	कोडानावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	बरूवे
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	अदागालाले
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	करानी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	तालागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	शनकानाशानूभोग
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	मराटी
कर्नाटक	शिमोगा	सागर	वेल्लूर
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	गुनगारागाटे
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	येरेकाटटे
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	सिदिदगिनाहालू

कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	सुथाकानाडे
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	मरकनाडे
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	केसाराघट्टा
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	मदरावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	कम्बादुरु
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	यारेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	माथीघट्टा
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	किट्टाधाली
कर्नाटक	शिमोगा	शिकारपुर	कुतराहाल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कुमसी
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कोनेहोसुरु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	थुप्पुरु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अलकुनी
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	वीटागोन्दानाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	केसावीनाकाट्टे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	सन्नीवासा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	केम्पेनाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	होराबाइलू
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	भैरनाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कोरागी
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	शान्तीकेरे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	शेट्टीकेरे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	माडेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	मंदागट्टा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	सुदुरु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अदागदी
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	वीरागरनाभैरनाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	चिकमथथल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	छन्नाहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अभीसारा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	छन्नाहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	इंटीगहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	डुडताथल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अदिनाकोटिज
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	थिवराकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	भिरीगेरे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	थम्माडीहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	चितीहल्ला
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	थावरकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	गुददाअरकरे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	मुंजरीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कूडी
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	होसुरु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	पुराडलू
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अनुपिनाकोटे

कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	मालशंकरा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	मालेशंकराराज्यवन
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	हनुमतपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	गोविंदपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अगसावल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	भेट्टीहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	इच्छावाडी
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	बासवपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	सकरेबायलु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	थाटीकेरे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	होसाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	चियाशेट्टीहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	गजनुरूमुलाकेरे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	वीरापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कुदगलामाने
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कुसकुरु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	यरुगनालु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	काडेकल
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	हुरूहाली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कोडयोडलु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अम्लेबाइलु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	सारीगेरे
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	गनीडलु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कोड्युडल
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	सिदमजीहोसुरू
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अमलेबायलु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	करनाहुसडी
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	लिंगपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	अरनाली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	हमचदकते
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	हुताल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	आलूर
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	वातागारु
कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	कराकुची
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	केसारी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	योगीमलाली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	युम्बलेबैलु
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मुनियूर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हीरेकालाधली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हैंगिरी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	थोरेबैलु
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शंकरपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	चिकमथथल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	ऐलेज
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मांडला

कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शिरनाली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बीडे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मेलिनकडागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कोम्बीनकाय
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हेगलायी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होसाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	जोगीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कीगंडी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हाडीगल्लू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	डेमलापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बासवनमाडे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कोननदूर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	अदीनासारा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	अकलापुर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हलवनहाल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	गर्गा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	सुरूली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	वेनकनहाली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कितनदूर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कटेकोपा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मल्लपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	सिंगनबिदोर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	सलेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	किकेरी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	ट्रायम्बाकापुर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	यमरावली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हुलुकोडी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	तलाले
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होसकिरे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कुलूडे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	अतिगड्डे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कुछ्छालु
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	खंडका
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कलावती
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बोमनाहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	नीरलमने
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	वीरूपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	थोटडकोपा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	नीरलकोपा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बीसु
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	यदावती
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बिलुवेहरीहरपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	टेनकाबायल
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कंगलाकोपा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	नंदीगोडू

कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	उबुरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हलगा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कंडेगाडे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	नेकरागोडू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कंगलाकोपा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बायलुबडगी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मलिनपडरवल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	अगसडी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शिनुवडी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बंघा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हलसवला
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	तेंगीनकोपा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शेडगार
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होसाकोडीग
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मिटलागोडु
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कावेरी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हेमाकी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	लिंगपुरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	तायनानडोरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	याडेहल्लीपाल
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कुटुमल्लिगे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बिजूवेहरिहरपूरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	किमाने
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कावलेदुर्गा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	यदागुडे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बेज्जवल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बोबली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कासामाडु
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	जंबूवल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बेक्कीकेंजीगुड
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बोबलीहिंचुवाली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होसाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हालूमहिषी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	केलकेरे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कोक्कोडू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हेड्डूरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	महिषी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हंसडूर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बिंटाला
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कुडुवल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कोलागीबिलू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शेट्टीमालाकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होलेकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मुन्नूरहल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कोडलू

कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मरूगावडे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	अंगलागोडिगे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	लक्कुंडा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मावाडी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	इंगलडी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होराबेलू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	अलमाने
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	अंदागेरे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बोगारूकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बिलूमाने
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शेदगर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	मनीकोप्पा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कोलागी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होन्नेकेरे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शुंटीहरूलू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	थून्नमने
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हरूलू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हडगिनमक्की
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शिवाली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	यदमने
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	हडगिनमक्की
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	ठेरम्बापुरा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बेल्लांगी
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कोलिगे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होलालूरबेटागेरे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	काबासे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बेक्कानूर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	दसनाकोडिगे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	गुरुवल्ली
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कीराकेरे
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	शिररूरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होसूरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	चंगरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	होन्नेतालू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	कुंडा
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	नानतूर
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	तल्लूरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	तल्लूरू
कर्नाटक	शिमोगा	थिरथाहल्ली	बालेहल्ली
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	बेलेजे
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	नाडापालू
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	कच्छूर
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	चारा
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	हेबरी
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	कब्बीनाले

कर्नाटक	उडुपी	करकाल	अंडारू
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	शिरलाल
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	कस्बाशे
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	दुर्गा
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	माला
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	इदु
कर्नाटक	उडुपी	करकाल	नूरालबेलू
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	होसूर
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	बिडूर
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	कोल्लूर
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	येलजिथ
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	येलजिथ
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	ठगारसी
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	मुडूर
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	गोलीहोल
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	जडकल
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	इदुरकुंहडी
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	केराडी
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	हालीहोल
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	एलूर
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	चिट्टूर
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	एडमोगे
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	बेलाल
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	वांडसे
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	होसानगडी
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	मच्छट्टूर
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	आमसेबेलू
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	आमसेबेलू
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	शेडीमाने
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	मडम्मक्की
कर्नाटक	उडुपी	कुंडापुरा	बेलवे
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	मरयूर
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	कीचथूर
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	काननदेवनहिल्ल
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	कूट्टमपुजा
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	कोट्टम्बूर
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	काथल्लूर
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	वट्टावडा
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	मनकूलम
कर्नाटक	इडुक्की	देवीकुलम	मन्नम्कदम
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	बिटाका
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	शेनित
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	वारागुंशी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	जहांगिरवरवाडी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	अम्बेवनगन

महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	पंजारे
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	घटवार
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	उददावने
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	मुरशेट
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	ब्रहनवाडा
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	शिनगनवडी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	समराड
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	रत्नावडी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	शिरपुंजूबीके
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	कोल्टेम्भे
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	धमनवन
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	कुमशेट
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	शिरपुंजूख
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	शेलाड
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	शिसवाड
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	एमबिट
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	शिलवडी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	लवहालीओटूर
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	पेठान
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	पचनाई
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	कोटूल
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	लवहालीकोटूल
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	अंभोल
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	शिंडे
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	सोमलवाडी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नेय्यटिकारा	ताले
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	कोथले
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	विहिर
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	अबिटखिंड
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	पलसुंदे
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	अमरावती
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	फोफासंदी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	सतवाडी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	केलीआतर
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	गरवाडी
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	ईसरथव
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोला	खेतवाडी
महाराष्ट्र	धुल	सेक्री	धमंधर
महाराष्ट्र	धुल	सेक्री	शेनवाद
महाराष्ट्र	धुल	सेक्री	वारदादी
महाराष्ट्र	धुल	सेक्री	मोहागाँव
महाराष्ट्र	धुल	सेक्री	केलगाँव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	हजगोलीख.



महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	विनायकवादी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	मेधवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	वेलावत्ती
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	परपोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	दरदेवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	हलोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	गावेस
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	सुलेरन
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	कितवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	अम्वाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	अवान्दी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	उचान्गी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	केरकबोल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	पोलगाँव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	सतवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	चेफवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	लतागाँव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	इरान्डोल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अज्रा	चीतले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	निवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	विसारदे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	तालियेबीके
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	कोडेबीके
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	कोडखा
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	मंदुर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	मंदुकाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	अंदुर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	खोरकुरले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	असलाज
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	धुदवाडे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	वेसराफ
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	पलसांबे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	सैतवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	संगाशी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	शीलोशी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	जारगी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	कताली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	कादेव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	बोरबेट
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	गरीवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	नारवाडी

महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	बावेली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	वेव्दा	तालियेखा
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	हन्वारवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	गिरगाँव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	फाई
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	फनासवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	दिवेकवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	खेजवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	मुरुकेत
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	बिद्री
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	वसनोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	पदखाम्बे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	शिवदेव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	वेदिव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	सोनूरली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	अंतुरली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	कुदतरवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	नावले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	मिघोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	म्हासारंग
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	वासरदे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	दिवारदे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	पलयाचहुदा
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	मथगाँव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	करिवाद
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	चिक्कीवादी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	एन्टीवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	मनि
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	चिवाल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	भुद्रगाद	देली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	धामपुर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	पुन्द्रा
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	कानूखा.
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	सदगुदवाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	भोगोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	पिलानी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	कोकरि
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	नागेव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	उमगाँव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	जाम्ब्री
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	गुदवालेखालसा

महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	ईसापुर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	जेलूगढी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	वागोत्री
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	कितवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	मीरवेल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	कलसगढी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	हजगोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	कोदाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	खाल्साम्हालुंगी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	चन्दगाद	कोलिक
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	पतपनहाला
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	वाशी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	कौरवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	मनवाद
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	किसरुल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	मुगदवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	पोहलवादी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	काल्जावाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	पदसाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	कोलिक
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	पोम्ब्री
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	गोथनी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	हरपावडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पनहला	पानोर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	कनोलीतर्फआसंदोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	कान्दालगाँव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	राय
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	मनवेट
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	पदसाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	पिरेल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	पडाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	फेजीवाडे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	करंजफेन
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	ओलावन
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	शिरोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	सावर्धन
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	राधानगरी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	वनाचिवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	न्यूकरंजे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	रमनवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	फरेल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	पटफानहाला
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	ऐनी

महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	राजापुर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	चाफोदीटर्फांग्होल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	सार्वर्दे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	ग्वाथनवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	वाडाचिवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	अदोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	राधानगरी	दुबालेवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	सोनारली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	चंडेल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	दुर्गावाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	वाडीहुडुंब
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	कारदे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	ढकाले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	अंबोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	तनाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	तमवे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	निवाले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	उखालु
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	उदगिरी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	शिरालेटर्फवरून
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	कंदावन
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	मलगांव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	गोलीवने
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	जंबूर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	पलसावडे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	विरले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	परेलनिनाई
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	पुसारले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	वाकोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	अंबा
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	तलावडे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	चालानवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	मासनोली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	हुंबावली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	घोसलावाडे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	जवाली
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	कासरदे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	वाडीकालकावने
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	धनघरवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	गजापुर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	येलनजे. गइ
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	ऐनवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	महाल्सावडे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	गेलावडे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	पान्नुधरे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	शिरालेटर्फमल्कापुर
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	गिरगांव
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	परिवाने

महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	मंजारे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	बुरंबल
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	सोनुरले
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	येलवाडी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	मौसूम
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	कांटे
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	अनुसकुरा
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	बरकी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	सावरदी
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	साहूवाडी	इंजोली
महाराष्ट्र	नंदरबार	नवापुर	करेघाट
महाराष्ट्र	नंदरबार	नवापुर	खेकाडे
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	गोलवाड
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	जाड
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	अजंडे
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	बोरदाईवत
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	भीमखेत
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	जखोड
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	वाघांबे
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	भवाडे
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	मनौर
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	सलवान
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	मलगांवख.
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	वाथोडे
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	केल्जर
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	टटनी
महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	वाडीचौल्हर
महाराष्ट्र	नासिक	डिण्डोरी	डियोसाणे
महाराष्ट्र	नासिक	डिण्डोरी	मोखनल
महाराष्ट्र	नासिक	डिण्डोरी	देहारे
महाराष्ट्र	नासिक	डिण्डोरी	पलसविहिर
महाराष्ट्र	नासिक	डिण्डोरी	गोलदारी
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	धरगांव
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	वालविहिर
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	तिरंगलवाडी
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	चिंचालेखैर
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	भण्डारडरावाडी
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	मंजरागांव
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	कुरुंगवाडी
महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	जामुंदे
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	मालागांवब.
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	सुपालेदिगर
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	उमबर्धे
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	सिद्धार्थनगर
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	कोशवान
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	विरशेट
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	धनोली
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	भण्डाने (हटगड)

महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	डरेभनागी
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	धरदेडिगर
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	शृंगारवाडी
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	मोहोबारी
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	डरेगांवहटगड
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	इनशी
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	कोशुर्दे
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	करमभेलहटगड
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	अमडर
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	जमलेपले
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	दह्याने (औतर)
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	जमशेट
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	भूसानी
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	खुर्दने (औतर)
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	डरेगांववानी
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	पिम्परीमारकंडा
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	सप्तशरूंगाबाद
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	मेहाडर
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	वडाले[वानी]
महाराष्ट्र	नासिक	कल्याण	मंचीधोधप
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	अमडोंगरा
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	सददपडा
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	गंधोले
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	कापुर्णे
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	क्यारे
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	डाभदी
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	कुंभाले
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	लवहाली
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	सदाददपडा
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	बेलपडा
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	गरमल
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	अंधुते
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	टोंडावल
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	चफ्याचापडा
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	अंबापानी
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	काहनडोलपडा
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	कासतविहिर
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	खडकी
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	उमबराड
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	बोरपडा
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	जंभुलमल
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	नाचलौंधी
महाराष्ट्र	नासिक	पीन्ट	मरमूटी
महाराष्ट्र	नासिक	सिन्नार	गलवांच
महाराष्ट्र	नासिक	सिन्नार	खोपाडीख.
महाराष्ट्र	नासिक	सिन्नार	शाहापुर
महाराष्ट्र	नासिक	सिन्नार	केदारपुर

महाराष्ट्र	नासिक	सिन्नार	खोपाडीख.
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	गोंडुने
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	पंगारणे
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	पिंपलासौंउ
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	वंगन
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	मालगोंडे
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	सुंदरवन
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	मोहापडा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	गुहीजंभुलपडा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	करंजुलसुरगाना
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	विजयनगर
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	खुंटाविहिर
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	गलबारी
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	रणविहिर
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	श्रीरामपुर
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	उदलदरी
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	राशा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	दोलहरे
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	कठीपडा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	अमज़र
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	वालुतजिरा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	श्रीभुवन
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	करवांडे
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	मोठामल
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	वंगनसुले
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	पटली
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	बेंडवाल
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	भावडा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	अमबारडे
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	वाघहडी
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	करंजुल
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	कोटांबा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	मेरडंड
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	दंगरेले
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	पिलुकपडा
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	मुरमढरी
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	उंडोहल
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	वारांभे
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	भेनशेट
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	खोबालेडिगर
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	खोखरविहिर
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	खिरडी
महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	काहनडोलपडा
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	चिंचओहल
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	खडाखोखल
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	वेहदपडा
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	कडेगहां
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	हटलौंधी

महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	ओज़रखेड
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	बेरवाल
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	चिंचवाड
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	महोदेवनगर
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	रायाते
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	बेलपल्ली
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	वेघोलपडा
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	जटेगांवब.
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	मलवाड
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	राउतमल
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	वारसविहिर
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	वटकापडा
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	देवला
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	नंदगांव
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	वैलुंझे
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	मेटकावाडा
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	अंबाई
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	चोकोरे
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	अंबारंडे
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	मेटाघरकिल्ला
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	हरषेवाडी
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	तकेहर्षा
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	पाहिने
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	तेकदेवगांव
महाराष्ट्र	नासिक	त्रंबकेश्वर	मेटयेलयाची
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	पिम्पारगढे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	डॉन
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	अघाने
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	अहूपे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	मलिन
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	तिरपाद
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	नहावेद
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	पाटन
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	असाणे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	नानावडे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	अदिवरे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	कुशीरेबीके
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	कोंधरे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	सकेरी
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	पंचालेख.
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	पंचालेबीके
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	फूलवडे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	कोंधावल
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	अपति
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	दिगड
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	वचापे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	मगहोली
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	सावरली



महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	जंभोरी
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	पिंपरी
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	अंबेगांव
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	अमोंडी
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	चपटेवाडीकनास
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	कलमवाई
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	तरुणगन
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	फालोदे
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	दिंभेख..
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	महालुंगेटर्फघोडा
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	राजपुर
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	निगडले
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	चिखाली
महाराष्ट्र	पुणे	अंबेगांव	ढखाले
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	करुंगवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	केटकवाणे (निम्मे)
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	गुहिनी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	किकावी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	खुलसी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	सरोले
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	भूतोडे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	डेरे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	चंदावणे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	कुंबले
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	वेलवंड
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	भण्डरावली
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	नानावले
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	भोपे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	ब्रह्मनगर
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	कोंडागांव
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	सांगवी (वेलावडेखोरे)
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	जयतपाद
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	पंगारी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	देहन
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	नंदघर
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	राजवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	करंजगांव
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	सालुनगन
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	कुंद
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	महाशरख.
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	महाशरख बीके.
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	अमबर्दे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	शिलिंब
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	कोंधारी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	धामुंशी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	करुणगन
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	निगुदाघार

महाराष्ट्र	पुणे	भोर	चिखलावडे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	अशिम्पी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	वेनापुरी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	वरावण्ड
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	शिरगांव
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	पनवहाल
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	मज़ारी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	शिराली (हिरदासमावल)
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	अभेपुरी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	दपकेघर
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	पावहरख.
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	दुर्गादी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	गुढे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	रायारी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	कुडालीबीके.
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	कुडालीख.
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	निवंगन
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	धनीवलि
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	बालावडी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	कोरले
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	अंबडे
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	रावडी
महाराष्ट्र	पुणे	भोर	वरोडीबीके.
महाराष्ट्र	पुणे	हवेली	घेरासिन्हागद
महाराष्ट्र	पुणे	हवेली	भगतवडी
महाराष्ट्र	पुणे	हवेली	खमगांवमवाल
महाराष्ट्र	पुणे	हवेली	मोगारवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	खीरेश्वर
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	कोल्हेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	कोपरे
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	जांबुलशी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	सांगानोर
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	मण्डावे
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	अंबेगवहान
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	चिल्हेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	मुथलने
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	तलेरन
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	पिम्पलगांवजोगा
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	अजनावाले
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	नीमगिरी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	देवाले
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	परगांवटर्फमध
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	अलु
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	मण्डारने
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	कोलावाडी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	घटघर
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	अहिनेवडी

महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	रोहकडी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	गोडरे
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	फागुलगव्हाण
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	पुर
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	अंबोली
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	भिवाडेबीके.
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	उच्चहिल
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	हटविज़
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	भिवाडेखं.
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	अंबे
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	पिंपरवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नार	सुकालवेधे
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	भोरगिरी
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	भिवेगांव
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	करकुडी
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	मंदोशी
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	नैफड
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	टोकावडे
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	एवहट
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	भोमले
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	शिरगांव
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	वडा
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	खरपड
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	विरहम
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	वंडरे
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	डरकवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	बुरसेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	टोरनेखं.
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	अधे
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	अंभु
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	खरावली
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	वेलहावले
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	पालू
महाराष्ट्र	पुणे	खेड	गदद
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	मालेगांवबीके.
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	सावले
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	पिम्परी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	मालेगांवख.
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	कुसुर
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	कुणेअनसुते
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	दाहुली
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	किवाले
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	बोरीवली
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	कांभरेअंदरमवाळ
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	खशाल
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	जंभावली
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	थोरन

महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	रक्शवडी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	शिर्धे
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	कल्हट
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	नंदगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	उधेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	उकासन
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	बलावंति
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	खण्डाशी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	पलेनणेमवाळ
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	निगाधे
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	ब्राह्मणवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	वाउंड
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	करंजगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	कुरणेएन.एम.
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	मोरामरवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	वेहरगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	कुरवण्डे
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	भोरज
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	पाटन
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	दुधीवारे
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	भाजे
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	पिम्पलाई
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	आउंधोली
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	मालेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	अपति
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	घेवण्डेअपति
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	अतवान
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	शिंदगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	डिक्सी
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	मोरावे
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	मलावंडीथुले
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	ओवाले
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	पुशाणे
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	डिवड
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	तिकोना
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	शिलिम्ब
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	जोवन
महाराष्ट्र	पुणे	मवाळ	अजीवलि
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	देवघर
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	पेठशाहापुर
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	अबावणे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	विसाखर
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कोलावलि
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कशिंग
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	अंधले
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	मजगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	सलतार
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कुंभेरी

महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	पोमगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	पिम्पपलोली
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	चांदीवली
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	तेलबेला
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	बरपेवीके.
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	जवाल
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	शिरवली
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	भमभर्डे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कोलवान
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	नंदीवली
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	डोंगरगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	पदलघरवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	होटाले
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	एकोले
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	अडगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वलेन
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	घुटेक
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	भदासबीके.
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	पिम्परी
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	टाटातलव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	दिसाली
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	मुलशीख.
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	शेयर
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वंद्रे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कोंधावले
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	मले
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	मदेड
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	नाइव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	विठ्ठलवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वडगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	चिंचवाड
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वराक
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	तमहीनीवीके
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	लवहर्डे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वेगरे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कोलावडे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	तेमघर
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वेडे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वातुंडे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	भोडे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	मौगांव
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	भाईनी
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	धामनोहोल
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	दसावे
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कौंधपुर
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	पडलघर
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	अडमल
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	पलासे

महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	कोलोशी
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	वडावली
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	सखारी
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	गडेले
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	सैवख.
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	मोज़ख.
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	दाधावाली
महाराष्ट्र	पुणे	मुलशी	तव
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	चिवेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	पनवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	घेरापुरंधर
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	केटकावले
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	भंडालवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	कुंभोशी
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	दावनेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	सतालवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	पुरंधर	पिंगोरी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	मौज़वीके.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	वडघर
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	डपसरे
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	घोलपघर
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	कम्बेगी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	बलवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	कढवे
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	चिकालीख.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	अंबेगांववीके.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	कुरतावाडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	कसेडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	रंजने
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	घोडखल
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	गोंडेखल
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	गिवासी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	घोड्सहेट
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	शिरकोली
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	घोल
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	थनगांव
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	टेतपोले
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	मनगांव
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	पोले
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	अंतरौली
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	खानी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	नीवी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	घैसर
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	वेल्हैवीके.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	भोपालघर
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	चंदर
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्है	ब्राह्मणघर

महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	खोडाड
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	वेल्लहैबीके. घेरा
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	भट्टीवागडरा
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	घैवंडे
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	चारहटवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	मोहारी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	मेटपिलावेयर
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	हरपड
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	वरोटीबीके.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	कोलंबी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	जाधववाडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	सिंगापुर
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	डडवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	पिंपरी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	एकलागांव
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	बरशीचामल
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	पलख.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	वरोटख.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	असानीमंजाई
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	खोपडेवाडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	गुजांवणे
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	पसाली
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	भोरडी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	मज़गांव
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	पिशावी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	गुगुलशी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	खेलड
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	निगडेख.
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	पंगारी
महाराष्ट्र	पुणे	वेल्लहै	कर्णावडी
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	पशेन
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	ओलमन
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	चाई
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	बालीवेयर
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	चेवणे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	बोरगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	नंदगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	वरे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	कुरुंग
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	अंभेरपडा
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	देवपडा
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	पथराज
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	सुगावे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	गुधावन
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	राजापे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	शीलर
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	शिगढोल

महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	ढोत्रे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	जंबरुंग
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	धमनी
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	पेठ
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	मालेगांवटी. कोठालकलाठी
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	पिंपलपडा
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	हेडावली
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	मंडावणे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	बामनोली
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	पोटल
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	भिवपुरी (कैप)
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	हमगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	जंबीवली
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	पालीटी. कोथलकलाथी
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	सैदोनगर
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	ढक
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	वैगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	खुशीवाली
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	तिवाणे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	मनगांवटी. वसारे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	संदशी
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	पलसधरी
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	मुगापे
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	सल्ये
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	तालावली
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	खरवांडी
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	कौंधाने
महाराष्ट्र	रायगढ	करजत	चौची
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	सौंडेवाडी
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	वरोसेटर्फवंखल
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	मथेरन (एमसीआई)
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	बोरगांवख.
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	नंधल
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	कलोटेमोक्की
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	निगडोली
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	कलोटेरयाती
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	तालावली
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	घोडीवली
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	जंबारंग
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	उंबरवीरा
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	परखांडे
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	तलाशी
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	अडोशी
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	टोंडाली
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	खंभेवाडी
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	गोहे
महाराष्ट्र	रायगढ	खालापूर	चव्वाणी



महाराष्ट्र	रायगढ़	खालापूर	उजलोली
महाराष्ट्र	रायगढ़	खालापूर	करमबेली
महाराष्ट्र	रायगढ़	खालापूर	तुकसाई
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाद	कवालेटर्फनटे
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाद	संदोषी
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाद	करमार
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाद	वारंगी
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाद	भवाले
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाद	पुनाडेटर्फनटे
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	सवरात
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	पाने
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	घिराखिलारायगढ़( रायगढ़वाडी)
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वाघिरि
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	कदरारीलिंगाना
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	दापोली
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	नेरव
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वाघोली
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	पंडिरि
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वारांडोली
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	खरडी
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वालनखा
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	सेवते
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	देवघर
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	तलोसी
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	केतोकीचाकोंड
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	चपगांव
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	मंडल
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वालनबीके
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	अदराई
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	अम्बेशितार
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	नंदगांवकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	कुसगांव
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वाकीकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	कोलोसे
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	पडावी
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	किनजोलीबीके
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	सोलमकोंड
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वीर
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	कीनजालोलीकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	कसावेशितार
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	घुरुपाचाकोंड
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	डोंगरोलरी
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	परमाची
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	दसगांव
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	वाहुर
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	टालिये
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	कोकारेतारफगोवले
महाराष्ट्र	रायगढ़	महाड	दाभेल

महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	गो केएच
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	सेपतारफगोवले
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	किये
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	वदघरकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	गोथवली
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	बेबलघर
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	तिलंगमोहल्ला
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	पिम्परवाडी
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	नडगांवतारफतुदिल
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	अम्बावलीकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	सुतारकुंड
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	पिम्पलकुंड
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	कांडमलउसरे
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	घेवरकोंड
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	फोजीअम्बावडे
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	कावलेतरफविनहरे
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	पनगिरि
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	रवताली
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	शिगरकुंड
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	वसाप
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	विनरे
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	तमहाने
महाराष्ट्र	रायगढ	महाड	फालाकेवदी
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	पटनुस
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	साजे
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	बडगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	भागड
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	अम्बारदी
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	तसगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	येलवाडे
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	भुवन
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	बोंडसेट
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	संगी
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	कांडलगांवकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	वेवदिवाली
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	जिते
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	मल्सुते
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	तितव
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	कुम्भारते
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	बोरावली
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	सोखेलवादी
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	सिरसद
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	नीवि
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	नगरोली
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	कुम्भे
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	मंजुने
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	माशिदवादी
महाराष्ट्र	रायगढ	मनगांव	जोर

महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	कर्मवेली
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	पल्सगांवकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	कादापुर
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	बोरगडतरफखरवाली
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	घरोसी
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	डोंगरोली
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	कवीलवहलकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	वघोसे
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	चपडी
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	कुमसेट
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	मंजरवाने
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	पनहलगढकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	शिलिम
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	गोवेलकोड
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	अल्सुंदे
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	कुसेदतरफगोवेले
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	जुन्टाँफ 3 टाहबंद
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	हरकोलकोद
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	हरकोल
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	वदपाले
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	लाखपाले
महाराष्ट्र	रायगढ़	मनगांव	फलानी
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	मतवन
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	वेव
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	धरवाली
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	वदघरबीके
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	कॉम्थे
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	सादे
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	तुरभेकोड
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	तुरभेबीके
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	धावले
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	बोरगड
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	नावले
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	चांदले
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	अदावलेबीके
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	खानदज
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	वजरवाडी
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	सल्वीकोड
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	चिखाली
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	रानावाडीबीके
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	खोपद
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	चंदाके
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	कर्नजे
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	लाहूलेस
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	हल्दुले
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	दभील
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	रंकादसोरी
महाराष्ट्र	रायगढ़	पोलादपुर	गोलेगंजी

महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	टुटावाली
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	पंगोली
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	पारसुले
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	महरगुल
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	कोतवालबीके
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	केसीतरापल
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	पलचील
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	कोतवालकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	कुदपनबीके
महाराष्ट्र	रायगढ	पोलादपुर	कुदपनकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	कोंडगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	पालस
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वासगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	नागोथाना (सीटी)
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	कदसूरी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वानी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	पतनसांय
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	चीकानी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	भतसांय
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वजरौली
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वंगानी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	सानेगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	भीसे
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	गोदासांय
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	हेदावाली
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	पालेतरफअसतामी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वावेपोटेज
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	डोंगारी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	सिनवई
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	रेवोली
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	यशवंतखार
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वारावाडे
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	दपोली
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	सुकेली
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	धामानसाई
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	कांडले
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वंडोली
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	वीथालवादी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	आरेबीके
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	सेदसांई
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	देवाकन्हें
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	माधलीकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	पींगलसांई
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	खांब
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	नंदावाली
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	घेरासुरगड
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	टालावालीतरफअस्तामी
महाराष्ट्र	रायगढ	रोहा	धानकने

महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	वीले
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	चिनचावलीतारफअटोने
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	मलसाई
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	महालंगे
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	तालावालीतारफघोसले
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	चांदगांव
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	मुथावलीकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	वैजनाथ
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	तालावादे
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	उसर
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	बलहे
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	दोलावाहल
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	रोहा (गोलवादी)
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कामथ
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कोकबन
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	पनगलोली
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	वारथी
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	नेहरूनगर
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	खेराले
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	शिलोशी
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	भूवनेश्वर
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	सरसाली
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	खाम्बरे
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	खोपे
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	धातव (सीटी)
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कोलड
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	सुदाकोली
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	बोबादगड
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	खनदर
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	तेमघर
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	तमहनसेत
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	तमबेदी
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कारीवाने
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कावलथे
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	भरसीट
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	मासदी
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	सावने
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	वाली
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	घोसले
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	केलघर
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	जाधावादी
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कान्ती
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	गोपालवत
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	उचेल
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	भालागांव
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कांदनेबीके
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	कान्दनेकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ़	रोहा	खाजानीवादी

महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	गोंदव
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	हटोंड
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	फलयाण
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	भेलीव
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	नेरे
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	माहागांव
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	वेवटी. आसरे
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	मनगांवकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	वासुन्दे
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	पवासलावादी
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	खान्दपोली
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	वरहदजमभूलपाडा
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	तादगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	कावेले
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	कुमभारघर
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	कालम्ब
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	वागोशी
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	हरनेरी
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	उधार
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	आसरे
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	मूलासी
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	नवघर
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	चिखालीगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	घेरासुधागड
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	भिलापाडा (खूरावाले)
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	तिवारे
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	पिलोसारी
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	करंजगड
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	चिव
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	नदसूर
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	राराले
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	कुम्भासेत
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	खान्दसाई
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	रबगांव
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	घिरासारासारासगड
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	सिधेश्वरबीके
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	वावलौली
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	जेप
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	अदसूसे
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	सिलोसी
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	मधाली
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	अपतवाने
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	अमबीवाले
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	खादसाम्बले
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	पोतलाजकेएच
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	गोंदाले
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	पीमपलौली
महाराष्ट्र	रायगढ	सुधागड	उसर

महाराष्ट्र	रायगढ़	सुधागड	नगसेत
महाराष्ट्र	रायगढ़	सुधागड	गोमासी
महाराष्ट्र	रायगढ़	सुधागड	अटोने
महाराष्ट्र	रायगढ़	सुधागड	कोसीमबल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	तिवारे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	रिकटोली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	तिवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	बामनोली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	पेथेपरशुराम
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	कदवाद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	नन्दीवासे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	मोरवाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	स्वायामदेव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	खोपद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	गणेशपुर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	काकवाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	गने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	ओवली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	पधाम्बे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	काकेवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	आदरे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	कमाथेकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	तेरववीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	मुन्देतरफचिपलस
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	खारावेट
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	अनारी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	अबहेल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	श्रीगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	कुम्भारली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	कोंडमाला
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	कोंडफनसेवने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	तलसर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	पोपहली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	कुदप
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	पोपहलीबीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	दरवन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	तूरमबो
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	मुंडेतरफसवरदा
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	धक्कमोली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	फूरुस
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	दुर्गवादीकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	दुर्गवादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	मनजुत्री
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	तालावाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	पाथे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	माजरे (गोवल)
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	चिपलुन	कुतरे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	तुलसीबीके

महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	तुलसीकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	वदगांवबीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	शिवतर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कालमबानीकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कस्बानाटू
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	पाखरवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	दाहीवाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	वादी-बलदर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	दीवन-खवाती
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	वदगांवकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	किंजालेतरफनाटू
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	बिरामानी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कोंडवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	घेरापलगद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	सिंगरी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	पुरेकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	जामगे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	घेरा-सुमरगद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कंडोसी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	विहाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	किंजालेतरफखेद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	नन्दीवाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कालमबानीबीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	वादीमलदे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	पायानरकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	सखारोलीकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	टीसेकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	असतन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	घेरा-रासलगद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	वादीबीड
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	चाटो
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	प्रभुवादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	देवघर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	हुमबारी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	खलाची (हुमबारी)
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	सानाघर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	करतल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	चीनचावादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	वारोवाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	अम्बावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	नावानगर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कुम्बाद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	नन्दगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	संगलोत
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	श्रीगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	खोपी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	नीव



महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	बजरंगनगर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	मोरवन्देकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	चोरावाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	श्रीगांवकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	मिरले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	शिवकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	तलवंतखेड
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	सपरिली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	तलवतजवली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	चोरावानेउतेकरवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	तलवतपाल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कावले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कसाई
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	आस्तीमोहल्ला
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	साखर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	भेलसाईबुधावादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	धामानन्द
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	भेलसाईचौथाई
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	वेवचीनचोटवादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	धामानन्दगांवथन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	केलाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	जावलीगांवथन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	जगदेवादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कुम्भावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	कुरावलगांवथन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	खेड	अम्बादास
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	वेसुरले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	शिराम्बवाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कोचारी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	दाफाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	साल्पे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कुरचुमब
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	माचल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	चाफेत
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कंगावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	वरल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	चिंचुरती
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	खोरनीनको
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	पालू
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	हसोल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	अगरगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कुम्भारगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	पराभानवाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	गुराववादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	खानावादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	वाघरात
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कान्ते
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	केतलगांव

महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	बुद्धावादीटी.वरसावादीबीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	माजल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	रामगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	इसावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	जवादे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	भामबेद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	पूरागांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कुन्देवादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	भादे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	रावरी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	हार्डखाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	बापरे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	निवोसी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कुरंग
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	वाकेड
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कोंडाज
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	पेनोर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	विलवाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	रुन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	अरगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	खोरगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	बोरथाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	हरचे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	कोंडगांव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	लांजा	रिंगाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	जारे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	वतुल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	येरादेव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	कोंडदासूर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	परसूले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	चिखाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	कोंडसरकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	पनगारीकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	तिवारे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	धामनपे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	हारल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	वरचीगोरववादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	कोतापुर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	कोलवनखाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	सुन्दल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	खिंगिनी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	केलावाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	पाथरदे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	पाचल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	अगरेवादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	भाराडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	करक
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	हरदी

महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	गोथानेदोनीवाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	ओसीवाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	वलवद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	कजीरदा
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	फूपेरे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	राजापुर (एमसी)
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	कोलाम्ब
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	पाहिलीवादी (तम्हाने)
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	जम्भावाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	मिलेंड
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	बैगकाजीहुसैन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	हासोलतरफसाउन्दल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	पंगारीबीके.
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	सेवादेव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	हटाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	डोंगर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	मौसम
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	महालंगे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	पनहेलतरफसुन्दल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	सिजावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	वालये
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	बन्दीवाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	परिन्द्रावन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	कुम्भावाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	पाजापुर	पालये
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कुम्भरखानीबीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	शिराम्बे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	रतम्बी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	राजीवाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	शिंदेअम्बेरी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	विकासनगर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	असेव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कासे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कुचाम्बे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कुतगिरि
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	पचाम्बे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	रनगव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	अम्बेत
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	मावालेंज
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	तुरल
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	शिनावाडे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कोंडभायरव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	मासररेंज
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कातुरदीकोंड
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	निवाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	गोलावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	श्रींगापुर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	तम्बेदी

महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	अन्धेरी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	शिम्बावाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कुम्भारखानीकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	हेदली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	धामानी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	दिंगनी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	नयोरी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	पिरनदावाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	मंजारे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	तिवारेघेरापराचितगढ
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	असूरदे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	मालादेवादी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	उमरे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	संगमेश्वर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	उपले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कोंडअम्बेद
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	किन्जाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	वाशितरफसंगमेश्वर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	देवालेघेरापराचीतगढ
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कुले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कुरधून्दा
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	फन्सावाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	सायाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कतावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	तामनाले
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कुण्डी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	निगुडवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	गोथाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	बेलारीबीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	बेलारीवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कोंडओजारे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	तालावाडेतरफदेवरुख
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	मैथधामपुर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	चांदवाने
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	बेलारीकेएच
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	वामनोली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	सोनारवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	मारला
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	अगरेवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	करनदेवाडी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	हातीव
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	खादीकोलवन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	अंगावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	कोंडरन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	देवघर
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	बोंडेय
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	ओजरेबीके
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	नीवधे

महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	चाफावाली
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	निनावे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	दाखिन
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	मुरशी
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	भादकमवे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	भोवादे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	किरवेत
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	देवादे
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	संगमेश्वर	वादीआधीशिती
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	जोलामबी
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	वाशी
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	खुन्दलापुर
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	मनदुर (सीटी)
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	मनदुर
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	गुधे
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	मानेवाडी
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	पानुमबरेतरफवरुण
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	मेनी
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	चरण
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	शेंडेवाडी
महाराष्ट्र	सांगली	शिराला	नाथवाडे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	बोंडरवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	भूतेघर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वाहीते
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	येरनेबीके
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वलंजवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	उम्बारी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	येरनेकेएच
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	माजरेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अचाली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	देवासारे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	जारेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कुरालोसी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	हातेघर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सोंदारी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सेघर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कुरोसी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	दाभेमोहन
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	भालेघर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सोनत
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कलमगांवकलमकर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	दाभेदाभेकर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	दाभेतुरुक
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	ओखावाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	श्रीनार
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	लखवद
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कोतरोसी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	भोगावालीटी. मेधा

महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	खामब्रीयपोकले
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अमसी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	रंगेघर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	दिवदेव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मामूरदी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कंदत
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वरसोलीकोली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	गलदेव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	खामब्रीलचोरगे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	खारोशी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वदगारे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सनगांव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	दारेबीके
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	रेनोशी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	जादोनी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	हरचन्दी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	महतेकेएच
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मोहत
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	गोनदेमल
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वेंगले
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	बेलावाडे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	रुले
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	पालीटी. अटेगांव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	दोदानी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	गंजे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अपती
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	गावाधोशी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मारादमूरे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अगलावेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सालोशी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	उचाट
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	फूरुस
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कुमभारगानी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अवलन
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मोरगड
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	महमूलकरवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	लामज
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वालने
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	तम्बीटी. मेधा
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मोरवाले
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वालवान
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	संगवीटी. मेधो
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	निवाली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	नर्फदेव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	पर्वतटी. वेगवाले
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अहीर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	टेटली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मालेश्वर

महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मलचोंडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	निजारे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	गधावली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	धानकवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अकलपे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	करान्दीटी. मेधा
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कोलघर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सवारी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सयाली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अरा
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मोरनी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	दुंद
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	येकिव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सिन्दी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अन्धेरी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कस
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	महावसी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	चाकदेव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	पीमपरीटी. टम्ब
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	महालंग
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	रावंदी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मेटसिन्दी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	माजरेसेवन्दी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	माउजेशिवान्दी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	फलानी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	अदोसी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मदोसी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	खिरखान्दी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कुसापुरा
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मुनावाले
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	उमबारेवादी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	करगांव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मेटईनडावाली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	टम्बी
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वसोता
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	मलदेव
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	कुसावाडे
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	ताकवाली
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	देर
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	पालीटीटम्ब
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	वेले
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	सवरत
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	जुमगती
महाराष्ट्र	सतारा	जोंली	जम्बरुक
महाराष्ट्र	सतारा	कोरेगांव	रुटवादी
महाराष्ट्र	सतारा	कोरेगांव	गुजारवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	कसीतरामाहाबलेश्वर
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	जोली

महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	दारे
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	अवाकली
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	नाकीन्दा
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	महाबलेश्वर (एमसी।)
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	रनअदवागोंड
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	कुम्भारोसी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	मेतगुटाद
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	हरोसी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	दुधोसी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	पतपर
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	परसोंड
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	मेटटालिये
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	भेकावली
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	कुम्बथे
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	परपर
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	वीरवादी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	सिरवादी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	सिंडोला
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	नवाली
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	मालूसर
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	बीरमानी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	मनघर
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	टेकावाली
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	हटलोट
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	दुधागांव
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	गरोसी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	पारुत
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	चिखाली
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	येरानदल
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	चतुरबेत
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	घवारी
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	धारदेव
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	जंजवद
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	देवाली
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	वीवार
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	घोनासपुर
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	कलमगांव
महाराष्ट्र	सतारा	महाबलेश्वर	तलदेव
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	मलोसी
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	कुसावादे
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	कुसी
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	दिचोली
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	निवाडे
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	श्रीशिंगे
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	तोंदोसी
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	भारसाखले
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	धोकावाले
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	वैन



महाराष्ट्र	सतारा	पटन	धरोसी
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	निवाकने
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	मरलोसी
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	अरल
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	काथी
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	दिवासीकेएच
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	पुनवाली
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	गादेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	मनदुरे
महाराष्ट्र	सतारा	पटन	जादोली
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	किसरौल
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	गोजेगांव
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	नवाजा
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	चाफोली
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	धैलवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	मनधोशी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	मिरगांव
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	घानाव
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	वाटोले
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	तोरण
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	नहिमब
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	हमबरली
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	पदलोशी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	अमबावन
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	वाजगांव
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	घाटमाथा
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	केर
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	कमारगांव
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	धयाती
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	खारदवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	गोकुलतरफहेलवाक
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	करवाट
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	बोनदरी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	गाधावखोप
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	घेरादातेगद
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	शिवानंदेश्वर
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	नानेल
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	केमसे
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	मरूलतरफपटान
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	बोपाली
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	रासाती
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	थानकल
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	बाजे
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	मसतेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	नेचल
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	हेलवक
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	मनधेघर
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	कोनधावाले

महाराष्ट्र	सतारा	पटान	वनजोल
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	वघने
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	गोवारे
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	चाफर
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	काडोली
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	जाकाडे
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	तलीय
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	मानरी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	पाथरपुंज
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	कोलने
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	रिसावाड
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	नतोशी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	गोथाने
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	बाहे
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	माला
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	अमबराग
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	पंचगनी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	अतोली
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	कलकेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	हमबरवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	कोदल
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	काहिर
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	असावालेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	हमबारने
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	पालाशी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	पानेरी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	कासले
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	रूवाले
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	सातार
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	घोटली
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	नीवी
महाराष्ट्र	सतारा	पटान	कसानी
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	चिनचानी
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	गोगावालेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	अकाले
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	कामाथीटीसतारा
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	अगदेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	पाराम्बे
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	जोतिबाचिवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	अतालि
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	सावाली
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	भाम्बावाली
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	कुरूलबाजि
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	यावातेश्वर
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	पाटेघर
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	कातावालीख
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	नावाली
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	केलावली

महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	नित्राल
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	ताकावाली
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	कुसख
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	खादेगांव
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	संदावाली
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	चालकेवली
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	थोतेघर
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	रायगढ
महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	बोपोशी
महाराष्ट्र	सतारा	वई	जामभाली
महाराष्ट्र	सतारा	वई	घेराकेलनजा
महाराष्ट्र	सतारा	वई	येरूली
महाराष्ट्र	सतारा	वई	कोचालेवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	वई	खावाली
महाराष्ट्र	सतारा	वई	अभेपुरी
महाराष्ट्र	सतारा	वई	दुईचिवाडी
महाराष्ट्र	सतारा	वई	किरोनडे
महाराष्ट्र	सतारा	वई	जोर
महाराष्ट्र	सतारा	वई	कोनभावाले
महाराष्ट्र	सतारा	वई	गोलेगांव
महाराष्ट्र	सतारा	वई	उलेम्ब
महाराष्ट्र	सतारा	वई	बालाकावाडी
महाराष्ट्र	सतारा	वई	असागांव
महाराष्ट्र	सतारा	वई	नंदगने
महाराष्ट्र	सतारा	वई	पारातावाडी
महाराष्ट्र	सतारा	वई	जमभुलाने
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	भालावाडी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	पोमभुरले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	फानासगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	वेलगावे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	वघीवरे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	माहातुनगे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	नब
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	गाभीतामहने
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	शिरावाली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	शेवारे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	हबपिद
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	निमातवाडी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	चाफेद
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	लिनगदल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	सालशि
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	शेरीघेराकामते
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	एरे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	तमबालदेग
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	रेमबावाली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	कुवाले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	देवगाद	खुदी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	वाईनगानी

महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	शेरपे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	जामभालनगर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	दारूम
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	धारेश्वर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	ओजाराम
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	नागसावानतवाडी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	घोनसारी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	कोलोशि
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	फोनदाघाट
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	दामारे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	अयानाल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	उत्तरवाजारपेथ
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	कोनडये
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	हारकुलख
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	सवदेव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	मैन
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	भारनी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	कुमभावाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	तारानदाले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	गांधीनगर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	रामेश्वरनगर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	भिरावनडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	हमवारने
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	पीसकमाते
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	वारावाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	नाताल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	दारीसते
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	दिगावाले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	शिरवाल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	राजनगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	कासावन
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	पिमपालगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	ओसारगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	भाईरावगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	येवतेश्वरगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	नारदवे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	जामभाईगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कनकावली	कालासूली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	कुपावाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	गावालेगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	भुतवाद
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	दुर्गनगर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	भादगांवबीके.
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	भादगांवख
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	सोनावाडेटर्फकालसूली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	भारानी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	घोटागे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	निरुखे

महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	पानगराद
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	वरदे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	पादावे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	कादावाल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	एवालेगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	कुसागांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	रूमादगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	गिरगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	किनलोस
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	नेरूरके, नारूर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	हिरलोक
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	अंजिवाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	शिवापुर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	नारूर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	केरावाडेके, नारूर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	निलेली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	पानदूर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	वासोली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	चफेली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	घोथोस
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	निवाजे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	साकिरडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	उपावाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	पुलास
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	गांधीग्राम
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	वादोस
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	वालावाल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	अमबेरी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	मोरे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	मुदयाचाकोनद
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	कानडुली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	मदगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	कालेली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	तालीगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	मुनागी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	भाटगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	तेनदोली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुदाल	अकेरी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	शिरशिंगे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	अमबोली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	गेले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	सावारवाद
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	वेरले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	संगेली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	अमवेगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	ओवलीये
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	मदखोली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	कुनकेरी

महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	पारपोला
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	नेने
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	केगाद
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	देवसू
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	मासूरे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	दानोली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	भोम
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	निरुखे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	चाराथे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	केसरी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	चौकुल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	फनसावाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	करीवाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	वाबलात
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	सावंतवाडी (एमसीआई)
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	ब्रह्मपथ
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	सरमाले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	डाभिल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	उलली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	कोनस
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	घराप
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	मझगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	असनिये
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	तोम्बोली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	कुम्भावाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	देगांवे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	बंदा
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	पदमझगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	रोनापाल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	पदवे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	डांडेली
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	मदुरा
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	डिंगने
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	रोज
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	गलेल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	कंडुर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	सतरदा
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	डोंगारपाल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	गाडवे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	सतेलीटर्फसतरदा
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	तीरावादेटर्फसौंडल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	नेरले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	पालानडेवडी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	जामवाडे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	आखावाने
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	मंडावकडवानी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	उपले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	मंडे

महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	भूम
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	एनारी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	भुईवाडा
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	तीरावादेटर्फटारेपठान
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	कुम्भारवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	रिंगेवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	माघलेवाडर
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	कुम्भारी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	भाडेवारी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	कुभारे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	पिम्पलवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	भुवादेवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	येदगांव
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	कारूल
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	नरकरवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	नावले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	वायमओसी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	संगुलवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	वाघवे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	निम-आरूले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	मोहितवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	टमेवाड़ी
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	सदूरे
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	सिरले
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	अचिरने
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी	कुरली
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	बोपदारी
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	वावर
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	दहूल
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	दाधारी
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	ओजर
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	वानगानी
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	खारोंदा
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	हतेरी
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	मोरचाचापादा
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	तिलोंदे
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	पालशिन
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	कोगादे
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	अलयाचिमेट
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	अकारे
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	हाडे
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	गारादवाड़ी
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	कारधान
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	जुनीजवाहर
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	डेनगाचिमेट
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	कौलाले
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	कादाचिमेट
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	डोनगावाड़ी

महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	नंदगांव
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	चौक
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	जाप
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	एने
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	मानमोहादी
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	मेधे
महाराष्ट्र	थाणे	जवाहर	खिदसे
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	एसे
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	धामानी
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	दानदवाल
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	खोच
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	धोनदमारयाचिमेट
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	दोलहूरे
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	सायाडे
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	कुरलोड
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	नरेसा
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	बोडसी
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	केवानाले
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	गोमघर
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	सूर्यमल
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	पचघर
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	वाशिंड
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	वाकादपड
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	किनीसटे
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	अमले
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	खोचाले
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	कशती
महाराष्ट्र	थाणे	मोखादा	सिवाडी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	अलवे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	तालेगांव
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	मेरडी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	सिरोसी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	पंगलोसी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	वालीवाले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	कोचरेवी.के.
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	ठीठबी-टर्फरेशाखरे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	नयाहाडी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	दिवानपाडा
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	फनगाने
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	मोररुसी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	सावरने
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	उदालदोन
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	कारावाले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	वाईशाखरे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	सजगांव
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	पिमपालगांव
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	असोसे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	खुतालबंगाल



महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	अम्बेले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	एनडे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	हिरेघर
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	नंदगांव
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	पेंधारी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	एकलहर
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	मानगांव
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	बिद्यानगर
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	तेमभारेबीके
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	सोनावाले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	साजै
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	मध
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	पदाले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	खेवारे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	घोराले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	कोलोसी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	विभे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	शिरावाली
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	कालाम्भे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	कलामबादमु
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	कोले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	उमबरोली
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	दुधानोली
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	खोपीवाली
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	राय
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	गणेशपुर
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	डेहरी
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	उचाले
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	गोराखगाद
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	सिधगाद
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	मोहाघर
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	खानिवारे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	कचाकोली
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	मोहबाद
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	जामभुरदे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	दोनगरनहावे
महाराष्ट्र	थाणे	मुरबाद	पटगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	विजीगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	दापुर
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	तेमभे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अजनूप
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	बेलवाद
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	दनद
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	उमबरावाने
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अमबिवाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	दाहीगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	फूगाले
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पलासीन

महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	वसालाबीके
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	वावेघर
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	कोथाले
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	वेकूल
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	जारनदी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	घानेपादा
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	खारदी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अघै
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	धाकाने
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	कालभोनदे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	वाघिववाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	उमबारखंड
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पटोल
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पिंगालवाडी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	कलामगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	काशती
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	हिंगलुद
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	लाहे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पलहेरी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	नेवारे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	जुलावानी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	रोडवाहल
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पेंधारी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	नंदगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	मोहिल
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	चोनधेख
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	तानासा
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	कोथारे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	ताहारपुर
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	भावसे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	वेहलोनदे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	जामभुलवाड
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	कानविनदे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	चोनधेबीके
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	वेदवाहल
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	गानदुलवाड
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	सावारोली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	साखारोली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	खोसते
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अतगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	साजीवाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	साकुरली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	खोर
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	किनैशेत
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	सावारोलीबीके
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	देहेने
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पिवाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	माहुली

महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	सरलामवे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	खुतादी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पुंधी
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	चंदरोती
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	मामनोली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	खाराडे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	भोरानडे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	वानदरे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	भिनार
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	लिंगायाते
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अवाले
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	गुंडे
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	कातबो
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अदीवाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अमबेरखोर
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	दाहागांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	असानगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	मालेगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	नरायाणगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	लावाले
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	खातीवाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	कुदशेत
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	बोरशेतीख
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	बेदिसगांव
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पाशाने
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	उमभरै
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	लेनदेबीके
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	साने
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	अमबिवाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	खेरीवाली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	पासोली
महाराष्ट्र	थाणे	शाहापुर	भागदल
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	अखादा
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	विरहे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	उज्जैनी
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	पिंजाल
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	दभोन
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	पाचघर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	सातरोनदे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	शिलोत्तर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	पीक
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	मानदावा
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	खोदादे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	ओगादा
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	पाराली
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	दहिवालीकुमभिसते
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	अमगांव
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	कुमदाल

महाराष्ट्र	थाणे	वादा	अमभै
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	तिलमाल
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	कारानजपादा
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	देवाली
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	कोलिमसरोवर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	पोशेरी
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	शेले
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	गुहिर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	हरोसाले
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	कंचाद
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	धापाद
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	वाघोते
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	धाधारे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	बालीवाली
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	गालतारे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	वावेघर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	नामे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	सानगे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	कलामभे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	सोनालेख
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	निशेत
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	पिमपारोली
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	मोज
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	बिलघर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	तुसे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	वरैबीके
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	सोनालेबीके
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	वरैखा
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	अवनधे
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	चिंकाले
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	सावारखंड
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	असनास
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	अबितघर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	गौरापुर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	गोलेघर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	कलामभाई
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	देवघर
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	अम्बरभाई
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	बुभावाली
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	बिलवाली
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	काते
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	गुंज
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	खैरेअमबिवाली
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	वरनोल
महाराष्ट्र	थाणे	वादा	डोनगासते
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूरनार्थ	थदागामआरई
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूरनार्थ	अनईकाटी (नार्थ)
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूरनार्थ	अनईकाटी (साउथ)

तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूरनार्थ	वीरापांटी
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूरसाउथ	बोलुवामपानदी (ब्लॉक-1)
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूरसाउथ	बोलुवामपानदी (ब्लॉक-2)
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	ओदानथूरईआरई
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	जगानारई
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	कालारआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	हलिचलदुर्गआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	पिल्लुरसलोपेआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	निल्लिथुरईऔरसुनदापट्टीआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	कंदियुरआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	नीलगिरीपूर्वी
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	मेलूरसलोपेआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	मेट्टीपालयम	अनाईकाट्टीनार्थआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उदुमलईपेट्टई	अनामलईआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उदुमलईपेट्टई	अनामलईआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उदुमलईपेट्टई	अमरावातीआरएफ/ अनामलईआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उदुमलईपेट्टई	अमरावतीआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उदुमलईपेट्टई	कुदिराईरऔरकुक्कलआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उदुमलईपेट्टई	कुदिराईरऔरकुक्कलआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उदुमलईपेट्टई	मंजामपेट्टीआरएफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	वलपारई	वलपारई (टीपी)
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	वलपारई	वलपारई (टीपी)
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	वलपारई	वलपारई (टीपी)
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	वलपारई	वलपारई (टीपी)
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	वलपारई	वलपारई (टीपी)
तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल	कान्नीवादी (टीपी)
तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल	अबालूर
तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल	कान्नीवादी (टीपी)
तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल	एरूखालमलईआरएफ
तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल	सिरूमलई
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	पचालूर
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	वादागौनची
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	पेरीयर
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	किलाकुचेटीपेट्टी
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	कूक्कल
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	तानदीगुडी
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	कमानूर
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	अबुक्कम
तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडईकनल	वेलगावी
तमिलनाडु	डिंडिगुल	ओडडानचातराम	वादागडु
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	अगस्थीवरम	थेक्कुलमलईआरएफ (प. औरपूर्व)
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	कलाकुलम	वीरापुलीआरएफ
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	कलाकुलम	वीरापुलीएक्स. (पुरानाकुलासेकारापुरम)
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	कलाकुलम	सुरूलाकोडे
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	कलाकुलम	वेलीमलईवन
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	असमबुआरएफ

तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	पोईगईमलईआरएफ
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	अजहगईपनबईपुरम (टीपी)
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	अजहगईपनबईपुरम (टीपी)
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	असमबुआरएफ
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	थादागामलईआरएफ
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	चिरामादम
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	अरालवईमोजही
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	थोवाला
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	थेक्कुमलईपश्चिम
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	थोवाला	थेक्कुमलईपूर्व
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	विलावनकोडे	किलमलईआरएफ
तमिलनाडु	नीलगिरी	कुन्नूर	बुरलियर
तमिलनाडु	नीलगिरी	कुन्नूर	कुन्नूर
तमिलनाडु	नीलगिरी	गुदलुर	मुदुमलई
तमिलनाडु	नीलगिरी	गुदलुर	नेताकोटा
तमिलनाडु	नीलगिरी	गुदलुर	सरिमादुरई
तमिलनाडु	नीलगिरी	गुदलुर	गुदलुर (टीपी)
तमिलनाडु	नीलगिरी	गुदलुर	ओवेली (टीपी)
तमिलनाडु	नीलगिरी	कोटागिरी	नीलगिरीइस्टेनसरोपेस
तमिलनाडु	नीलगिरी	कोटागिरी	नंदीपुरम
तमिलनाडु	नीलगिरी	कोटागिरी	अराकोडे
तमिलनाडु	नीलगिरी	कोटागिरी	कोनाकरई
तमिलनाडु	नीलगिरी	कोटागिरी	कदिनामलई
तमिलनाडु	नीलगिरी	कोटागिरी	केनगारई
तमिलनाडु	नीलगिरी	कोटागिरी	जाकनारई
तमिलनाडु	नीलगिरी	कुंदह	मुलीगूर
तमिलनाडु	नीलगिरी	कुंदह	किलकुंदा (टीपी)
तमिलनाडु	नीलगिरी	कुंदह	मेलकुंदह
तमिलनाडु	नीलगिरी	कुंदह	किनाकोरई
तमिलनाडु	नीलगिरी	कुंदह	किलकुंदे (टीपी)
तमिलनाडु	नीलगिरी	पनथलुर	नेलियलम (टीपी)
तमिलनाडु	नीलगिरी	उधागमानदलम	मसिनागुडी
तमिलनाडु	नीलगिरी	उधागमानदलम	उबानंद
तमिलनाडु	नीलगिरी	उधागमानदलम	कुक्कल
तमिलनाडु	नीलगिरी	उधागमानदलम	शोलूर (टीपी)
तमिलनाडु	नीलगिरी	उधागमानदलम	नदूवत्तम (टीपी)
तमिलनाडु	थेनी	अनदीपत्ती	मेगामलई
तमिलनाडु	थेनी	बोदिनायाकनूर	अहमलई
तमिलनाडु	थेनी	बोदिनायाकनूर	बोवीहिलनार्थ
तमिलनाडु	थेनी	बोदिनायाकनूर	कोट्टागुडी
तमिलनाडु	थेनी	उथामापालायम	एरासाक्कानायाचनूरहिल
तमिलनाडु	थेनी	उथामापालायम	सूरूलीआरएफ
तमिलनाडु	थेनी	उथामापालायम	कूतानातचियारआरएफ
तमिलनाडु	थेनी	उथामापालायम	हाईवेस (टीपी)
तमिलनाडु	थेनी	उथामापालायम	वनाथीपारईआरएफ
तमिलनाडु	थेनी	उथामापालायम	मेगागुदालूरआरएफ

तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	अमबासमुद्रम	पापानासामआरएफ
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	अमबासमुद्रम	धारमापुरमाताम
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	अमबासमुद्रम	सिंगमपट्टीजमंदिरफोरेस्ट
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	अमबासमुद्रम	नरनरलरामआरएफ/मनीकुथरू (टीपी)
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	अमबासमुद्रम	थेरकुविरावानाल्लूर (टीपी)
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	ननगुनेरी	कालाकाडूआरएफ
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	ननगुनेरी	वादगारई
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	शेनकोटई	अचमपुदूरटीवी
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	शेनकोटई	पुलियरई (पार्ट)
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	शेनकोटई	अचमपुदूरटीवी
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	शेनकोटई	अचमपुदूरटीवी
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	शेनकोटई	पुलियारईआरएफ (पार्ट)
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	शिवगिरी	शिवागिरीरिजर्वफोरेस्ट
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	तेनकासी	कृष्णापुरमआरएफ
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	तेनकासी	वईरावानकुलमआरएफ
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	तेनकासी	कादायनालुनअपरसलोपेस
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	तेनकासी	कदायनालुरअपरसलोपेस/कमबंनरीपुदूकुदी
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	तेनकासी	कोर्टलामसलोपेसआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	राजपालायम	सेत्तूरआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	राजपालायम	सापानीपारामबुआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	राजपालायम	कोलानकोनडोमआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	राजपालायम	कोटानकुलमआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	राजपालायम	सेत्तूर
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	खानसाबपुरमउनीपथआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	श्रीविलीपुथूरआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	खानसाबपुरम (खानसाबपुरमआरएफ)
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	पुदूपट्टीआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	सुंदरापानदीयमआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	श्रीविलीपुथूरआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	वेंकेटेश्वरमपुरमआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	वेंकेटेश्वरमपुरमआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	पिलईयरनाथमआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	वालईकुलमआरएफ
तमिलनाडु	विरुधनगर	श्रीविलीपुथूर	वालईकुलमआरएफ

### “लाल” श्रेणी के उद्योगों की सूची

क्र.सं.	“लाल” श्रेणी के उद्योग
.1	एयरपोर्ट और व्यावसायिक एयर स्ट्रिपस्
.2	एल्यूमिनियम स्मेल्टर
.3	एस्बेस्टॉस और एस्बेस्टॉस आधारित उद्योग
.4	ऑटोमोबाइल विनिर्माण (एकीकृत सुविधाएं)
.5	आधारभूत रसायन और इलैक्ट्रो रसायन तथा एसिडों के विनिर्माण सहित इसके यौगिक
.6	सैरमिक, रिफ्रैक्ट्रीज
.7	सीमेंट
.8	क्लोर अल्कली
.9	क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स और पैरोक्साइड
.10	क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडिन और इनके यौगिक
.11	कोल वाशरीज
.12	कॉपर स्मेल्टर्स
.13	कोक निर्माण, लिक्वूवेकशन, कोलतार डिस्टिलेशन या ईंधन गैस निर्माण
.14	सामूहिक उपचार और निपटान सुविधाएं (.पी.टी.ई.सी), टी.एफ.डी.एस., ई रिसाईक्लिंग अपशिष्ट- .एफ.टी.डब्ल्यू.एम.बी.सी, बहिस्राव परिवहन परियोजना, इन्सिनियरेटर, सॉल्वेंटएसिड रिकवरी संयंत्र/, नगरीय ठोस अपशिष्ट सेनेटरी लैंडफिल स्थल, एस (.पी.टी.)
.15	फर्मेशन उद्योग सहित डिस्टलरी
.16	डाई और डाई इंटरमीडिएट
.17	शुष्क कोयला प्रसंस्करण/खनिज प्रसंस्क /, अयस्क सिनटरिंग, पल्लेटिसेशन, ग्राईडिंग, पलवराईजेशन में संलग्न उद्योग
.18	तेल व जल का ईमलशन
.19	ईस्ट विनिर्माण, बीयर, एलकोहल का डिस्टिलेशन सहित फर्मेशन उद्योग
.20	उर्वरक (फार्मूलेशन को छोड़कर) (आधारभूत)
.21	मेल्टिंग, रिफाइनिंग, रिप्रोसेसिंग, कास्टिंग और एल्योय निर्माण के माध्यम से विभिन्न फर्नेसों को शामिल करते हुए फेरस और नॉन फणफेरस धातु निर्ष्क-
.22	फाइबर ग्लास उत्पादन और प्रसंस्करण (ग को छोड़करमोल्टिड)
.23	पटाखे विनिर्माण एवं थोक भंडारण सुविधाएं
.24	बेकार पी बोटलों से फ्लैक्स .टी.ई.
.25	फ्लाईऐश निर्यात, परिवहन और निपटान सुविधाएं
.26	स्वास्थ्य सेवा संस्थान (नियमावली में परिभाषितकीय अपशिष्टजैसे जैव चिकित्स)
.27	शिप निर्माण सहित हैवी इंजिनियरिंग (य के साथकरोड़ से अधिक के व्य 10 संयंत्र और मशीनरी पर)
.28	हॉट मिक्स संयंत्र
.29	होटल्स 3)स्टार और इससे ऊपर के तथा इससे अधिक कमरों के होटल 100 और (
.30	हाईड्रोसाइनिक एसिड और इसके यौगिक
.31	इलैक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट ब्लॉक सहित औद्योगिक कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन ब्लैक
.32	औद्योगिक क्षेत्र/क्षेत्र/लेक्सकॉम्प/पार्क/क्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लेक्सलेदर कॉम्प/वायोटेक पार्क/सेज /
.33	औद्योगिक अकार्बनिक गैसों अर्थात : क. रासायनिक गैसेंएसीटाइलीन :, हाईड्रोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, अमोनिया, सल्फरडाई आक्साइड, ईथेलीन, हाईड्रोजन सल्फाइड, फॉसफिन, ख. हाईड्रोकार्बन गैसेंमिथेन :, ईथेन, प्रोपेन
.34	रिसाइक्लिंग/रिप्रोसेसिंग 2008 नियम (प्रबंधन हथालन एवं सीमा पार परिवहन) खतरनाक अपशिष्ट/रिकवरी/ 4-की अनुसूचीऔर इसके संशोधनों के तहत खतरनाक अपशिष्ट का पुन उद्योगउपयोग में संलग्न :
.35	उद्योग या प्रक्रिया शामिल फाउंड्री प्रचालन



.36	उद्योग या प्रक्रिया शामिल मेटल सर्फेस उपचार या प्रसंस्करण जैसे पिकलिंगपेंट /टिंगप्लेइलैक्टो/टिंगप्ले/गलवानाईजिंग/इनेमिलिंग/फॉसफेटिंग या फिनिशिंग और एनोडाइजिंग/हीट उपचार/स्टिपिंग
.37	लौह एवं इस्पात ज आयरन इकत संयंत्र और या स्पंकीकृत इस्पा/अयस्क)ाईयों से प्रसंस्करण को शामिल करते हुए(
.38	खतरनाक रसायनों का एकल भंडारण खतरनाक रसायनों के विनिर्माण), भंडारण और आयात नियम, 1989 (यथा संशोधित की अनुसूची के अनुसार
.39	लैड एसिड बैट्री विनिर्माण ) लमाइक्रो स्के)<लिंग और चार्जिंग को में लैड एसिड बैट्री की एसेम्ब (लाख रुपये 50 (छोड़कर
.40	चूना विनिर्माण (चूने के भट्टों का उपयोग करके)
.41	विस्फोटक, डेटोनेटर्स, फ्यूज विनिर्माण प्रबंधन और हथालन कार्यकलापों सहित
.42	शीशा विनिर्माण
.43	ग्लू और जिलेटिन विनिर्माण
.44	लुब्रिकेटिंग तेल, ग्रीस या पेट्रोल आधारित उत्पादों का विनिर्माण
.45	पेंट, वार्निश पिगमेंट और मध्यवर्ती (ग को छोड़करमिक्स/डिंगब्ले)
.46	स्टार्च सागो विनिर्माण /
.47	दुग्ध प्रसंस्करण और दैनिक उत्पाद
.48	खनिज स्टेक यार्ड रेलवे साइडिंग /
.49	खनन और अयस्क बेनिफिकेशन
.50	नए राजमार्ग निर्माण परियोजनाएं
.51	नॉनसंयंत्र और ) दों की बोटलिंगएलकोहलिक उत्पा-और एलकोहलिक और नॉन (सॉफ्ट ड्रिंक) एलकोहलिक वेब्रेज-मशीनरी पर> (यकरोड़ रुपये लागत व्य 1
.52	नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र
.53	सीबीएम र्णसहित तेल एवं गैस निष्क (म से समुद्री तट एवं समुद्र के अंदरकुओं की खुदाई के माध्य)
.54	तेल एवं गैस परिवहन पाइपलाइन
.55	तेल रिफाईनरी रिफाईनरीज-खनिज तेल अथवा पेट्रो)
.56	कार्बनिक रसायनों का निर्माण
.57	पारबॉयल्ड चावल मिल्स 10)टन (दिन से अधिक/
.58	पेस्टीसाइडस (विनिर्माण को छोड़कर) (तकनीकी)
.59	पेट्रोकैमिकल्स (विनिर्माण एवं कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग न किये जा सकने वाला)
.60	फार्मास्यूटीकल्स (विनिर्माण को छोड़कर)
.61	लुगदी एवं पेपर (पल्पिंग के बिना अथवा पेपर विनिर्माण सहित)
.62	फोस्फेट रॉक प्रक्रमण संयंत्र
.63	फॉस्फोरस और इसके यौगिक
.64	फोटोग्राफिक फिल्मस और इसके रसायन
.65	पोर्टस एवं बंदरगाह, जेटीज और खुदाई के कार्य
.66	विजली उत्पादन संयंत्र मेगावाट क्षमता के 25>)मिनी हाइडल पावर प्लांट्स और वायु, सौर के अलावा < तथा ( (एमवीए क्षमता के डीजी सेट 5
.67	क्रोमीनेटिड हाईड्रोकार्बन्स शामिल करते हुए प्रक्रमण
.68	रेलवे लोकोमोटिव वर्कशाप संप्राधिकृत सर्विस सेन्ट/एकीकृत सड़क परिवहन वर्कशाप/
.69	प्रयोग किये गये एवं बेकार तेल का पुन प्रक्रमण :
.70	शिप ब्रेकिंग की गतिविधियां
.71	बूचड़खाने रण उद्योगऔर मांस प्रसंस्क (के अनुसार (ई) 270 .आ.की अधिसूचना का 26.03.2001 दिनांक), हड्डी मिल्स, जानवरों के सींगों का प्रसंस्करण, हूप्स एवं शरीर के अन्य भाग
.72	इस्पात एवं इस्पात उत्पाद जिसमें अलगआर्क /न फर्नेसकशइन्ड/ओपन हर्ट फर्नेस/ फर्नेसिसस्टअलग फर्नेस जैसे ब्ला-हार्ट रोलिंग /जन फर्नेसवेसिक ऑक्सी/मर्जड आर्क फर्नेस-सब/फर्नेस, जिसमें रि हीटिंग का प्रयोग किया जाता है।-
.73	स्टोन क्रशर्स
.74	चीनी सारी सेखण्ड) अलग(
.75	सूजीकल एवं मेडिकल उत्पाद जिसमें प्रोफिलेक्टिक्स और लेटेक्स शामिल है।

.76	सिंथेटिक डिटरजेंटस और साबुन (निर्माण को छोड़कर)
.77	रेयान टायर कोर्ड, पोलिस्टर फिलामेंट यार्न सहित सिंथेटिक फाइबर
.78	सिंथेटिक रिसाइन्स
.79	मोल्टिंग के अलावा सिंथेटिक रबड़
.80	टैनरीज
.81	थर्मल पॉवर प्लांटस
.82	सिगरेट और तम्बाकू दूकू उत्पादन सहित तम्बाकू प्रसंस्क/
.83	विलायक निष्कर्षण और रिफाइनरी ति तेलहाईड्रो जनरेटिड तेलों सहित वनस्प/
.84	कोई भी बहिष्कार जर्नउत्स/उत्पन्नकर्ता प्रक्रिया, ब्लिचिंग, डाईंग, प्रिंटिंग और स्कोरिंग सहित यार्न टाईलटैक्स/
.85	जिंक स्मेलटर
टिप्पणी 1 :कोई भी उद्योगघटा से अधिक /टन 5 सूची में शामिल नहीं हैं और जिनके पास औद्योगिक कार्यकलाप जो उपयुक्त/ जर्न का कोल फम उत्सक्षमता का स्टीयर्ड बॉयलर हैं, वे उन्हें लाल श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।	

[फा.सं. 1-4/2012-आरई (भाग)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2014

**S.O. 733(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or at e-mail address: esz-mef@nic.in.

**Draft Notification**

WHEREAS, Western Ghats is an important geological landform on the fringe of the west coast of India and it is the origin of Godavari, Krishna, Cauvery and a number of other rivers and extends over a distance of approximately 1500 km from Tapti river in the north to Kanyakumari in the south with an average elevation of more than 600 m and traverses through six States namely, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu;

AND WHEREAS, Western Ghats is a global biodiversity hotspot and a treasure trove of biological diversity and it harbours many endemic species of flowering plants, endemic fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals and invertebrates and is also an important center of evolution of economically important domesticated plant species such as pepper, cardamom, cinnaom, mango and jackfruit;

AND WHEREAS, Western Ghats has many unique habitats which are home to a variety of endemic species of flora and fauna such as Myristica swamps, the flat-topped lateritic plateaus, the Sholas and wetland and riverine ecosystems;

AND WHEREAS, UNESCO has included certain identified parts of Western Ghats in the UNESCO World Natural Heritage List because Western Ghats is a Centre of origin of many species as also home for rich endemic biodiversity and hence a cradle for biological evolution;

AND WHEREAS, the Western Ghats not only harbour rich biodiversity, but also supports a population of approximately fifty million people and also include areas of high human population density and therefore, there is a need to conserve and protect the unique biodiversity of Western Ghats while allowing for sustainable and inclusive development of the region;

AND WHEREAS, the Ministry constituted a High Level Working Group to study the preservation of the ecology, environmental integrity and holistic development of the Western Ghats in view of their rich and unique biodiversity and it was also tasked with the mandate to take a holistic view of the issue and to bring synergy between protection of

environment and biodiversity and needs and aspirations of the local and indigenous people, sustainable development and environmental integrity of the region and to suggest steps and the way forward to prevent further degradation of the fragile ecology of the Western Ghats;

AND WHEREAS, the High Level Working Group had since submitted its report to the Ministry on 15<sup>th</sup> April 2013 which was kept in the public domain seeking comments/views of concerned stakeholders and was also sent to the concerned six State Governments of the Western Ghats region namely, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu for their considered comments/views on the report;

AND WHEREAS, the High Level Working Group has identified approximately thirty-seven percent the Western Ghats as ecologically sensitive which covers an area of 59,940 sq. km. of natural landscape of Western Ghats and represents a continuous band of natural vegetation extending over a horizontal distance of 1,500 km and is spread across six states of Western Ghats region namely, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and includes Protected Areas and World Heritage Sites of Western Ghats and the High Level Working Group has recommended prohibition or regulation of identified projects and activities in the Ecologically Sensitive Area which have maximum interventionist and destructive impacts on ecosystems;

AND WHEREAS, the Ministry vide OM No. 1-4/2012 – RE (Pt.), dated 20<sup>th</sup> December 2013, had *inter alia* sought suggestions from the State Governments on modifications in the boundary of the Ecologically Sensitive Area as identified by the High Level Working Group on the basis of physical verification;

AND WHEREAS, the State Government of Kerala has accordingly undertaken the exercise of demarcating Ecologically Sensitive Area in the State by physical verification by setting up an Expert Committee to study the impact of High Level Working Group recommendations and to assess ground level information and it had also set-up Panchayat Level Committees in 123 villages falling within Ecologically Sensitive Area on the basis of the interim report of the Expert Committee for undertaking on-the-spot field verification and interacting with stakeholders;

AND WHEREAS, the Expert Committee and the Panchayat Level Committees have, on the basis of physical verification, recommended exclusion of cultural landscape from Ecologically Sensitive Area as identified by High Level Working Group and the State Government of Kerala is of the view that agricultural areas, orchards, horticultural plots, plantation and residential areas may be kept out of Ecologically Sensitive Area;

AND WHEREAS, the Ecologically Sensitive Area recommended by the Kerala State Government is spread over of an area of 9993.7 sq. km., which includes 9107 sq. km. of forest area and 886.7 sq. km. of non-forest area and ESA in that State works out to 9,993.7 sq km. as compared to 13,108 sq. km. recommended by High Level Working Group;

AND WHEREAS, taking into account the ESA demarcated by Kerala Government for the State of Kerala instead of Ecologically Sensitive Area recommended by High Level Working Group for the state, the total Ecologically Sensitive Area for Western Ghats region works out to 56, 825 sq. km.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the identified area of 56,825 sq. km. which is spread across six states namely, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, as the Western Ghats Ecologically Sensitive Area (herein after referred to as the Eco-sensitive Area).

2. Boundary and Description of Western Ghats Eco-sensitive Area.- (1) The boundary and description of Eco-Sensitive Area as recommended by High Level Working Group excluding the State of Kerala is as under:-

- (a) the extent of Eco-sensitive area falling in each state is as per **Annexure A**;
- (b) the State-wise map of the portion of the Eco-sensitive area in each state is as per **Annexure – B1 to B5**;
- (c) the state-wise list of villages falling within the Eco-sensitive Area along with respective Districts and Talukas is as per **Annexure-C**.

(2) The Eco-Sensitive Area in the State of Kerala is spread over of an area of 9993.7 sq. km., which includes 9107 sq. km. of forest area and 886.7 sq. km. of non-forest area and the boundary and description of Eco-Sensitive Area and the village-wise details of Eco-sensitive area proposed by the State Government are available on the website of the Kerala State Biodiversity Board.

3. Projects and activities to be prohibited or regulated in the Eco-sensitive area.- (1) The following categories of projects and activities shall be prohibited in Eco-sensitive Area except those proposals which have been received by Expert Appraisal Committees or the Ministry of Environment and Forests or State Level Expert Appraisal Committees or the State Level Environment Impact Assessment Authorities before the 17<sup>th</sup> April, 2013, the date on which the HLWG report was uploaded on the website of the Ministry and are pending consideration and such proposals shall be dealt in accordance with the guidelines and rules in existence at that time.

(a) Mining: There shall be a complete ban on mining, quarrying and sand mining in Ecologically Sensitive Area and all existing mines shall be phased out within five years from the date of issue of the final notification or on the expiry of the existing mining lease, whichever is earlier.

(b) Thermal power plants: No new thermal power projects and expansion of existing plants shall be allowed in the Ecologically Sensitive Area.

(c) Industry: All new 'Red' category of industries as specified by the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board and the expansion of such existing industries shall be banned. The list of 'Red' category industries as specified by the Central Pollution Control Board is at **Annexure D**.

(d) Building, Construction, township and area development projects: All new and expansion projects of building and construction with built up area of 20,000 sq. mts. and above and all new and expansion townships and area development projects with an area of 50 hectares and above or with built up area of 1,50,000 sq. mts. and above shall be prohibited.

(2) The following categories of projects and activities shall be regulated as given below:-

(a) Hydropower projects: New Hydropower projects shall be allowed as per the Environment Impact Assessment notification, published vide number S.O. 1533 (E), dated 14<sup>th</sup> September, 2006, subject to the following conditions, namely:-

(i) uninterrupted ecological flow of at least thirty per cent of the rivers flow in lean season, till a comprehensive study establishes individual baselines for each project;

(ii) a cumulative study which assesses the impact of each project on the flow pattern of the rivers and forest and biodiversity loss;

(iii) the minimum distance between one project and the other is maintained at three km and not more than fifty per cent of the river basin is affected at any time,

(b) The 'Orange' category of Industries as specified by the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board shall be allowed with strict compliance of environmental regulations but all efforts shall be made to promote industries with low environmental impacts.

(c) in the case of activities that are covered in the schedule to the Environment Impact Assessment notification number S.O. 1533 (E), dated 14<sup>th</sup> September, 2006, published by the Ministry of Environment and Forests and are falling in the Eco-Sensitive Area, except the projects and activities which are specifically prohibited under sub-para (1) shall be scrutinized and assessed for cumulative impacts and development needs before considering for prior environmental clearance by the Ministry under the provisions of the said notification.

(d) in particular and without prejudice to the provisions of the relevant Acts, in cases of diversion of forest land for non-forestry purposes in the Eco-sensitive area, all information of the project, from application stage to approval shall be placed in the public domain on the website of the Ministry of Environment and Forests and of the Forest Department of the respective States.

(e) the requirements of prior informed consent under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) shall be complied with and the consent of Gram Sabha for undertaking projects and activities shall be mandatory.

4. Implementation and Monitoring mechanism.— (1) The responsibility for monitoring and enforcement of provisions of this notification shall be with the concerned State Governments of Western Ghats region and the State Governments shall ensure placing of required mechanisms for effective monitoring and enforcement of restrictions in the Eco-sensitive area and while placing such mechanisms, the State Governments shall inter-alia ensure strengthening of existing regulatory institutions and processes, and participation and involvement of local communities in decision making and the details of such mechanisms shall be shared by the concerned State Governments with the Ministry of Environment and Forests.

(2) A Decision Support and Monitoring Centre for Western Ghats shall be established by the Ministry of Environment and Forests in collaboration with the six State Governments of the Western Ghats region which shall assess and report on the status of ecology of Western Ghats on regular basis and provide decision support facility in the implementation of the provisions of this notification and shall also facilitate mechanisms for scientific decision making and strengthening enforcement.

(3) The post clearance monitoring of projects and activities allowed in the Eco-sensitive Area shall be carried out by the concerned State Government, State Pollution Control Board and the Regional Office of the Ministry and all projects in the Eco-sensitive Area which have been given Environmental Clearance or Forest Clearance shall be monitored at least once a year by the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests.

(4) All projects in the Eco-sensitive Area which have been given Consent to Establish or Consent to Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ( 6 of 1974) or the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) shall be monitored at least once a year by the concerned State Pollution Control Board and the concerned State Governments shall prepare 'State of Health Report' in respect of Western Ghats region falling within their jurisdiction on an annual basis giving inter-alia the details of steps taken in monitoring and enforcement of provisions of this notification and make the same available in public domain.

5. Action for contravention:- In case of any contravention of the provisions of this notification, action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and other relevant statutes shall be taken accordingly.

6. The provisions in this notification shall be subject to the final orders of the court in pending litigation.


Annexure A

**Table: State-wise area of Western Ghats Eco-sensitive Area except for State of Kerala**





S. No	State	Western Ghats Ecologically sensitive area (in sq. km.)
1	Gujarat	449
2	Maharashtra	17340
3	Goa	1461
4	Karnataka	20668
5	Tamil Nadu	6914

Annexure B 1

The State-wise map of Western Ghats Eco-sensitive area falling in the State of Gujarat



**Legend**

-  National Boundary
-  State Boundary
-  District Boundary
-  ESZ

Point coordinates are provided in gujpts.txt




**Latitudes and Longitudes of prominent points on the outer boundary of Eco-sensitive area in Gujarat**

Point	Latitude	Longitude
1	73.6032	21.115
2	73.6322	21.1018
3	73.6505	21.0659
4	73.625	21.0793
5	73.6069	21.0374
6	73.6553	21.0406
7	73.7128	21.0508
8	73.6303	21.0184
9	73.6174	20.9179
10	73.6545	20.9095
11	73.6924	20.8578
12	73.7185	20.9055
13	73.725	20.968
14	73.5147	21.0124
15	73.5154	20.9491
16	73.4792	20.9875
17	73.4447	20.9682
18	73.4826	20.9432
19	73.5138	20.9101
20	73.5482	20.9305
21	73.5136	20.8413
22	73.4317	20.7544
23	73.4227	20.7929
24	73.6622	20.6
25	73.6784	20.6307
26	73.718	20.6179
27	73.7638	20.6209
28	73.8108	20.6506
29	73.7521	20.6693
30	73.7374	20.7053
31	73.7607	20.7363
32	73.8176	20.7309
33	73.8638	20.7539
34	73.8474	20.7254
35	73.8962	20.743
36	73.9232	20.7463
37	73.9075	20.779
38	73.9067	20.8222
39	73.6185	21.1326
40	73.7369	21.0523





Point	Latitude	Longitude
41	73.6563	21.0015
42	73.6173	20.9957
43	73.5705	21.0126
44	73.5484	21.0285
45	73.5327	20.9373
46	73.5063	20.9267
47	73.5014	20.8211
48	73.5042	20.856
49	73.4502	20.8136
50	73.4769	20.7495
51	73.4884	20.79
52	73.7381	21.0018
53	73.6472	20.9811
54	73.9282	20.8433
55	73.9318	20.7644
56	73.94	20.7574
57	73.8786	20.7286
58	73.8306	20.7035
59	73.6328	21.1482
60	73.6676	21.1525
61	73.7273	20.5759

Annexure B 2

The State-wise map of Western Ghats Eco-sensitive area falling in the State of Maharashtra



**Legend**

-  National Boundary
-  State Boundary
-  ESZ
-  District Boundary

Point coordinates are provided in mahapts.txt





**Latitudes and Longitudes of prominent points on the outer boundary of Eco-sensitive area in Maharashtra**

Point	Latitude	Longitude
1	74.0058	20.8256
2	74.1064	20.7453
3	74.0194	20.6892
4	74.0191	20.612
5	73.9412	20.6054
6	73.8781	20.5993
7	73.8235	20.4918
8	73.9932	20.5268
9	74.0579	20.5785
10	74.053	20.4379
11	74.019	20.3664
12	73.8978	20.4141
13	73.6994	20.4375
14	73.72	20.5541
15	73.6027	20.5913
16	73.5408	20.5605
17	73.5606	20.4596
18	73.5139	20.3488
19	73.4652	20.28
20	73.5387	20.2201
21	73.486	20.1581
22	73.3898	20.1504
24	73.3232	19.9966
25	73.2398	20.0314
26	73.4839	20.0493
27	73.4799	19.9053
28	73.5366	19.8061
29	73.5707	19.7128
30	73.1098	20.0325
31	73.043	19.9627
32	73.1282	19.893
33	73.1898	19.7765
34	73.1248	19.6719
35	73.1853	19.6466
36	73.1206	19.5384
37	73.1944	19.4682
40	73.3863	19.6241
41	73.4258	19.4225
42	73.5894	19.4016
43	73.5123	19.2406
44	73.4137	19.068
45	73.3746	18.8911
46	73.3242	18.7207
47	73.2432	18.6505
48	73.0729	18.534
49	72.987	18.4214


Point	Latitude	Longitude
51	73.253	18.4548
52	73.3929	18.3701
53	73.3688	18.2641
54	73.4378	18.1272
55	73.5931	18.092
56	73.5066	17.9903
57	73.3683	17.8302
58	73.4914	17.6993
59	73.5768	17.5912
60	73.5668	17.4195
61	73.5612	17.3075
62	73.6318	17.1219
63	73.6692	16.942
64	73.5789	16.781
65	73.6967	16.664
66	73.6991	16.4548
67	73.7466	16.3661
68	73.6751	16.1957
69	73.7503	16.0491
70	73.8298	15.8853
71	73.7949	15.7828
72	73.6179	15.9528
73	73.4909	16.2748
74	73.507	16.3905
75	73.6341	16.4554
76	73.6904	16.3323
77	73.6095	16.287
78	73.5076	16.6068
79	73.4641	16.5316
80	73.585	16.4986
81	73.6308	16.6018
82	73.5247	16.7018
83	73.3717	16.7962
84	73.4256	16.8789
85	73.452	16.9324
86	73.5682	17.0074
87	73.4826	17.2027
88	73.4341	17.3787
89	73.5529	17.4818
90	74.2737	15.8547
91	74.1505	15.9612
92	74.2395	16.0693
93	74.1872	16.1125
94	74.1853	16.2414
95	74.111	16.2907
96	74.0468	16.438
97	73.9774	16.5363

**Latitudes and Longitudes of prominent points on the outer boundary of Eco-sensitive area in Maharashtra – contd.**



Point	Latitude	Longitude
98	74.0095	16.6283
99	73.9938	16.7393
100	73.9498	16.8317
101	73.9167	17.0049
102	73.9114	17.2037
103	73.9035	17.2977
105	73.907	17.5424
106	73.8982	17.7378
107	73.7499	17.8679
108	73.7291	17.9999
109	73.768	18.187
110	73.634	18.3107
111	73.5707	18.4865
112	73.6273	18.608
113	73.5363	18.7441
114	73.661	18.8266
115	73.7288	19.0291
116	73.7184	19.1723
117	73.8576	19.2728
120	73.7481	19.5626
121	74.1112	19.8825
123	74.0361	18.2506
124	74.1293	18.2123
125	73.9262	20.8634
127	74.0179	19.2985
128	74.2116	15.7818
129	74.3292	15.7708
131	74.0329	17.0921
132	73.2838	20.1816
133	73.8762	15.7646
134	73.2917	18.0346
135	73.8744	18.0533
136	73.2079	20.1065
137	73.4285	20.4364
138	73.4266	20.3054
139	73.416	20.2726
140	73.3578	20.1963
141	73.501	20.6588
142	73.6228	20.6055
143	73.6677	21.1502
144	73.6165	21.1373
145	73.6692	21.1088

Annexure B 3


The State-wise map of Western Ghats Eco-sensitive area falling in the State of Goa



Legend

-  National Boundary
-  State Boundary
-  District Boundary
-  ESZ

Point coordinates are provided in goapts.txt




**Latitudes and Longitudes of prominent points on the outer boundary of Eco-sensitive area in Goa**

Point	Latitude	Longitude
1	74.061	15.6167
2	74.0747	15.585
3	74.0886	15.5509
4	74.082	15.5315
5	74.0956	15.5021
6	74.1345	15.5168
7	74.1222	15.4865
8	74.0765	15.4595
9	74.0736	15.4127
10	74.1451	15.3546
11	74.1572	15.2726
12	74.1658	15.2156
13	74.1222	15.172
14	74.0698	15.1603
15	74.1028	15.1079
16	74.1737	15.0881
17	74.1586	15.0672
18	74.097	15.042
19	74.0633	14.9976
20	74.0904	15.3369
21	74.1355	15.2921
22	74.0895	15.3022
23	74.0471	15.6247
24	74.1187	15.6524
25	74.1191	15.4324
26	74.1723	15.1895
27	74.2903	15.2865
28	74.2845	15.3846
30	74.2842	15.139
31	74.2565	14.9944
32	74.0886	14.8973
33	73.954	15.0733
34	74.0037	15.0992
35	73.9808	15.0539
36	74.0384	14.9855
37	74.1823	15.0414
38	74.1574	15.1446
39	74.1075	15.284
40	74.2832	15.5271

Annexure B 4

The State-wise map of Western Ghats Eco-sensitive area falling in the State of Karnataka




**Latitudes and Longitudes of prominent points on the outer boundary of Eco-sensitive area in Karnataka**

Point	Latitude	Longitude
1	74.4129	15.6723
2	74.4876	15.5252
3	74.6629	15.4352
4	74.5932	15.2894
5	74.66	15.0722
6	74.8283	15.1482
7	74.8796	14.967
8	74.9464	14.8263
9	75.011	14.556
10	74.8652	14.2586
11	75.4945	14.0639
12	75.6272	13.7396
13	75.7526	13.6307
14	75.8488	13.3619
15	75.6886	12.9701
16	75.7594	12.6417
17	75.7	12.3889
18	75.798	12.1444
19	76.063	12.1388
21	75.9291	12.5904
22	76.0666	12.2477
23	76.2529	12.1801
24	76.4395	11.964
25	76.6229	11.8531
27	75.4768	12.6429
28	75.4099	12.73
29	75.3231	13.0082
30	75.0113	13.236
31	74.9341	13.4982
32	74.7493	13.7269
33	74.6565	13.8462
34	74.5589	14.0847
35	74.5099	14.375
36	74.3415	15.7662
37	74.1127	14.9139
38	74.4032	14.6117
39	74.5263	14.2409
40	74.4801	14.1365
41	75.3164	12.4984
42	75.6327	13.0114
43	75.7697	12.6816
44	76.5561	11.8571
45	71.2007	31.6736
46	75.4844	14.1767

Point	Latitude	Longitude
47	75.1941	14.2836
48	74.95	14.396
49	74.9011	15.0293
50	74.6538	15.3973
51	75.6091	13.7619
52	75.6079	13.8175
53	75.8127	13.5053
54	75.8119	13.4009
55	75.6333	13.1691
56	75.78	12.4875
57	75.9165	12.388
58	76.087	11.9669
59	76.8555	11.6903
60	75.9437	12.8503

Annexure B 5

The State-wise map of Western Ghats Eco-sensitive area falling in the State of Tamil Nadu



**Latitudes and Longitudes of prominent points on the outer boundary of Eco-sensitive area in Tamil Nadu**

Point	Latitude	Longitude
1	76.3587	11.5908
2	76.484	11.5287
3	76.2936	11.4753
4	76.4141	11.4403
5	76.5232	11.3701
6	76.6616	11.4376
7	76.7509	11.6147
8	76.5443	11.6855
9	76.5505	11.3356
10	76.8576	11.3275
11	76.8158	11.2267
12	76.979	11.3812
13	76.8468	11.5823
14	76.8278	11.4419
15	76.7466	11.5029
16	77.0007	11.545
17	76.7311	11.1922
18	76.7516	11.119
19	76.8047	11.0562
20	76.6974	11.2378
21	76.6218	11.263
22	76.7846	10.8908
23	76.7399	10.9689
24	76.8442	11.0219
25	76.8403	10.5569
26	76.9277	10.4858
27	77.0441	10.517
28	77.0779	10.508
29	77.0757	10.3926
30	77.0957	10.3096
31	76.9054	10.2526
32	77.0137	10.3166
33	76.9682	10.3876
34	76.8399	10.3396
35	77.1681	10.4634
36	77.3215	10.4354
37	77.2622	10.262
38	77.2896	10.231
39	77.3497	10.2701
40	77.3928	10.2299
41	77.4353	10.2976
42	77.4089	10.3664
43	77.5377	10.3861
44	77.5389	10.2938
45	77.6344	10.2687

Point	Latitude	Longitude
46	77.7063	10.2348
47	77.7317	10.3423
48	77.7157	10.3833
49	77.6559	10.4359
50	77.7524	10.4886
51	77.8165	10.3799
52	77.7829	10.2681
53	77.9114	10.2525
54	77.9753	10.1325
55	78.1257	10.1882
56	78.0026	10.2859
57	77.6005	10.1977
58	77.5129	10.2443
59	77.4065	10.1677
60	77.4647	10.129
61	77.4792	10.0654
62	77.3904	10.0104
63	77.2568	10.0352
64	77.1946	9.6102
65	77.3288	9.6757
66	77.4932	9.8542
67	77.5872	9.7667
68	77.4037	9.5274
69	77.4791	9.5639
70	77.5272	9.6455
71	77.6318	9.5993
72	77.5755	9.492
73	77.4443	9.4418
74	77.4065	9.3953
75	77.3412	9.4186
76	77.379	9.3137
77	77.3457	9.2004
78	77.2709	9.2035
79	77.3292	9.138
80	77.2939	9.076
81	77.247	9.0632
82	77.2143	9.0252
83	77.161	9.0076
84	77.1764	8.988
85	77.2291	8.9406
86	77.3238	8.8819
87	77.2808	8.9206
88	77.2584	8.878
89	77.329	8.772
90	77.3955	8.6927
91	77.2315	8.6385
92	77.494	8.6214



**Latitudes and Longitudes of prominent points on the outer boundary of Eco-sensitive area in Tamil Nadu –  
Contd.**

Point	Latitude	Longitude
93	77.5498	8.6042
94	77.34	8.5533
95	77.271	8.5808
96	77.5213	8.5209
97	77.5746	8.4171
98	77.4866	8.3937
99	77.448	8.4753
100	77.3076	8.4547
101	77.215	8.5113
102	77.2993	8.4024
103	77.3391	8.3529
104	77.3883	8.303
105	77.5358	8.3922
106	77.5572	8.2926
107	77.5406	8.1984
108	77.4718	8.2709
109	77.215	8.5113

## ANNEXURE C

## List of Villages falling in Eco-sensitive Area in except for State of Kerala

State	District	Taluk	Village Name
Goa	North Goa	Satari	Anjune
Goa	North Goa	Satari	Shiroli
Goa	North Goa	Satari	Gulle
Goa	North Goa	Satari	Bayalvada
Goa	North Goa	Satari	Pali
Goa	North Goa	Satari	Singna
Goa	North Goa	Satari	Salpi Budruk
Goa	North Goa	Satari	Jarma
Goa	North Goa	Satari	Naneli
Goa	North Goa	Satari	Maloli
Goa	North Goa	Satari	Koparde
Goa	North Goa	Satari	Karambali Bramha
Goa	North Goa	Satari	Hedode
Goa	North Goa	Satari	Uste
Goa	North Goa	Satari	Ambede
Goa	North Goa	Satari	Dongarvada
Goa	North Goa	Satari	Mausi
Goa	North Goa	Satari	Bhuipal
Goa	North Goa	Satari	Bombede
Goa	North Goa	Satari	Veluz
Goa	North Goa	Satari	Sonal
Goa	North Goa	Satari	Kumar Khand
Goa	North Goa	Satari	Valpoy
Goa	North Goa	Satari	Sanvarde
Goa	North Goa	Satari	Velgue
Goa	North Goa	Satari	Hasole
Goa	North Goa	Satari	Karambali Buzruk
Goa	North Goa	Satari	Barajan
Goa	North Goa	Satari	Panse
Goa	North Goa	Satari	Shelpi Khurd
Goa	North Goa	Satari	Bhironde
Goa	North Goa	Satari	Khotode
Goa	North Goa	Satari	Sirsode
Goa	North Goa	Satari	Karanzol
Goa	North Goa	Satari	Aassode
Goa	North Goa	Satari	Melavali
Goa	North Goa	Satari	Gotiakhadilwada
Goa	North Goa	Satari	Ambeli
Goa	North Goa	Satari	Gavane
Goa	North Goa	Satari	Malpon
Goa	North Goa	Satari	Surla
Goa	North Goa	Satari	Satre
Goa	North Goa	Satari	Goali
Goa	North Goa	Satari	Charavade
Goa	North Goa	Satari	Ivre Khurd

State	District	Taluk	Village Name
Goa	North Goa	Satari	Ivre Budruk
Goa	North Goa	Satari	Kelavade
Goa	North Goa	Satari	Rive
Goa	North Goa	Satari	Kodal
Goa	North Goa	Satari	Dongurvada
Goa	North Goa	Satari	Derode
Goa	North Goa	Satari	Vayangani
Goa	North Goa	Satari	Nanode
Goa	North Goa	Satari	Zarani
Goa	North Goa	Satari	Kodal
Goa	North Goa	Satari	Penral
Goa	South Goa	Kankon	Kola
Goa	South Goa	Kankon	Gaundongren
Goa	South Goa	Kankon	Cotigao
Goa	South Goa	Kankon	Poingunin
Goa	South Goa	Kankon	Lolen
Goa	South Goa	Sanguem	Surla
Goa	South Goa	Sanguem	Aalot
Goa	South Goa	Sanguem	Darbandora
Goa	South Goa	Sanguem	Sangod
Goa	South Goa	Sanguem	Shigaon
Goa	South Goa	Sanguem	Kamarkhand
Goa	South Goa	Sanguem	Kamarkhand
Goa	South Goa	Sanguem	Rumbrem
Goa	South Goa	Sanguem	Dudal
Goa	South Goa	Sanguem	Salavli
Goa	South Goa	Sanguem	Kurdi
Goa	South Goa	Sanguem	Revona
Goa	South Goa	Sanguem	Kolamba
Goa	South Goa	Sanguem	Naiquinim
Goa	South Goa	Sanguem	Digali
Goa	South Goa	Sanguem	Nune
Goa	South Goa	Sanguem	Sakvorde
Goa	South Goa	Sanguem	Molen
Goa	South Goa	Sanguem	Karanjhol
Goa	South Goa	Sanguem	Kolem
Goa	South Goa	Sanguem	Colem
Goa	South Goa	Sanguem	Sonauli
Goa	South Goa	Sanguem	Boma
Goa	South Goa	Sanguem	Oxel
Goa	South Goa	Sanguem	Dongurli
Goa	South Goa	Sanguem	Malingem
Goa	South Goa	Sanguem	Patiem
Goa	South Goa	Sanguem	Ugem
Goa	South Goa	Sanguem	Todov
Goa	South Goa	Sanguem	Potrem
Goa	South Goa	Sanguem	Vilyan

State	District	Taluk	Village Name
Goa	South Goa	Sanguem	Dongar
Goa	South Goa	Sanguem	Portem
Goa	South Goa	Sanguem	Netravli
Goa	South Goa	Sanguem	Verlen
Goa	South Goa	Sanguem	Bati
Goa	South Goa	Sanguem	Kumbari
Goa	South Goa	Sanguem	Sigonem
Gujarat	Navsari	Bansda	Kala Amba
Gujarat	Navsari	Bansda	Kevdi
Gujarat	Navsari	Bansda	Sadad Devi
Gujarat	Navsari	Bansda	Vaghai
Gujarat	Navsari	Bansda	Ambabari
Gujarat	Surat	Songadh	Khokhsa
Gujarat	Surat	Songadh	Kanji
Gujarat	Surat	Songadh	Ekva Golan
Gujarat	Surat	Songadh	Medha
Gujarat	Surat	Songadh	Nana Tarpada
Gujarat	Surat	Songadh	Ojhar
Gujarat	Surat	Songadh	Bharadada
Gujarat	Surat	Songadh	Hindla
Gujarat	Surat	Songadh	Khadi
Gujarat	Surat	Songadh	Temka
Gujarat	Surat	Songadh	Dardi
Gujarat	Surat	Songadh	Seljhar
Gujarat	Surat	Songadh	Kapad Bandh
Gujarat	Surat	Uchchhal	Jharanpada
Gujarat	Surat	Vyara	Dholia Umar
Gujarat	Surat	Vyara	Chhevdi
Gujarat	Surat	Vyara	Bhurivel
Gujarat	Surat	Vyara	Dhamandevi
Gujarat	Surat	Vyara	Amonia
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Bandhpada
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Girmal
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Dhulda
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Kakarda
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Chikhala(Kalibelsaja)
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Sawardakasad
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Mahal
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Chikar (Jhavdasaja)
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Jhari
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Wadiawan
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Chinchdhara
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Karadiamba
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Mahardar
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Morzira
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Madalbari
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Javtala

State	District	Taluk	Village Name
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Chinchli
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Ravchond
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Isdar(Borkhalsaja)
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Kosambia
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Linga
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Anjankund
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Ukhatiya
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Kamad
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Chinchod
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Sinbandh
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Pipalpada(Galkundsaja)
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Murambi
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Payarpada
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Wanki
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Ambalia
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Vanar
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Umarya
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Jamdar
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Samgahan
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Kotamdar
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Ranpada
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Jogbari
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Malegaon
Gujarat	The Dangs	The Dangs	Baradpani
Karnataka	Belgaum	Belgaum	Dhamne S.Bailur
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Chigule
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Betageri
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Morab
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Huland
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kanakumbi
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Bailur
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Golyali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Uchawade
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Chorla
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Betne
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Jamboti
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Jamboti
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kalmani
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Parwad
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Gawase
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Chapoli
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Chikhale
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Daroli
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kapoli K.Chapoli
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Mugawade
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Amagaon
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kabanali

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Alloli-Kansoli
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kavale
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Gavali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Nerase
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Pastoli
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kongale
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Manturga
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Khanapur (Rural)
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Holda
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Teregali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Jamagaon
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Abanali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Shiroli
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kelil
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Dongargaon
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Mendil
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Degaon
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Padalwadi
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Hemmadaga
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Ambewadi
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kamatage
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kirawale (K.G.)
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Warkhadpatye
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Ghose (B.K.)
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Mohiset
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Ghotagali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Shindhल्ली (B.K.)
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Satanali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Akrali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Bastawad
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kodagai
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Sulegali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Mudewadi
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Nagaragali
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Tarawad
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Chinchewadi
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Suwatawadi
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Kumbarda
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Gharli
Karnataka	Belgaum	Khanapur	Nagaragali
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Berambadi State Forest
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Berambadi District Forest
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Baragi
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Berambadi District Forest
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Hongahalli
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Channamallipura
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Maddur

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Berambadi
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Bachahalli
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Lakkipura
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Kallipura
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Kunagahalli
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Berambadi State Forest
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Heggavadi
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Chirakanahalli
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Kadabur
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Bandipura State Forest
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Maguvinahallimel Kamanahalli
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Bandipura District Forest
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Bandipura
Karnataka	Chamaraja Nagar	Gundlupet	Kaniyanapura
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Melagiri
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Kesavinamane
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Hipla
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Heggarmathavani
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Madla
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Athigiri
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Melinahuluvathi
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Kesave
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Suguduvani
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Siragola
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Kolagave
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Jagara
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Shiravase
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Bidare
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Malagaru
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Dattathreyapeeta
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Churchugudde Kaval
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Boggase
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Basapura
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Kadavanthi
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Beranagodu
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Huigere
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Basaravalli
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Saragodu
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Manaboor
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Arenoor
Karnataka	Chikmagalur	Chikmagalur	Bikkarane
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Kelakuli
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Gunavanthe
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Hirekodige
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Bolapura
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Bhandigadi
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Kesave

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Kumbarkoppa
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Devarahalli
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Kagga
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Honagaru
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Talamakki Estate
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Addada
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Nuggi
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Shankarapura
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Heggaru
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Kunchur
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Marithotlu
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Bilagadde
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Hosuru
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Udana
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Machikoppa
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Karimane
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Belawadi
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Lokanathapura
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Dayamballi
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Adigebylu
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Heggaru
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Huligaradi
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Devagodu
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Haralane
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Megur
Karnataka	Chikmagalur	Koppa	Kallugudde
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Thanudi
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Hornadu
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Kalakodu
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Samse
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Idkani
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Kelagur
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Kundur
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Darshana
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Aramane Thalagur
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Heggodlu
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Thatkola
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Kenjige Estate
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Durgadahalli
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Madugundi
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Balur
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Attigere
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Taruve
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Barimale Estate
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Kogile
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Gutti
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Mularahalli



State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Urubage
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Hosakere
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Byrapura
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Mekanagadde
Karnataka	Chikmagalur	Mudigere	Byrapura Estate
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Byrapura
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Kusabur
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Konakere
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Madaboor
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Aramballi
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Mallandaru
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Vittala
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Kadahinabylu
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Hathbur
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Bellur
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Dandubittahara
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Konodi
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Nandigave
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Gubbiga
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Aralikoppa
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Varkate
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Sankse
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Bale
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Salur
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Hebbe
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Sarya
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Kanur
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Vaggade
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Haravari
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Alehalli
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Davana
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Karekeshwara
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Hosuru
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Megaramakki
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Muduguni
Karnataka	Chikmagalur	Narasimharajpura	Halsur
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Neelandur
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Asanabalu
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Kumbaragodu
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Masige
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Meega
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Rushyashringapura (Markal)
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Masige
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Yedadalli
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Yadadalu
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Balekadi
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Nemmaru

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Ginikal
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Kuthagodu
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Kere
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Sunkadamakki
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Malanadu
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Muduba
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Malanadu
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Kere
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Nemmar Estate
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Gulaganjimane
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Hadi
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Mathuvalli Estate
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Balagere
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Balagere
Karnataka	Chikmagalur	Sringeri	Sheerlu
Karnataka	Coorg	Mercara	Hammiyala
Karnataka	Coorg	Mercara	Kalooru
Karnataka	Coorg	Mercara	Monnangeri
Karnataka	Coorg	Mercara	Mukkodlu
Karnataka	Coorg	Mercara	Galibeedu
Karnataka	Coorg	Mercara	Sampaje
Karnataka	Coorg	Mercara	Melchembu
Karnataka	Coorg	Mercara	Karike
Karnataka	Coorg	Mercara	Bhagamandala
Karnataka	Coorg	Mercara	Bettathur
Karnataka	Coorg	Mercara	Made
Karnataka	Coorg	Mercara	Kundacheri
Karnataka	Coorg	Mercara	Kopatti
Karnataka	Coorg	Mercara	Thannimani
Karnataka	Coorg	Mercara	Cherangala
Karnataka	Coorg	Mercara	Kolagadalu
Karnataka	Coorg	Mercara	Sannapulikotu (No.2)
Karnataka	Coorg	Mercara	Aiyangeri
Karnataka	Coorg	Mercara	Peroor
Karnataka	Coorg	Mercara	Naladi
Karnataka	Coorg	Mercara	Yevakapadi
Karnataka	Coorg	Mercara	Chelavara
Karnataka	Coorg	Mercara	Karada
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Kumaralli
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Surlabi
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Malambi Forest
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Mavina Halla Forest
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Nidtha
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Yedavanadu Forest Ii
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Jainkalbetta Forest
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Yedavanadu Forest Ii
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Blockcut From.Jainkalbetta

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Anekad Forest
Karnataka	Coorg	Somvarpet	Attur Forest
Karnataka	Coorg	Virajpet	Karadigodu
Karnataka	Coorg	Virajpet	Maldare
Karnataka	Coorg	Virajpet	Channayan Kote
Karnataka	Coorg	Virajpet	Devamachi Forest
Karnataka	Coorg	Virajpet	Arekeri Forest - I
Karnataka	Coorg	Virajpet	Arekeri Forest - Iii
Karnataka	Coorg	Virajpet	Kadamullur
Karnataka	Coorg	Virajpet	Palangala
Karnataka	Coorg	Virajpet	Arekeri Forest - Ii
Karnataka	Coorg	Virajpet	Devanur
Karnataka	Coorg	Virajpet	Heggala
Karnataka	Coorg	Virajpet	Hathugattu Forest I
Karnataka	Coorg	Virajpet	Kuttandi
Karnataka	Coorg	Virajpet	Badaga
Karnataka	Coorg	Virajpet	Badagarakeri
Karnataka	Coorg	Virajpet	Parakatageri
Karnataka	Coorg	Virajpet	Nalker Forest
Karnataka	Coorg	Virajpet	Theralu
Karnataka	Coorg	Virajpet	Kurchi
Karnataka	Coorg	Virajpet	Kutta
Karnataka	Coorg	Virajpet	Manchalli & Forest
Karnataka	Hassan	Alur	Adibylu
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Achanahalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Maragunda
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Agani
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kumarahalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Hodachahalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kadumane
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Devihalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kesaganahalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kadumane Estate
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kadumane
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Heggadde
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Aluvalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kagenari State Forest
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kadagaravalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Kadagaravalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Yadekumari
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Hongadahalla
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Balehalla
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Hosahalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Markalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Jedigadde
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Battekumari
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Yathahalla

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Athihalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Arini
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Yaragalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Athihalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Maragathur
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Arini
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Vanagoor
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Mankanahalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Mankanahalli
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Arini Estate
Karnataka	Hassan	Sakaleshpur	Banagere
Karnataka	Karwar	Ankola	Kodlagadde
Karnataka	Karwar	Ankola	Shikliturli
Karnataka	Karwar	Ankola	Shevakar
Karnataka	Karwar	Ankola	Kamge
Karnataka	Karwar	Ankola	Lakkeguli
Karnataka	Karwar	Ankola	Mallani
Karnataka	Karwar	Ankola	Gule
Karnataka	Karwar	Ankola	Sonaginmane
Karnataka	Karwar	Ankola	Sunksal
Karnataka	Karwar	Ankola	Kattinhakkal
Karnataka	Karwar	Ankola	Heggar
Karnataka	Karwar	Ankola	Varilbena
Karnataka	Karwar	Ankola	Halvalli
Karnataka	Karwar	Ankola	Sakalbena
Karnataka	Karwar	Ankola	Dongri
Karnataka	Karwar	Ankola	Marugadde
Karnataka	Karwar	Ankola	Kanchinmale
Karnataka	Karwar	Ankola	Berde
Karnataka	Karwar	Ankola	Kammani
Karnataka	Karwar	Ankola	Hebbul
Karnataka	Karwar	Ankola	Heggar
Karnataka	Karwar	Ankola	Navagadde
Karnataka	Karwar	Ankola	Adlur
Karnataka	Karwar	Ankola	Bogribail
Karnataka	Karwar	Ankola	Agsur
Karnataka	Karwar	Ankola	Kuntgani
Karnataka	Karwar	Ankola	Hillur
Karnataka	Karwar	Ankola	Talgadde
Karnataka	Karwar	Ankola	Gule
Karnataka	Karwar	Ankola	Manigadde
Karnataka	Karwar	Ankola	Vasar Kudrige
Karnataka	Karwar	Ankola	Varilbena
Karnataka	Karwar	Ankola	Surve
Karnataka	Karwar	Ankola	Vasar Kudrige
Karnataka	Karwar	Ankola	Achave
Karnataka	Karwar	Ankola	Moralli

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Ankola	Kodsani
Karnataka	Karwar	Ankola	Shirur
Karnataka	Karwar	Ankola	Karebail
Karnataka	Karwar	Ankola	Kenkanishivapur
Karnataka	Karwar	Ankola	Karebail
Karnataka	Karwar	Ankola	Brahmur
Karnataka	Karwar	Ankola	Takatgeri
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Koppa
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Henjale
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hasarvalli
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Badabag
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Agga
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hudil
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hallyani
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hudil
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Antravalli
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hallyani
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Kitre
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hadavalli
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Voni Bagil
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Kurandur
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Marukeri
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Kurandur
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Kuntavani
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Aravakki
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Bilurmane
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Bese
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Kerehittal
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hejjil
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Hallari
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Kekkod
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Benandoor
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Kaggundi
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Mugali
Karnataka	Karwar	Bhatkal	Nuz
Karnataka	Karwar	Honavar	Chandavar
Karnataka	Karwar	Honavar	Kadnir
Karnataka	Karwar	Honavar	Hodke Shiroor
Karnataka	Karwar	Honavar	Hirebail
Karnataka	Karwar	Honavar	Hosgod
Karnataka	Karwar	Honavar	Salkod
Karnataka	Karwar	Honavar	Nilkod
Karnataka	Karwar	Honavar	Janna Kadkal
Karnataka	Karwar	Honavar	Gundabala
Karnataka	Karwar	Honavar	Mahime
Karnataka	Karwar	Honavar	Tumbolli
Karnataka	Karwar	Honavar	Heravali

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Honavar	Jalwalli
Karnataka	Karwar	Honavar	Saralagi
Karnataka	Karwar	Honavar	Hulegar
Karnataka	Karwar	Honavar	Hanehallikabbinahakkal
Karnataka	Karwar	Honavar	Herangadi
Karnataka	Karwar	Honavar	Nagarabastikeri
Karnataka	Karwar	Honavar	Kelgin-Idgunji
Karnataka	Karwar	Honavar	Upponi
Karnataka	Karwar	Honavar	Gunavante
Karnataka	Karwar	Honavar	Nagarabastikeri
Karnataka	Karwar	Honavar	Hinnur
Karnataka	Karwar	Honavar	Birangod
Karnataka	Karwar	Honavar	Begodi
Karnataka	Karwar	Honavar	Magod
Karnataka	Karwar	Honavar	Melin-Mannige
Karnataka	Karwar	Honavar	Hadgeri
Karnataka	Karwar	Honavar	Shirkur
Karnataka	Karwar	Honavar	Magod
Karnataka	Karwar	Honavar	Gudemakki
Karnataka	Karwar	Honavar	Adukal
Karnataka	Karwar	Honavar	Manki
Karnataka	Karwar	Honavar	Khandodi
Karnataka	Karwar	Honavar	Dabbod
Karnataka	Karwar	Honavar	Hadikal
Karnataka	Karwar	Honavar	Adekekuli
Karnataka	Karwar	Honavar	Ashikeri
Karnataka	Karwar	Honavar	Kota
Karnataka	Karwar	Honavar	Tumbebeela
Karnataka	Karwar	Honavar	Sampolli
Karnataka	Karwar	Honavar	Sulebil
Karnataka	Karwar	Honavar	Herali
Karnataka	Karwar	Honavar	Kuchodi
Karnataka	Karwar	Joida	Palada
Karnataka	Karwar	Joida	Rangarook
Karnataka	Karwar	Joida	Viranjol
Karnataka	Karwar	Joida	Akheti
Karnataka	Karwar	Joida	Vatala
Karnataka	Karwar	Joida	Devulli (Tinai)
Karnataka	Karwar	Joida	Akheti
Karnataka	Karwar	Joida	Payaswadi
Karnataka	Karwar	Joida	Anamod
Karnataka	Karwar	Joida	Kalambuli
Karnataka	Karwar	Joida	Chandawadi
Karnataka	Karwar	Joida	Durg
Karnataka	Karwar	Joida	Konshet
Karnataka	Karwar	Joida	Kunagini
Karnataka	Karwar	Joida	Amshet

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Joida	Chapoli (A)
Karnataka	Karwar	Joida	Kamra
Karnataka	Karwar	Joida	Miras Kumbeli
Karnataka	Karwar	Joida	Shingargaon
Karnataka	Karwar	Joida	Velif Kumbeli
Karnataka	Karwar	Joida	Asu
Karnataka	Karwar	Joida	Bori
Karnataka	Karwar	Joida	Ivoli
Karnataka	Karwar	Joida	Kudalgaon
Karnataka	Karwar	Joida	Boregali
Karnataka	Karwar	Joida	Timbholi
Karnataka	Karwar	Joida	Vaijagaon
Karnataka	Karwar	Joida	Aveda
Karnataka	Karwar	Joida	Kasarle
Karnataka	Karwar	Joida	Wada
Karnataka	Karwar	Joida	Bamanawadi
Karnataka	Karwar	Joida	Kuveshi
Karnataka	Karwar	Joida	Kumbral
Karnataka	Karwar	Joida	Donshet
Karnataka	Karwar	Joida	Varande
Karnataka	Karwar	Joida	Pusheli
Karnataka	Karwar	Joida	Bandoda
Karnataka	Karwar	Joida	Bandoda
Karnataka	Karwar	Joida	Vaini
Karnataka	Karwar	Joida	Jagalbet
Karnataka	Karwar	Joida	Usoda
Karnataka	Karwar	Joida	Asulli
Karnataka	Karwar	Joida	Pisose
Karnataka	Karwar	Joida	Konda (Haliyal)
Karnataka	Karwar	Joida	Viral
Karnataka	Karwar	Joida	Mavalinge
Karnataka	Karwar	Joida	Badgund
Karnataka	Karwar	Joida	Diggi
Karnataka	Karwar	Joida	Virnoli
Karnataka	Karwar	Joida	Bapeli
Karnataka	Karwar	Joida	Panjeli
Karnataka	Karwar	Joida	Terali
Karnataka	Karwar	Joida	Pradhani
Karnataka	Karwar	Joida	Gavegali
Karnataka	Karwar	Joida	Samjoida
Karnataka	Karwar	Joida	Nagoda
Karnataka	Karwar	Joida	Sangave
Karnataka	Karwar	Joida	Zalawali
Karnataka	Karwar	Joida	Chapoli (Kalsai)
Karnataka	Karwar	Joida	Joida
Karnataka	Karwar	Joida	Chapoli (Kalsai)
Karnataka	Karwar	Joida	Deriye

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Joida	Nagari
Karnataka	Karwar	Joida	Chapoli (A)
Karnataka	Karwar	Joida	Hudasa
Karnataka	Karwar	Joida	Kavale
Karnataka	Karwar	Joida	Kundal
Karnataka	Karwar	Joida	Katel
Karnataka	Karwar	Joida	Gangoda
Karnataka	Karwar	Joida	Kateli (Kumbar Wada)
Karnataka	Karwar	Joida	Gangoda
Karnataka	Karwar	Joida	Kumbeli
Karnataka	Karwar	Joida	Tinai Khand
Karnataka	Karwar	Joida	Godashet
Karnataka	Karwar	Joida	Gund
Karnataka	Karwar	Joida	Gund
Karnataka	Karwar	Joida	Kalasai
Karnataka	Karwar	Joida	Nujji
Karnataka	Karwar	Joida	Ambolli
Karnataka	Karwar	Joida	Ambolli
Karnataka	Karwar	Joida	Yeramukh
Karnataka	Karwar	Joida	Nigundi
Karnataka	Karwar	Joida	Chafer
Karnataka	Karwar	Joida	Bedasgadde
Karnataka	Karwar	Joida	Badpoli
Karnataka	Karwar	Joida	Bidoli
Karnataka	Karwar	Joida	Hebbal
Karnataka	Karwar	Joida	Shivapur
Karnataka	Karwar	Joida	Anashi
Karnataka	Karwar	Joida	Tulasgeri
Karnataka	Karwar	Joida	Shivapur
Karnataka	Karwar	Joida	Ulavi
Karnataka	Karwar	Joida	Kodthalli
Karnataka	Karwar	Joida	Neturge
Karnataka	Karwar	Joida	Birkhol
Karnataka	Karwar	Joida	Birkhol
Karnataka	Karwar	Karwar	Lande
Karnataka	Karwar	Karwar	Kamargaon
Karnataka	Karwar	Karwar	Goyar
Karnataka	Karwar	Karwar	Gotegali
Karnataka	Karwar	Karwar	Maigini
Karnataka	Karwar	Karwar	Balemane
Karnataka	Karwar	Karwar	Bhaire
Karnataka	Karwar	Karwar	Kadra
Karnataka	Karwar	Karwar	Gopashitta
Karnataka	Karwar	Karwar	Hankon
Karnataka	Karwar	Karwar	Mudgeri
Karnataka	Karwar	Karwar	Hotegali
Karnataka	Karwar	Karwar	Devakar



State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Karwar	Arav
Karnataka	Karwar	Karwar	Sawantwada
Karnataka	Karwar	Karwar	Mallapur
Karnataka	Karwar	Karwar	Virje
Karnataka	Karwar	Karwar	Kerwadi
Karnataka	Karwar	Karwar	Kuchegar
Karnataka	Karwar	Karwar	Kadiye
Karnataka	Karwar	Karwar	Kaiga
Karnataka	Karwar	Karwar	Devalmakki
Karnataka	Karwar	Karwar	Shirve
Karnataka	Karwar	Karwar	Nivli
Karnataka	Karwar	Karwar	Hartuga
Karnataka	Karwar	Karwar	Siddar
Karnataka	Karwar	Karwar	Kadwad
Karnataka	Karwar	Karwar	Bargal
Karnataka	Karwar	Karwar	Nivli
Karnataka	Karwar	Karwar	Belur
Karnataka	Karwar	Karwar	Nagekove
Karnataka	Karwar	Karwar	Shirwad
Karnataka	Karwar	Karwar	Todur
Karnataka	Karwar	Karwar	Chendiye
Karnataka	Karwar	Karwar	Arga
Karnataka	Karwar	Karwar	Amadalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Hegle
Karnataka	Karwar	Kumta	Yana
Karnataka	Karwar	Kumta	Kadkod
Karnataka	Karwar	Kumta	Kolimanjaguni
Karnataka	Karwar	Kumta	Sandolli-Muttolli
Karnataka	Karwar	Kumta	Bellangi
Karnataka	Karwar	Kumta	Kurigadde
Karnataka	Karwar	Kumta	Mugvekanvadi
Karnataka	Karwar	Kumta	Yelavalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Kodambale
Karnataka	Karwar	Kumta	Anegundi
Karnataka	Karwar	Kumta	Yedatara
Karnataka	Karwar	Kumta	Yattinabail
Karnataka	Karwar	Kumta	Hebbail
Karnataka	Karwar	Kumta	Alkod
Karnataka	Karwar	Kumta	Nilkod
Karnataka	Karwar	Kumta	Anegundi
Karnataka	Karwar	Kumta	Antravalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Santur
Karnataka	Karwar	Kumta	Bhandival
Karnataka	Karwar	Kumta	Kanakale
Karnataka	Karwar	Kumta	Malwalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Kavalodi
Karnataka	Karwar	Kumta	Kalve

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Kumta	Shirgunji
Karnataka	Karwar	Kumta	Morse
Karnataka	Karwar	Kumta	Kallabbe
Karnataka	Karwar	Kumta	Bangane
Karnataka	Karwar	Kumta	Kandavalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Mudgi
Karnataka	Karwar	Kumta	Hosad
Karnataka	Karwar	Kumta	Soppinahosalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Divalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Mudnalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Basolli
Karnataka	Karwar	Kumta	Medini
Karnataka	Karwar	Kumta	Santagal
Karnataka	Karwar	Kumta	Holanagadde
Karnataka	Karwar	Kumta	Abbolli
Karnataka	Karwar	Kumta	Hindbail
Karnataka	Karwar	Kumta	Haravalli
Karnataka	Karwar	Kumta	Ullurmath
Karnataka	Karwar	Siddapur	Girgadde
Karnataka	Karwar	Siddapur	Arehalla
Karnataka	Karwar	Siddapur	Devisar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Shigehalli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Ghattikai
Karnataka	Karwar	Siddapur	Tagginbalgar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kelgin Sarkuli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Madankal
Karnataka	Karwar	Siddapur	Adkalli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Manigar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Umbalmane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hallibail
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kanchikai
Karnataka	Karwar	Siddapur	Yelugar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Haldot
Karnataka	Karwar	Siddapur	Balekai
Karnataka	Karwar	Siddapur	Golgod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Gavingudde
Karnataka	Karwar	Siddapur	Bidarmane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Mulgunda
Karnataka	Karwar	Siddapur	Karjagi
Karnataka	Karwar	Siddapur	Balesar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hullunde
Karnataka	Karwar	Siddapur	Matti Halli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hirekai (Kodsar Halkani)
Karnataka	Karwar	Siddapur	Surgikoppa
Karnataka	Karwar	Siddapur	Mudhalli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kalen Halli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Taresar

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Siddapur	Nilkund
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kodsar ( Muthalli )
Karnataka	Karwar	Siddapur	Nandyane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hegge
Karnataka	Karwar	Siddapur	Godlabil
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hasargod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Heggarani
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hutagar ( Muthalli )
Karnataka	Karwar	Siddapur	Sampagod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hukali (Wajgod)
Karnataka	Karwar	Siddapur	Harigar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Handiyane Math
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hegge
Karnataka	Karwar	Siddapur	Havinbil
Karnataka	Karwar	Siddapur	Shivalmane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Unchalli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Nidgod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Algod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Muttige (Gunjagod)
Karnataka	Karwar	Siddapur	Heggodmane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Golgod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Honnekomb
Karnataka	Karwar	Siddapur	Haldot
Karnataka	Karwar	Siddapur	Naligar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Bandisara
Karnataka	Karwar	Siddapur	Gijagini
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hadrimane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Halagadikoppa
Karnataka	Karwar	Siddapur	Naigar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Illimane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kastur
Karnataka	Karwar	Siddapur	Bilegod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kadavadi
Karnataka	Karwar	Siddapur	Mavinkod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Dodmane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Ballatte
Karnataka	Karwar	Siddapur	Heggadde
Karnataka	Karwar	Siddapur	Balesar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Nirgod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kaunsale
Karnataka	Karwar	Siddapur	Bilgi
Karnataka	Karwar	Siddapur	Balekoppa (Shiralgi)
Karnataka	Karwar	Siddapur	Balgod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Maghegar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kolgi
Karnataka	Karwar	Siddapur	Begar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kudegod

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kodigadde
Karnataka	Karwar	Siddapur	Muttige (Kaval Koppa)
Karnataka	Karwar	Siddapur	Itagi
Karnataka	Karwar	Siddapur	Sangolimane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Danmav
Karnataka	Karwar	Siddapur	Taragod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Talekeri
Karnataka	Karwar	Siddapur	Keremane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Alavalli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Algod
Karnataka	Karwar	Siddapur	Suttalmane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Mattigar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Chandraghatgi
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hukali (Wajgod)
Karnataka	Karwar	Siddapur	Haralikoppa
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kodgadde
Karnataka	Karwar	Siddapur	Malemane
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hemagar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Hejani
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kilar
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kulibid
Karnataka	Karwar	Siddapur	Kodkani
Karnataka	Karwar	Siddapur	Malvajaddi
Karnataka	Karwar	Siddapur	Heggekoppa
Karnataka	Karwar	Siddapur	Koralkai
Karnataka	Karwar	Siddapur	Musavalli
Karnataka	Karwar	Siddapur	Malavalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Gadihalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Gadihalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Sonaginmane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Dhoranagiri
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kodnagadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Yadalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Muski
Karnataka	Karwar	Sirsi	Goudalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mogadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kanamuski
Karnataka	Karwar	Sirsi	Dasangadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Vanalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Audala
Karnataka	Karwar	Sirsi	Shivalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hulgol
Karnataka	Karwar	Sirsi	Koppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Guruvalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Shirgani
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mudebail
Karnataka	Karwar	Sirsi	Bakkal

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Sirsi	Sonda
Karnataka	Karwar	Sirsi	Gonsar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Angodkoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Ullal
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kodigar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kugtemane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hudelkoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Boppanalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Nakshe
Karnataka	Karwar	Sirsi	Benagi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Muregar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Harehulekal
Karnataka	Karwar	Sirsi	Agasal
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kugtemane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kelginkeri
Karnataka	Karwar	Sirsi	Sadashivalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Malalgaon
Karnataka	Karwar	Sirsi	Shigehalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Manadur
Karnataka	Karwar	Sirsi	Isloor
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kotekoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hebballi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mundganmane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kelgin Onikeri
Karnataka	Karwar	Sirsi	Ummadi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Neelkani
Karnataka	Karwar	Sirsi	Bislakoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Sarguppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Huldevansar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mattihalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Naigar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Pura
Karnataka	Karwar	Sirsi	Jaddigadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Achanalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Modur
Karnataka	Karwar	Sirsi	Dasangadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Harepal
Karnataka	Karwar	Sirsi	Gongatta
Karnataka	Karwar	Sirsi	Singanalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Devanalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kandraji
Karnataka	Karwar	Sirsi	Gonur
Karnataka	Karwar	Sirsi	Karjigimane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hedigemane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Byagadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kalve
Karnataka	Karwar	Sirsi	Husri

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Sirsi	Onigadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mundagesar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Margundi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kyadgikoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hedigemane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Sannalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Yachadi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Heggar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Benagaon
Karnataka	Karwar	Sirsi	Sugavi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kalkoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kallalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hakkigadde
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kalugar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kalkardi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mundagesar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kambigar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kanalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Gadgeri
Karnataka	Karwar	Sirsi	Adalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hallusargi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Teppar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hostota
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hallusargi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Manjaguni
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hebre
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kodgibail
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kalgundikoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Navilgar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Gadihalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Bidralli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Vaddinakoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hostota
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hadalagi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Navanageri
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kukri
Karnataka	Karwar	Sirsi	Somanalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Uplekoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Umblekoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mundgehalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Sampakhanda
Karnataka	Karwar	Sirsi	Janmane (H)
Karnataka	Karwar	Sirsi	Bandal
Karnataka	Karwar	Sirsi	Tuduguni
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kugtemane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Mundgehalli

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hanagar
Karnataka	Karwar	Sirsi	Nerlavalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Bislakoppa
Karnataka	Karwar	Sirsi	Devimane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Devimane
Karnataka	Karwar	Sirsi	Hosur
Karnataka	Karwar	Sirsi	Balavalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Badagi
Karnataka	Karwar	Sirsi	Kadgod
Karnataka	Karwar	Sirsi	Adalli
Karnataka	Karwar	Sirsi	Bugadi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hotageri
Karnataka	Karwar	Yellapur	Lalguli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kiravatti
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kannigeri
Karnataka	Karwar	Yellapur	Gotguli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Nagarakhan
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kannadagal
Karnataka	Karwar	Yellapur	Savagadde
Karnataka	Karwar	Yellapur	Angod
Karnataka	Karwar	Yellapur	Madnur
Karnataka	Karwar	Yellapur	Belegeri
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hiriyal
Karnataka	Karwar	Yellapur	Gopadmane
Karnataka	Karwar	Yellapur	Baragadde
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kattige
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bisgod
Karnataka	Karwar	Yellapur	Chimanalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Shistamudi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Dehalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Tatagar
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hamsana Gadde
Karnataka	Karwar	Yellapur	Heggapur
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kalasuru
Karnataka	Karwar	Yellapur	Balagar
Karnataka	Karwar	Yellapur	Somanalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Lingadabailu
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hutkhanda
Karnataka	Karwar	Yellapur	Baraballi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Donagar
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bankasalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bendigeri
Karnataka	Karwar	Yellapur	Chandguli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kalache
Karnataka	Karwar	Yellapur	K0madi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Baginkatta
Karnataka	Karwar	Yellapur	Gadijogadmane

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Yellapur	Chimanalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bhomnalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Gharwas
Karnataka	Karwar	Yellapur	Puratbomnalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Beegar
Karnataka	Karwar	Yellapur	Telangar
Karnataka	Karwar	Yellapur	Idagundi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bilki
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kerehosalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Targar
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hotageri
Karnataka	Karwar	Yellapur	Chikkotti
Karnataka	Karwar	Yellapur	Malalgaon
Karnataka	Karwar	Yellapur	Honagadde
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kodlagadde
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kampli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Mavinamane
Karnataka	Karwar	Yellapur	Shiranala
Karnataka	Karwar	Yellapur	Heggumbale
Karnataka	Karwar	Yellapur	Aalwad
Karnataka	Karwar	Yellapur	Magod
Karnataka	Karwar	Yellapur	Gullapur
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kelashi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Dabaguli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bare
Karnataka	Karwar	Yellapur	Halagod
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hullaramane
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bare
Karnataka	Karwar	Yellapur	Jakkolli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kusguli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Baichgod
Karnataka	Karwar	Yellapur	Harigadde
Karnataka	Karwar	Yellapur	Yadalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Halasinkoppa
Karnataka	Karwar	Yellapur	Uchageri
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bidralli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Jaddigadde
Karnataka	Karwar	Yellapur	Geral
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hiresar
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bharatanahalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Ilehalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hittlalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bellambi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kanagod-Balehadda
Karnataka	Karwar	Yellapur	Tarehalli
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hasalmane
Karnataka	Karwar	Yellapur	Bharanii



State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Karwar	Yellapur	Chavatti
Karnataka	Karwar	Yellapur	Hemmadi
Karnataka	Karwar	Yellapur	Beejanakoppa
Karnataka	Karwar	Yellapur	Kanur
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Naravi
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Malavanthige
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Kuthluru
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Sulkerimogru
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Shirlalu
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Navara
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Savanalu
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Charmadi
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Sulkeri
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Navooru
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Neriya
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Nada
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Puduvettu
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Shishila
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Kalanja
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Shibaje
Karnataka	Mangalore	Belthangadi	Rekhya
Karnataka	Mangalore	Puttur	Kowkradi
Karnataka	Mangalore	Puttur	Golithattu
Karnataka	Mangalore	Puttur	Shirady
Karnataka	Mangalore	Puttur	Alanhaya
Karnataka	Mangalore	Puttur	Shiribagilu
Karnataka	Mangalore	Puttur	Ichlampady
Karnataka	Mangalore	Puttur	Shiribagilu
Karnataka	Mangalore	Puttur	Ballya
Karnataka	Mangalore	Puttur	Kombaru
Karnataka	Mangalore	Puttur	Bilinele
Karnataka	Mangalore	Puttur	Dolpady
Karnataka	Mangalore	Sulya	Balpa
Karnataka	Mangalore	Sulya	Yenekallu
Karnataka	Mangalore	Sulya	Subramanya
Karnataka	Mangalore	Sulya	Subramanya
Karnataka	Mangalore	Sulya	Nalkooru
Karnataka	Mangalore	Sulya	Kuthkunja
Karnataka	Mangalore	Sulya	Inakidu
Karnataka	Mangalore	Sulya	Devachalla
Karnataka	Mangalore	Sulya	Hariharapallathadka
Karnataka	Mangalore	Sulya	Balagodu
Karnataka	Mangalore	Sulya	Balagodu
Karnataka	Mangalore	Sulya	Madappady
Karnataka	Mangalore	Sulya	Ubaradka Mittur
Karnataka	Mangalore	Sulya	Kalmakaru
Karnataka	Mangalore	Sulya	Aranthodu

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Mangalore	Sulya	Aletty
Karnataka	Mangalore	Sulya	Sampaje
Karnataka	Mangalore	Sulya	Thodikana
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Rajegowdanahundi
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Sollapura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Gowdimachanayakana Halli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Siddapura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Metikuppe Forest
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Agasanahundi
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Metikuppe
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Metikuppekaval
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Amani Jungle
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Hirehalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Honnurkuppe
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Antharasanthe
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Ragalakuppe
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Manchegowdanahalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Kakanakote Forest
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Konanalathuru
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	N.Belathur
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Nisna
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Nisna
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Beguru
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Kenchanahalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Hariyalapura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Kittur (Therani Manti)
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Shambugowdanahalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Katawalu
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Thenekallu
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Lakshmanapura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Hariyalapura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Byrapura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Begurjungle
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Huralipura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Badaga
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Kandalike
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Alalahalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Seegevadi
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Bankavadi
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Anemala
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Hosakote
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Channagundi
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Netkalhundi
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Kakanakote Forest
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Hosakote
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Kadegadde
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Hirehalli

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Moleyuru
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Berambadi State Forest
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Beguru
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Chowdahalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Inur Marigudi Jungle
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Kurnagala
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Chikkakundur
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Ankupura
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Baragi
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Alanahalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Vaderahalli
Karnataka	Mysore	Heggadadevanakote	Hirehalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Nandri
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Dodda Bilagodu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Alavalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hulusale Malavalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Holagodu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Amachi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Thotada Koppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Haridravati
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	H.Hunasavalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Menase
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Masarur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Nelagalale
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kanagodu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Gubbiga
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Melina Sampalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Churda
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Basavapura
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Majavana
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Nerala Mane
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Basavapura
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Benavalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Arasalu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Sidiyapura
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Veerabhadrapura
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kachigebylu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kalasetti Koppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kukakalale
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hosakoppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Jeni
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Bilki
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Andagoli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hiremaidthe
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Halethota
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Harohithlu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kalkoppa

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Koteshirur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Malavalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hebbige
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Punaje
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Neelakantanathota
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Thammadikoppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Aragodi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Malali
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kesare
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	H.Honne Koppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Karagodu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Tariga
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Masagalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Haramballi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Dumma
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kolavalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kalikapura
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Mugadthi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Mulagadde
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kusgundi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kalase
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Talale
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Muthur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Gubbiga
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kalkoppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Yalagallu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Adagodi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kallur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kagachi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Karigerasu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Belur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Nagodi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Huligadde
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Manjagalale
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	K.Kunnur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hebburli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hosur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Bidharalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Behalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	K.Kunnur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Masakani
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Shakavalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	L.Guddekoppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Vadahosalli
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Amrutha
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Malali Koppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Savanthur

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Aramane Koppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kammachi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Balekoppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	H.Honne Koppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hiriyogi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kattinahole
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Dobylu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Mathikai
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Brahmanatharuve
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kodur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Nellunde
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Thrinive
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kodase
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Anegadde
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Bhramanavada
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Basavanabyana
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kilandur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Thogare
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Byse
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Mudugoppa (Nagara)
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Billodi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hilukunji
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kalluvidi Abbigalla
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Malali
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Bellur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kilandur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kadiggere
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Karimane
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kabale
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Ryave
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Adagodi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Khyrugundha
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Ginikallu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kolavadi
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Nidagodu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kavari
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Sulagodu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Yadur
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Kattekoppa
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Hummadagallu
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Gubbiga
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Begadali
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Ulthiga
Karnataka	Shimoga	Hosanagara	Koranakote
Karnataka	Shimoga	Sagar	Guthanahalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Talakalale
Karnataka	Shimoga	Sagar	Korlikoppa

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Sagar	Talavata
Karnataka	Shimoga	Sagar	Halavagodu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Jambani
Karnataka	Shimoga	Sagar	Talavata
Karnataka	Shimoga	Sagar	Bilisiri
Karnataka	Shimoga	Sagar	Madasuru
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kanuthota
Karnataka	Shimoga	Sagar	Bidarur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hiremane
Karnataka	Shimoga	Sagar	Belandur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Laviggere
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hiremane
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kerodi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Bellanne
Karnataka	Shimoga	Sagar	Malla
Karnataka	Shimoga	Sagar	Bhyrapura
Karnataka	Shimoga	Sagar	Urulagallu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kudigere
Karnataka	Shimoga	Sagar	Honnemaradu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Nadavalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Brahmana Ilakalale
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kanuru
Karnataka	Shimoga	Sagar	Naragodu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Channashettikoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Neechadi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hirebilagunji
Karnataka	Shimoga	Sagar	Baligere
Karnataka	Shimoga	Sagar	Yalavarsi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Sampalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Shiraguppe
Karnataka	Shimoga	Sagar	Sampalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kanapagaru
Karnataka	Shimoga	Sagar	Mandavalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Banumane
Karnataka	Shimoga	Sagar	Aralagodu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Yalagalale
Karnataka	Shimoga	Sagar	Nitlihaletota
Karnataka	Shimoga	Sagar	Aravade
Karnataka	Shimoga	Sagar	Harogoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Chikkabilagunji
Karnataka	Shimoga	Sagar	Henagere
Karnataka	Shimoga	Sagar	Banadakoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Gowthampura
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hireharaka
Karnataka	Shimoga	Sagar	Byadarakoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kaptemane
Karnataka	Shimoga	Sagar	Ulluru

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kesavinamane
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kopparige
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hulakodu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Puradasara
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kaspadi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hotalasara
Karnataka	Shimoga	Sagar	Nagavalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Koppalagadde
Karnataka	Shimoga	Sagar	Channashettikoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Gudihithalu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Nedaravalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Nadavalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Danandur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Chikkamattur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Mattikoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Chipli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Nadavaddalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Brahmanachitratte
Karnataka	Shimoga	Sagar	Harogoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Narasipura
Karnataka	Shimoga	Sagar	Bhanukuli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Mumbalu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kannur Inam
Karnataka	Shimoga	Sagar	Nanditale
Karnataka	Shimoga	Sagar	Malali
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hongodu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Jambekoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hosagunda
Karnataka	Shimoga	Sagar	Channagonda
Karnataka	Shimoga	Sagar	Balige
Karnataka	Shimoga	Sagar	Mavinasara
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kanumane
Karnataka	Shimoga	Sagar	Mundigesara
Karnataka	Shimoga	Sagar	Tangalavadi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Channiganathota
Karnataka	Shimoga	Sagar	Gudihithalu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kaluru
Karnataka	Shimoga	Sagar	Tumari
Karnataka	Shimoga	Sagar	Sangala
Karnataka	Shimoga	Sagar	Ambaragodlu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hebbase
Karnataka	Shimoga	Sagar	Gilalagundi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Ballibylu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Balagodu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hebbarige
Karnataka	Shimoga	Sagar	Chadaravalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kuruva Ri

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kerehithalu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Besur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Yebbodi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Tumari Koppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kaptemane
Karnataka	Shimoga	Sagar	Heggattu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Araballi
Karnataka	Shimoga	Sagar	Lakkavalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Satalalu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Gijaga
Karnataka	Shimoga	Sagar	Induvalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kattinakaru
Karnataka	Shimoga	Sagar	Gantinakoppa
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kudaruru
Karnataka	Shimoga	Sagar	Bobbige
Karnataka	Shimoga	Sagar	Hotalasara
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kolur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kolur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kanike
Karnataka	Shimoga	Sagar	Maluru
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kolur
Karnataka	Shimoga	Sagar	Kodanavalli
Karnataka	Shimoga	Sagar	Baruve
Karnataka	Shimoga	Sagar	Adagalale
Karnataka	Shimoga	Sagar	Karani
Karnataka	Shimoga	Sagar	Talagodu
Karnataka	Shimoga	Sagar	Shankanna Shanubhog
Karnataka	Shimoga	Sagar	Marati
Karnataka	Shimoga	Sagar	Valur
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Gungarakatte
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Yerekatte
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Sidiginahalu
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Suthakande
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Markande
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Kesaraghatta
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Madravalli
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Kambadooru
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Yarekoppa
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Mathighatta
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Kittadahalli
Karnataka	Shimoga	Shikarpur	Kutrahalli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kumsi
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kone Hosuru
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Thuppuru
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Alkuni
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Vitagondana Koppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kesavina Katte



State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Sannivasa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kempena Koppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Horabylu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Bhairanakoppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Koragi
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Shanthi Kere
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Shetti Kere
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Made Koppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Mandagatta
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Suduru
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Adagadi
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Veeragarana Bhairana Koppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Chikkamathali
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Channa Halli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Anesara
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Channa Halli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Ittige Halli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Doddamathali
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Adina Kottige
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Thevara Koppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Shirigere
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Thammadi Halli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Chittihala
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Thavare Koppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Guddada Arakere
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Manjari Koppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Koodi
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Hosuru
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Puradalu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Anupina Katte
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Male Shankara
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Maleshankara State Forest
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Hanumantha Pura
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Govindapura
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Agasavalli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Shetty Halli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Echavadi
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Basavapura
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Sakre Bylu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Thatti Kere
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Hosakoppa
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Chitra Shetty Halli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Gajanuru Mullakere
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Veera Pura
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kudagala Mane
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kuskuru
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Yaraganalu

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kadecal
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Huruli Halli
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kydotlu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Umble Bylu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Sari Gere
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Ganidalu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kydotlu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Siddamaji Hosuru
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Umble Bylu
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Kakana Hosudi
Karnataka	Shimoga	Shimoga	Lingapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Aranalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Humchadakatte
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Huttalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Alur
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Vatagaru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Karakuchi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kesare
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Yogimalali
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Umblebailu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Muniyur
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hirekallahalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hanagere
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Thorebailu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shankarapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Chikkallalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Alase
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Mandaka
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shiranalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Beede
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Melinakadagodu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kombinakai
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hegalathi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hosakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Jogikoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Keegadi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hadigallu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Demlapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Basavanagadde
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Konandur
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Adinasara
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Aklapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Halavanahalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Garaga
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Suruli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Venkanahalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kittandur

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kattekoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Mallapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Singanabidare
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Salekoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kikkeri
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Triyambakapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Yamaravalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hullukodu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Talale
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hosakere
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kulunde
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Attigadde
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kuchhalu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Khandaka
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kalavathi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bommanahalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Neralamane
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Virupapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Thotadakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Neralakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Beesu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Yadavathi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Biluveharaharapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Tenkabylu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kangalakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Nandigodu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Ubburu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Halaga
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kadegadde
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Nekragodu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kangalakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bylubadagi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Melinapadaravalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Agasadi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shinduvadi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bandya
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Halasavala
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Tenginakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shedgar
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hosakodige
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Mitla Godu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kaveri
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hemmakki
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Lingapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Tyananduru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Yadehallipal
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kudumallige

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Biluvehariharapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kimmane
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kavaledurga
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Yadagudde
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bejjavalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bobli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kasagaru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Jambuvalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bekshikenjigudde
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Boblihinchuvalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hosakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Halumahishi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kelakere
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kokkodu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hedduru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Mahishi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hasandur
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bintala
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kuduvalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kolagibylu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shettigalakoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Holekoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Munnurhalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kodlu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Mrugavadhe
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Angalagodige
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Lakkunda
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Mavadi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Ingladi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Horabailu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Almane
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Andagere
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bogarukoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bilumane
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shedgar
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Manikoppa
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kolagi
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Honnekere
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shuntihaklu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Thumbamane
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Huruli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hadaginamakki
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shivalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Yadamane
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hadaginamakki
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Herambapura
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bellangi

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kolige
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Holalurbetagere
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kabase
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Bekkanur
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Dasanakodige
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Guruvalli
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Keeranakere
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Shiruru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Hosuru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Changaru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Honnetalu
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Kunda
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Nantur
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Talluru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Talluru
Karnataka	Shimoga	Thirthahalli	Balehalli
Karnataka	Udupi	Karkal	Belenje
Karnataka	Udupi	Karkal	Nadpalu
Karnataka	Udupi	Karkal	Kuchchur
Karnataka	Udupi	Karkal	Chara
Karnataka	Udupi	Karkal	Hebri
Karnataka	Udupi	Karkal	Kabbinala
Karnataka	Udupi	Karkal	Andaru
Karnataka	Udupi	Karkal	Shirlal
Karnataka	Udupi	Karkal	Kervashe
Karnataka	Udupi	Karkal	Durga
Karnataka	Udupi	Karkal	Mala
Karnataka	Udupi	Karkal	Eedu
Karnataka	Udupi	Karkal	Nooralbettu
Karnataka	Udupi	Kundapura	Hosoor
Karnataka	Udupi	Kundapura	Byndoor
Karnataka	Udupi	Kundapura	Kollur
Karnataka	Udupi	Kundapura	Yeljith
Karnataka	Udupi	Kundapura	Yeljith
Karnataka	Udupi	Kundapura	Thagarasi
Karnataka	Udupi	Kundapura	Mudoor
Karnataka	Udupi	Kundapura	Golihole
Karnataka	Udupi	Kundapura	Jadkal
Karnataka	Udupi	Kundapura	Idurkunhadi
Karnataka	Udupi	Kundapura	Keradi
Karnataka	Udupi	Kundapura	Hallihole
Karnataka	Udupi	Kundapura	Aloor
Karnataka	Udupi	Kundapura	Chittoor
Karnataka	Udupi	Kundapura	Edmoge
Karnataka	Udupi	Kundapura	Bellal
Karnataka	Udupi	Kundapura	Vandse
Karnataka	Udupi	Kundapura	Hosangadi

State	District	Taluk	Village Name
Karnataka	Udupi	Kundapura	Machattu
Karnataka	Udupi	Kundapura	Amasebailu
Karnataka	Udupi	Kundapura	Amasebailu
Karnataka	Udupi	Kundapura	Shedimane
Karnataka	Udupi	Kundapura	Madammakki
Karnataka	Udupi	Kundapura	Belve
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Bitaka
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shenit
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Waranghushi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Jahagirdarwadi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Ambevangan
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Panjare
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Ghatghar
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Udadawane
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Murshet
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Brmhanwada
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shinganwadi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Samrad
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Ratanwadi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shirpunje Bk.
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Koltembhe
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Dhamanvan
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Kumshet
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shirpunje Kh.
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shelad
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shiswad
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Ambit
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shilvandi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Lavhali Otur
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Paithan
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Pachanai
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Kotul
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Lavhali Kotul
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Ambhol
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Shinde
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Somalwadi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Tale
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Kothale
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Vihir
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Abit Khind
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Palsunde
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Umbarwadi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Phophasandi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Satewadi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Keli Otur
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Garwadi
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Esarthav

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Ahmadnagar	Akola	Khetewadi
Maharashtra	Dhule	Sakri	Dhamandhar
Maharashtra	Dhule	Sakri	Shenwad
Maharashtra	Dhule	Sakri	Vardadi
Maharashtra	Dhule	Sakri	Mohagaon
Maharashtra	Dhule	Sakri	Kalgaon
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Hajgoli Kh.
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Vinayakwadi
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Medhewadi
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Velawatti
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Parpoli
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Dardewadi
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Haloli
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Gavase
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Suleran
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Kitvade
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Ambade
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Awandi
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Uchangi
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Kerakbol
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Polgaon
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Satewadi
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Chafavade
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Latagaon
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Erandol
Maharashtra	Kolhapur	Ajra	Chitale
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Nivade
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Vesarde
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Taliye Bk.
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Kode Bk
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Kode Kh.
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Mandur
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Mandukali
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Andur
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Khokurle
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Asalaj
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Dhundavade
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Vesaraf
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Palsambe
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Saitavade.
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Sangashi
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Sheloshi
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Jargi
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Katali
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Kadave
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Borbet
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Garivade

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Narveli
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Baveli
Maharashtra	Kolhapur	Bavda	Taliye Kh.
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Hanbarwadi
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Girgaon.
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Phaye
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Phanaswadi
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Devakewadi
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Khedge
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Murukate
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Bidri
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Vasnoli
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Padkhambe
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Shivdav
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Bediv
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Sonurli
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Anturli
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Kudtarwadi
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Navale
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Megholi
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Mhasarang
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Vesarde
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Devarde
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Palyachahuda
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Mathagaon
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Karivade
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Chikkewadi
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Antivade
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Mani
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Chivale
Maharashtra	Kolhapur	Bhudragad	Dele
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Dhamapur
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Pundra
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Kanur Kh.
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Sadegudwale
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Bhogoli
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Pilani
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Kokare
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Nagave
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Umagaon
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Jambre
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Gudawale Khalsa
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Isapur
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Jelugade
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Waghotre
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Kitvade
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Mirwel



State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Kalasgade
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Hajagoli
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Kodali
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Khalsa Mhalunge
Maharashtra	Kolhapur	Chandgad	Kolik
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Patpanhala
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Washi
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Kaurwadi
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Manwad
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Kisrul
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Mugadewadi
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Pohalwadi
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Kaljawade
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Padasali
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Kolik
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Pombre
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Gothane
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Harpavade
Maharashtra	Kolhapur	Panhala	Panore
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Konoli Tarf Asandoli
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Kandalgaon
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Rai
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Manbet
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Padasali
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Piral
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Padali
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Phejiwade
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Karanjphen
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Olavan
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Shiroli
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Savardhan
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Radhanagari
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Banachiwadi
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	New Karanje
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Ramanwadi
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Farale
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Patpanhala
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Aini
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Rajapur
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Chafodi Tarf Ainghol
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Savarde
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Gawathanwadi
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Wadachiwadi
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Adoli
Maharashtra	Kolhapur	Radhanagari	Dubalewadi
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Sonarli
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Chandel

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Durgawadi
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Wadi Hudumb
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Karde
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Dhakale
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Amboli
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Tanali
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Tambave
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Nivale
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Ukhalu
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Ud giri
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Shirale Tarf Warun
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Kandavan
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Malgaon
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Golivane
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Jambur
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Palasavade
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Virale
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Paraleninai
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Pusarle
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Wakoli
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Amba
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Talavade
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Chalanwadi
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Masnoli
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Humbavali
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Gholasvade
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Jawali
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Kasarde
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Wadi Kalkavane
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Dhanagarwadi
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Gajapur
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Yelan J.Gai
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Ainwadi
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Mhalasvade
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Gelavade
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Panundre
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Shirale Tarf Malkapur
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Girgaon
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Parivane
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Manjare.
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Burambal
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Sonurle
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Yelvadi
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Mosum
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Kante
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Anuskura
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Barki

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Savardi
Maharashtra	Kolhapur	Shahuwadi	Injoli
Maharashtra	Nandurbar	Nawapur	Kareghat
Maharashtra	Nandurbar	Nawapur	Khekada
Maharashtra	Nashik	Baglan	Golwad
Maharashtra	Nashik	Baglan	Jad
Maharashtra	Nashik	Baglan	Ajande
Maharashtra	Nashik	Baglan	Bordaiwat
Maharashtra	Nashik	Baglan	Bhimkhet
Maharashtra	Nashik	Baglan	Jakhod
Maharashtra	Nashik	Baglan	Waghambe
Maharashtra	Nashik	Baglan	Bhawade
Maharashtra	Nashik	Baglan	Manur
Maharashtra	Nashik	Baglan	Salwan
Maharashtra	Nashik	Baglan	Malgaon Kh.
Maharashtra	Nashik	Baglan	Vathode
Maharashtra	Nashik	Baglan	Kelzar
Maharashtra	Nashik	Baglan	Tatani
Maharashtra	Nashik	Baglan	Wadi Chaulher
Maharashtra	Nashik	Dindori	Deosane
Maharashtra	Nashik	Dindori	Mokhnal
Maharashtra	Nashik	Dindori	Dehare
Maharashtra	Nashik	Dindori	Palasvahir
Maharashtra	Nashik	Dindori	Goldari
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Dhargaon
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Walvahir
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Tringalwadi
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Chinchale Khair
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Bhandardarawadi
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Manjargaon
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Kurungwadi
Maharashtra	Nashik	Igatpuri	Jamunde
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Malagaon Bk.
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Supale Digar
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Umbardhe
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Sidharthanagar
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Koswan
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Virshet
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Dhanoli
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Bhandane (Hatgad)
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Dare Bhanagi
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Dharde Digar
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Shrungarwadi
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Mohobari
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Daregaon Hatgad
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Inshi
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Kosurde

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Karambhel Hatgad
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Amdar
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Jamle Pale
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Dahyane (Otur)
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Jamshet
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Bhusani
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Kurdane (Otur)
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Daregaonwani
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Pimpri Markanda
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Saptashrungagad
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Mehadar
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Wadale[Wani]
Maharashtra	Nashik	Kalwan	Machidhodap
Maharashtra	Nashik	Peint	Amdongra
Maharashtra	Nashik	Peint	Sadadpada
Maharashtra	Nashik	Peint	Gandole
Maharashtra	Nashik	Peint	Kapurne
Maharashtra	Nashik	Peint	Kayare
Maharashtra	Nashik	Peint	Dabhadi
Maharashtra	Nashik	Peint	Kumbhale
Maharashtra	Nashik	Peint	Lavhali
Maharashtra	Nashik	Peint	Sadadpada
Maharashtra	Nashik	Peint	Belpada
Maharashtra	Nashik	Peint	Garmal
Maharashtra	Nashik	Peint	Andhrute
Maharashtra	Nashik	Peint	Tondawal
Maharashtra	Nashik	Peint	Chafyachapada
Maharashtra	Nashik	Peint	Ambapani
Maharashtra	Nashik	Peint	Kahandolpada
Maharashtra	Nashik	Peint	Kasatvihir
Maharashtra	Nashik	Peint	Khadki
Maharashtra	Nashik	Peint	Umbrad
Maharashtra	Nashik	Peint	Borpada
Maharashtra	Nashik	Peint	Jambhulmal
Maharashtra	Nashik	Peint	Nachlondhi
Maharashtra	Nashik	Peint	Murmuti
Maharashtra	Nashik	Sinnar	Gulvanch
Maharashtra	Nashik	Sinnar	Khopadi Bk.
Maharashtra	Nashik	Sinnar	Shahapur
Maharashtra	Nashik	Sinnar	Kedarpur
Maharashtra	Nashik	Sinnar	Khopadi Kh.
Maharashtra	Nashik	Surgana	Gondune
Maharashtra	Nashik	Surgana	Pangarne
Maharashtra	Nashik	Surgana	Pimpalsond
Maharashtra	Nashik	Surgana	Wangan
Maharashtra	Nashik	Surgana	Malgonde
Maharashtra	Nashik	Surgana	Sundarban

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Nashik	Surgana	Mohapada
Maharashtra	Nashik	Surgana	Guhijambhulpada
Maharashtra	Nashik	Surgana	Karanjul Surgana
Maharashtra	Nashik	Surgana	Vijaynagar
Maharashtra	Nashik	Surgana	Khuntavihir
Maharashtra	Nashik	Surgana	Galbari
Maharashtra	Nashik	Surgana	Ranvihir
Maharashtra	Nashik	Surgana	Shrirampur
Maharashtra	Nashik	Surgana	Udaldari
Maharashtra	Nashik	Surgana	Rasha
Maharashtra	Nashik	Surgana	Dolhare
Maharashtra	Nashik	Surgana	Kathipada
Maharashtra	Nashik	Surgana	Amzar
Maharashtra	Nashik	Surgana	Walutzira
Maharashtra	Nashik	Surgana	Shribhuvan
Maharashtra	Nashik	Surgana	Karwande
Maharashtra	Nashik	Surgana	Mothamal
Maharashtra	Nashik	Surgana	Wangan Sule
Maharashtra	Nashik	Surgana	Patali
Maharashtra	Nashik	Surgana	Bendwal
Maharashtra	Nashik	Surgana	Bhawada
Maharashtra	Nashik	Surgana	Umbarde
Maharashtra	Nashik	Surgana	Waghadi
Maharashtra	Nashik	Surgana	Karanjul
Maharashtra	Nashik	Surgana	Kotamba
Maharashtra	Nashik	Surgana	Merdand
Maharashtra	Nashik	Surgana	Dangrale
Maharashtra	Nashik	Surgana	Pilukpada
Maharashtra	Nashik	Surgana	Murumdari
Maharashtra	Nashik	Surgana	Undohal
Maharashtra	Nashik	Surgana	Warambhe
Maharashtra	Nashik	Surgana	Bhenshet
Maharashtra	Nashik	Surgana	Khobale Digar
Maharashtra	Nashik	Surgana	Khokarvihir
Maharashtra	Nashik	Surgana	Khirdi
Maharashtra	Nashik	Surgana	Kahandolpada
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Chinch Ohol
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Khadakohol
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Behedpada
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Kadegahan
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Hatlondhi
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Ozar Khed
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Berwal
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Chinchwad
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Mahadeo Nagar
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Rayate
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Belpali

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Waygholpada
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Jategaon Bk
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Mulvad
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Rautmal
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Varasvihir
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Vatakapada
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Deola
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Nandgaon
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Welunje
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Metkawara
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Ambai
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Chokore
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Umbharande
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Metghar Killa
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Harshewadi
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Take Harsha
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Pahine
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Take Deogaon
Maharashtra	Nashik	Trimbakeshwar	Met Yelyachi
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Pimpargane
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Don
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Aghane
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Ahupe
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Malin
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Tirpad
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Nhaved
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Patan
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Asane
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Nanavade
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Adivare
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Kushire Bk.
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Kondhare
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Sakeri
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Panchale Kh.
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Panchale Bk.
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Phulvade
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Kondhaval
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Apati
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Digad
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Vachape
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Magholi
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Savarli
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Jambhori
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Pimpari
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Ambegaon
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Amondi
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Chaptewadi Kanas

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Kalambai
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Terungan
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Phalode
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Dimbhe Kh.
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Mahalunge Tarf Ghoda
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Rajpur
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Nigdale
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Chikhali
Maharashtra	Pune	Ambegaon	Dhakale
Maharashtra	Pune	Bhor	Kurungvadi
Maharashtra	Pune	Bhor	Ketkavane (Nimme)
Maharashtra	Pune	Bhor	Guhini
Maharashtra	Pune	Bhor	Kikavi
Maharashtra	Pune	Bhor	Khulshi
Maharashtra	Pune	Bhor	Sarole
Maharashtra	Pune	Bhor	Bhutonde
Maharashtra	Pune	Bhor	Dere
Maharashtra	Pune	Bhor	Chandavane
Maharashtra	Pune	Bhor	Kumbale
Maharashtra	Pune	Bhor	Velvand
Maharashtra	Pune	Bhor	Bhandravali
Maharashtra	Pune	Bhor	Nanavale
Maharashtra	Pune	Bhor	Bope
Maharashtra	Pune	Bhor	Brahmanghar
Maharashtra	Pune	Bhor	Kondgaon
Maharashtra	Pune	Bhor	Sangvi (Velavade Khore)
Maharashtra	Pune	Bhor	Jayatpad
Maharashtra	Pune	Bhor	Pangari
Maharashtra	Pune	Bhor	Dehen
Maharashtra	Pune	Bhor	Nandghur
Maharashtra	Pune	Bhor	Rajivadi
Maharashtra	Pune	Bhor	Karanjgaon
Maharashtra	Pune	Bhor	Salungan
Maharashtra	Pune	Bhor	Kund
Maharashtra	Pune	Bhor	Mhasar Kh.
Maharashtra	Pune	Bhor	Mhasar Bk.
Maharashtra	Pune	Bhor	Umbarde
Maharashtra	Pune	Bhor	Shilimb
Maharashtra	Pune	Bhor	Kondhari
Maharashtra	Pune	Bhor	Dhamunashi
Maharashtra	Pune	Bhor	Karungan
Maharashtra	Pune	Bhor	Nigudaghar
Maharashtra	Pune	Bhor	Chikhalavade
Maharashtra	Pune	Bhor	Ashimpi
Maharashtra	Pune	Bhor	Venupuri
Maharashtra	Pune	Bhor	Varavand
Maharashtra	Pune	Bhor	Shirgaon

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Pune	Bhor	Panvhal
Maharashtra	Pune	Bhor	Mazari
Maharashtra	Pune	Bhor	Shirvali (Hirdas Maval)
Maharashtra	Pune	Bhor	Abhepuri
Maharashtra	Pune	Bhor	Dapakeghar
Maharashtra	Pune	Bhor	Pavhar Kh.
Maharashtra	Pune	Bhor	Durgadi
Maharashtra	Pune	Bhor	Gudhe
Maharashtra	Pune	Bhor	Rayari
Maharashtra	Pune	Bhor	Kudali Bk.
Maharashtra	Pune	Bhor	Kudali Kh.
Maharashtra	Pune	Bhor	Nivangan
Maharashtra	Pune	Bhor	Dhanivali
Maharashtra	Pune	Bhor	Balawadi
Maharashtra	Pune	Bhor	Korle
Maharashtra	Pune	Bhor	Ambade
Maharashtra	Pune	Bhor	Ravadi
Maharashtra	Pune	Bhor	Varodi Bk.
Maharashtra	Pune	Haveli	Ghera Sinhagad
Maharashtra	Pune	Haveli	Bhagatwadi
Maharashtra	Pune	Haveli	Khamgaon Mawal
Maharashtra	Pune	Haveli	Mogarwadi
Maharashtra	Pune	Junnar	Khireswar
Maharashtra	Pune	Junnar	Kolhewadi
Maharashtra	Pune	Junnar	Kopare
Maharashtra	Pune	Junnar	Jambhulshi
Maharashtra	Pune	Junnar	Sanganore
Maharashtra	Pune	Junnar	Mandave
Maharashtra	Pune	Junnar	Ambe Gavhan
Maharashtra	Pune	Junnar	Chilhewadi
Maharashtra	Pune	Junnar	Muthalne
Maharashtra	Pune	Junnar	Taleran
Maharashtra	Pune	Junnar	Pimpalgaon Joga
Maharashtra	Pune	Junnar	Ajanawale
Maharashtra	Pune	Junnar	Nimgiri
Maharashtra	Pune	Junnar	Devale
Maharashtra	Pune	Junnar	Pargaon Tarf Madh
Maharashtra	Pune	Junnar	Alu
Maharashtra	Pune	Junnar	Mandarne
Maharashtra	Pune	Junnar	Kolwadi
Maharashtra	Pune	Junnar	Ghatghar
Maharashtra	Pune	Junnar	Ahinavewadi
Maharashtra	Pune	Junnar	Rohkadi
Maharashtra	Pune	Junnar	Godre
Maharashtra	Pune	Junnar	Phagul Gavhan
Maharashtra	Pune	Junnar	Pur
Maharashtra	Pune	Junnar	Amboli



State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Pune	Junnar	Bhivade Bk.
Maharashtra	Pune	Junnar	Uchhil
Maharashtra	Pune	Junnar	Hatvij
Maharashtra	Pune	Junnar	Bhivade Kh.
Maharashtra	Pune	Junnar	Ambe
Maharashtra	Pune	Junnar	Pimparwadi
Maharashtra	Pune	Junnar	Sukalwedhe
Maharashtra	Pune	Khed	Bhorgiri
Maharashtra	Pune	Khed	Bhivegaon
Maharashtra	Pune	Khed	Karkudi
Maharashtra	Pune	Khed	Mandoshi
Maharashtra	Pune	Khed	Naiphad
Maharashtra	Pune	Khed	Tokavade
Maharashtra	Pune	Khed	Awhat
Maharashtra	Pune	Khed	Bhomale
Maharashtra	Pune	Khed	Shirgaon
Maharashtra	Pune	Khed	Wada
Maharashtra	Pune	Khed	Kharpud
Maharashtra	Pune	Khed	Virham
Maharashtra	Pune	Khed	Wandre
Maharashtra	Pune	Khed	Darakwadi
Maharashtra	Pune	Khed	Bursewadi
Maharashtra	Pune	Khed	Torne Kh
Maharashtra	Pune	Khed	Adhe
Maharashtra	Pune	Khed	Ambhu
Maharashtra	Pune	Khed	Kharawali
Maharashtra	Pune	Khed	Velhavale
Maharashtra	Pune	Khed	Palu
Maharashtra	Pune	Khed	Gadad
Maharashtra	Pune	Mawal	Malegaon Bk.
Maharashtra	Pune	Mawal	Sawale
Maharashtra	Pune	Mawal	Pimpari
Maharashtra	Pune	Mawal	Malegaon Kh.
Maharashtra	Pune	Mawal	Kusur
Maharashtra	Pune	Mawal	Kune Ansute
Maharashtra	Pune	Mawal	Dahuli
Maharashtra	Pune	Mawal	Kivale
Maharashtra	Pune	Mawal	Borivali
Maharashtra	Pune	Mawal	Kambare Andar Mawal
Maharashtra	Pune	Mawal	Kashal
Maharashtra	Pune	Mawal	Jambhavali
Maharashtra	Pune	Mawal	Thoran
Maharashtra	Pune	Mawal	Rakaswadi
Maharashtra	Pune	Mawal	Shirdhe
Maharashtra	Pune	Mawal	Kalhat
Maharashtra	Pune	Mawal	Nandgaon
Maharashtra	Pune	Mawal	Udhewadi

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Pune	Mawal	Ukasan
Maharashtra	Pune	Mawal	Valavanti
Maharashtra	Pune	Mawal	Khandashi
Maharashtra	Pune	Mawal	Pale Nane Mawal
Maharashtra	Pune	Mawal	Nigade
Maharashtra	Pune	Mawal	Brahmanwadi
Maharashtra	Pune	Mawal	Vaund
Maharashtra	Pune	Mawal	Karanjgaon
Maharashtra	Pune	Mawal	Kune N.M.
Maharashtra	Pune	Mawal	Moramawadi
Maharashtra	Pune	Mawal	Vehergaon
Maharashtra	Pune	Mawal	Kurvande
Maharashtra	Pune	Mawal	Boraj
Maharashtra	Pune	Mawal	Patan
Maharashtra	Pune	Mawal	Dudhivare
Maharashtra	Pune	Mawal	Bhaje
Maharashtra	Pune	Mawal	Pimpaloli
Maharashtra	Pune	Mawal	Aundholi
Maharashtra	Pune	Mawal	Malewadi
Maharashtra	Pune	Mawal	Apati
Maharashtra	Pune	Mawal	Gevhande Apati
Maharashtra	Pune	Mawal	Atvan
Maharashtra	Pune	Mawal	Shindgaon
Maharashtra	Pune	Mawal	Kolechafesar
Maharashtra	Pune	Mawal	Morave
Maharashtra	Pune	Mawal	Malavandi Thule
Maharashtra	Pune	Mawal	Ovale
Maharashtra	Pune	Mawal	Pusane
Maharashtra	Pune	Mawal	Divad
Maharashtra	Pune	Mawal	Tikona
Maharashtra	Pune	Mawal	Shilimb
Maharashtra	Pune	Mawal	Jovan
Maharashtra	Pune	Mawal	Ajivali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Devghar
Maharashtra	Pune	Mulshi	Peth Shahapur
Maharashtra	Pune	Mulshi	Ambavane
Maharashtra	Pune	Mulshi	Visakhar
Maharashtra	Pune	Mulshi	Kolawali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Kashig
Maharashtra	Pune	Mulshi	Andhale
Maharashtra	Pune	Mulshi	Majgaon
Maharashtra	Pune	Mulshi	Saltar
Maharashtra	Pune	Mulshi	Kumbhori
Maharashtra	Pune	Mulshi	Pomgaon
Maharashtra	Pune	Mulshi	Pimpaloli
Maharashtra	Pune	Mulshi	Chandivali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Tail Baila

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Pune	Mulshi	Barpe Bk.
Maharashtra	Pune	Mulshi	Jawal
Maharashtra	Pune	Mulshi	Shirvali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Bhambarde
Maharashtra	Pune	Mulshi	Kolwan
Maharashtra	Pune	Mulshi	Nandivali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Dongargaon
Maharashtra	Pune	Mulshi	Padalgharwadi
Maharashtra	Pune	Mulshi	Hotale
Maharashtra	Pune	Mulshi	Ekole
Maharashtra	Pune	Mulshi	Adgaon
Maharashtra	Pune	Mulshi	Valane
Maharashtra	Pune	Mulshi	Ghutake
Maharashtra	Pune	Mulshi	Bhadas Bk.
Maharashtra	Pune	Mulshi	Pimpri
Maharashtra	Pune	Mulshi	Tata Talav
Maharashtra	Pune	Mulshi	Disali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Mulshi Kh.
Maharashtra	Pune	Mulshi	Share
Maharashtra	Pune	Mulshi	Vandre
Maharashtra	Pune	Mulshi	Kondhawale
Maharashtra	Pune	Mulshi	Male
Maharashtra	Pune	Mulshi	Maded
Maharashtra	Pune	Mulshi	Nive
Maharashtra	Pune	Mulshi	Vitthalwadi
Maharashtra	Pune	Mulshi	Vadgaon
Maharashtra	Pune	Mulshi	Chinchwad
Maharashtra	Pune	Mulshi	Warak
Maharashtra	Pune	Mulshi	Tamhini Bk
Maharashtra	Pune	Mulshi	Lavharde
Maharashtra	Pune	Mulshi	Vegre
Maharashtra	Pune	Mulshi	Kolavade
Maharashtra	Pune	Mulshi	Temghar
Maharashtra	Pune	Mulshi	Vede
Maharashtra	Pune	Mulshi	Watunde
Maharashtra	Pune	Mulshi	Bhode
Maharashtra	Pune	Mulshi	Mugaon
Maharashtra	Pune	Mulshi	Bhoini
Maharashtra	Pune	Mulshi	Dhamanohol
Maharashtra	Pune	Mulshi	Dasave
Maharashtra	Pune	Mulshi	Kondhur
Maharashtra	Pune	Mulshi	Padalghar
Maharashtra	Pune	Mulshi	Admal
Maharashtra	Pune	Mulshi	Palase
Maharashtra	Pune	Mulshi	Koloshi
Maharashtra	Pune	Mulshi	Wadavali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Sakhari

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Pune	Mulshi	Gadale
Maharashtra	Pune	Mulshi	Saiv Kh
Maharashtra	Pune	Mulshi	Mose Kh.
Maharashtra	Pune	Mulshi	Dhadawali
Maharashtra	Pune	Mulshi	Tav
Maharashtra	Pune	Purandhar	Chivhewadi
Maharashtra	Pune	Purandhar	Panvadi
Maharashtra	Pune	Purandhar	Gherapurandhar
Maharashtra	Pune	Purandhar	Ketkawale
Maharashtra	Pune	Purandhar	Bandhalwadi
Maharashtra	Pune	Purandhar	Kumbhoshi
Maharashtra	Pune	Purandhar	Dawanewadi
Maharashtra	Pune	Purandhar	Satalwadi
Maharashtra	Pune	Purandhar	Pingori
Maharashtra	Pune	Velhe	Mose Bk
Maharashtra	Pune	Velhe	Vadghar
Maharashtra	Pune	Velhe	Dapsare
Maharashtra	Pune	Velhe	Gholapghar
Maharashtra	Pune	Velhe	Kambegi
Maharashtra	Pune	Velhe	Balvadi
Maharashtra	Pune	Velhe	Kadhve
Maharashtra	Pune	Velhe	Chikali Kh.
Maharashtra	Pune	Velhe	Ambegaon Bk
Maharashtra	Pune	Velhe	Kurtavadi
Maharashtra	Pune	Velhe	Kasedi
Maharashtra	Pune	Velhe	Ranjane
Maharashtra	Pune	Velhe	Ghodkhal
Maharashtra	Pune	Velhe	Gondekhal
Maharashtra	Pune	Velhe	Givashi
Maharashtra	Pune	Velhe	Ghodshet
Maharashtra	Pune	Velhe	Shirkoli
Maharashtra	Pune	Velhe	Ghol
Maharashtra	Pune	Velhe	Thangaon
Maharashtra	Pune	Velhe	Tekpole
Maharashtra	Pune	Velhe	Mangaon
Maharashtra	Pune	Velhe	Pole
Maharashtra	Pune	Velhe	Antroli
Maharashtra	Pune	Velhe	Khanu
Maharashtra	Pune	Velhe	Nivi
Maharashtra	Pune	Velhe	Ghisar
Maharashtra	Pune	Velhe	Velhe Bk.
Maharashtra	Pune	Velhe	Bopalghar
Maharashtra	Pune	Velhe	Chandar
Maharashtra	Pune	Velhe	Brahmanghar
Maharashtra	Pune	Velhe	Khodad
Maharashtra	Pune	Velhe	Velhe Bk. Ghera
Maharashtra	Pune	Velhe	Bhatti Wagdra

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Pune	Velhe	Gevhande
Maharashtra	Pune	Velhe	Charhat Wadi
Maharashtra	Pune	Velhe	Mohari
Maharashtra	Pune	Velhe	Metpilaware
Maharashtra	Pune	Velhe	Harpud
Maharashtra	Pune	Velhe	Varoti Bk
Maharashtra	Pune	Velhe	Kolambi
Maharashtra	Pune	Velhe	Jadhavwadi
Maharashtra	Pune	Velhe	Singapur
Maharashtra	Pune	Velhe	Dadvadi
Maharashtra	Pune	Velhe	Pimpri
Maharashtra	Pune	Velhe	Ekalgaon
Maharashtra	Pune	Velhe	Barshicha Mal
Maharashtra	Pune	Velhe	Pal Kh.
Maharashtra	Pune	Velhe	Varoti Kh.
Maharashtra	Pune	Velhe	Asani Manjai
Maharashtra	Pune	Velhe	Khopde Wadi
Maharashtra	Pune	Velhe	Gunjavane
Maharashtra	Pune	Velhe	Pasali
Maharashtra	Pune	Velhe	Bhordi
Maharashtra	Pune	Velhe	Majgaon
Maharashtra	Pune	Velhe	Pishawi
Maharashtra	Pune	Velhe	Gugulshi
Maharashtra	Pune	Velhe	Kelad
Maharashtra	Pune	Velhe	Nigde Kh
Maharashtra	Pune	Velhe	Pangari
Maharashtra	Pune	Velhe	Karnavadi
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Pashane
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Olman
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Chai
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Baliware
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Chevane
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Borgaon
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Nandgaon
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Ware
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Kurung
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Ambherpada
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Deopada
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Pathraj
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Sugave
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Gudhavan
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Rajape
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Shilar
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Shingdhol
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Dhotre
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Jambrung
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Dhamni

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Peth
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Malegaon T. Kothal Khalati
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Pimpalpada
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Hedawali
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Mandawane
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Bamnoli
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Potal
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Bhivpuri (Camp)
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Humgaon
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Jambhiwali
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Pali T. Kothal Khalathi
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Saidongar
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Dhak
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Vengaon
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Kushiwali
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Tiwane
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Mangaon T. Wasare
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Sandashi
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Palasdari
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Mugape
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Salpe
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Talawali
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Kharwandi
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Kondhane
Maharashtra	Raigarh	Karjat	Chochi
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Sondewadi
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Warose Tarf Wankhal
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Matheran (M Cl)
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Borgaon Kh.
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Nadhal
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Kalote Mokashi
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Nigdoli
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Kalote Rayati
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Talavali
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Ghodivali
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Jambarung
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Umbarvira
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Parkhande
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Talashi
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Adoshi
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Tondali
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Khambewadi
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Gohe
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Chavani
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Ujloli
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Karambeli
Maharashtra	Raigarh	Khalapur	Tuksai

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kawale Tarf Nate
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Sandoshi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Karmar
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Warangi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Bavale
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Punade Tarf Nate
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Savarat
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Pane
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Gherakilla Raigad(Raigadwadi)
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Vagheri
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kadsari Lingana
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Dapoli
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Nerav
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Wagholi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Panderi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Warandoli
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Khardi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Walan Kh
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Shevate
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Devghar
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Taloshi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Ketakicha Kond
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Chapgaon
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Mandle
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Walan Bk
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Adrai
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Ambe Shivtar
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Nandgaon Kh
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kusgaon
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Waki Kh
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kolose
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Padavi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kinjaloli Bk
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Solamkond
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Veer
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kinjaloli Kh.
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kasabe Shivtar
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Ghurupacha Kond
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Dongroli
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Parmachi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Dasgaon
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Wahoor
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Taliye
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kokare Tarf Govele
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Dabhol
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Gothe Kh.
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Sape Tarf Govele

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kiye
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Vadghar Kh.
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Gothvali
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Bebalghar
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Telange Mohalla
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Pimpalwadi
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Nadgaon Tarf Tudil
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Ambavali Kh.
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Sutarkond
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Pimpalkond
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kondmalusare
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Ghavre Kond
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Fauji Ambavade
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Kawale Tarf Vinhere
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Pangari
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Ravtali
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Shingar Kond
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Vasap
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Vinhere
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Tamhane
Maharashtra	Raigarh	Mahad	Phalakewadi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Patnus
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Saje
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Bedgaon
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Bhagad
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Umbardi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Tasgaon
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Yelwade
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Bhuvan
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Bondshet
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Sangi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Kandalgaon Kh.
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Wave Diwali
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Jite
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Maluste
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Titave
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Kumbharte
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Borawali
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Sakhalewadi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Shirsad
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Nivi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Nagroli
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Kumbhe
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Manjurne
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Mashidwadi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Jor
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Karambeli



State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Palasgaon Kh.
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Kadapur
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Borghar Tarf Kharavali
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Gharoshi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Dongroli
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Kavilvahal Kh.
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Waghose
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Chapadi
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Kumshet
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Manjarwane
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Panhalghar Kh
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Shilim
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Govele Kond
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Alsunde
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Kushede Tarf Govele
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Junct Of 3 Tah Bnd
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Harkol Kond
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Harkol
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Wadpale
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Lakhapale
Maharashtra	Raigarh	Mangaon	Phalani
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Matwan
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Wave
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Dharwali
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Wadghar Bk.
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Kamthe
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Sade
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Turbhekond
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Turbhe Bk.
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Dhawale
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Borghar
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Nawale
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Chandale
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Adavale Bk.
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Khandaj
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Wazarwadi
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Salvikond
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Chikhali
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Ranawadi Bk.
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Khopad
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Chandake
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Karanje
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Lahulase
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Haldule
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Dabhil
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Rankadsari
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Golegani

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Tutawali
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Pangaloli
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Parsule
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Mahargul
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Kotwal Bk.
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Kshetrapal
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Palchil
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Kotwal Kh.
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Kudpan Bk.
Maharashtra	Raigarh	Poladpur	Kudpan Kh.
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kondgaon
Maharashtra	Raigarh	Roha	Palas
Maharashtra	Raigarh	Roha	Wasgaon
Maharashtra	Raigarh	Roha	Nagothana (Ct)
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kadsure
Maharashtra	Raigarh	Roha	Wani
Maharashtra	Raigarh	Roha	Patansai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Chikani
Maharashtra	Raigarh	Roha	Bhatsai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Wazaroli
Maharashtra	Raigarh	Roha	Wangani
Maharashtra	Raigarh	Roha	Sanegaon
Maharashtra	Raigarh	Roha	Bhise
Maharashtra	Raigarh	Roha	Godasai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Hedawali
Maharashtra	Raigarh	Roha	Pale Tarf Ashtami
Maharashtra	Raigarh	Roha	Wavepotge
Maharashtra	Raigarh	Roha	Dongari
Maharashtra	Raigarh	Roha	Shenvai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Revoli
Maharashtra	Raigarh	Roha	Yashwantkhar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Waravade
Maharashtra	Raigarh	Roha	Dapoli
Maharashtra	Raigarh	Roha	Sukeli
Maharashtra	Raigarh	Roha	Dhamansai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kandale
Maharashtra	Raigarh	Roha	Wandoli
Maharashtra	Raigarh	Roha	Vitthalwadi
Maharashtra	Raigarh	Roha	Are Bk.
Maharashtra	Raigarh	Roha	Shedsai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Devakanhe
Maharashtra	Raigarh	Roha	Madhali Kh.
Maharashtra	Raigarh	Roha	Pingalsai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Khamb
Maharashtra	Raigarh	Roha	Nadawali
Maharashtra	Raigarh	Roha	Gherasurgad
Maharashtra	Raigarh	Roha	Talawali Tarf Ashtami

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Roha	Dhankanhe
Maharashtra	Raigarh	Roha	Chilhe
Maharashtra	Raigarh	Roha	Chinchawali Tarf Atone
Maharashtra	Raigarh	Roha	Malsai
Maharashtra	Raigarh	Roha	Mahalunge
Maharashtra	Raigarh	Roha	Talawali Tarf Ghosale
Maharashtra	Raigarh	Roha	Chandgaon
Maharashtra	Raigarh	Roha	Muthavali Kh
Maharashtra	Raigarh	Roha	Vajjnath
Maharashtra	Raigarh	Roha	Talavade
Maharashtra	Raigarh	Roha	Usar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Balhe
Maharashtra	Raigarh	Roha	Dolavahal
Maharashtra	Raigarh	Roha	Roha (Gaulwadi)
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kamath
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kokban
Maharashtra	Raigarh	Roha	Pangaloli
Maharashtra	Raigarh	Roha	Warathi
Maharashtra	Raigarh	Roha	Neharunagar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Khairale
Maharashtra	Raigarh	Roha	Shiloshi
Maharashtra	Raigarh	Roha	Bhuwaneshwar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Sarsali
Maharashtra	Raigarh	Roha	Khambere
Maharashtra	Raigarh	Roha	Khope
Maharashtra	Raigarh	Roha	Dhatav (Ct)
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kolad
Maharashtra	Raigarh	Roha	Sudakoli
Maharashtra	Raigarh	Roha	Bobadghar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Khandar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Temghar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Tamhanshet
Maharashtra	Raigarh	Roha	Tambadi
Maharashtra	Raigarh	Roha	Karivane
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kawalthe
Maharashtra	Raigarh	Roha	Barshet
Maharashtra	Raigarh	Roha	Mhasadi
Maharashtra	Raigarh	Roha	Sawane
Maharashtra	Raigarh	Roha	Wali
Maharashtra	Raigarh	Roha	Ghosale
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kelghar
Maharashtra	Raigarh	Roha	Jadhavwadi
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kanti
Maharashtra	Raigarh	Roha	Gopalwat
Maharashtra	Raigarh	Roha	Uchel
Maharashtra	Raigarh	Roha	Bhalagaon
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kandane Bk.

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Roha	Kandane Kh.
Maharashtra	Raigarh	Roha	Khajaniwadi
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Gondav
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Hatond
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Falyan
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Bheliv
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Nere
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Mahagaon
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Wave T. Asare
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Mangaon Kh
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Vasunde
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Pawasalawadi
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Khandpoli
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Varhadjambhulpada
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Tadgaon
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Kavele
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Kumbharghar
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Kalamb
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Waghoshi
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Harneri
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Uddhar
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Asare
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Mulashi
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Navghar
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Chikhalgaon
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Ghera Sudhagad
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Bhilpada (Khuravale)
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Tivare
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Pilosari
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Karanjghar
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Chive
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Nadsur
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Rasal
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Kumbharshet
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Khandsai
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Rabgaon
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Ghera Sarasgad
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Siddheshwar Bk
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Wavloli
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Zap
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Adulse
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Shiloshi
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Madhali
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Apatwane
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Ambivali
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Khad Sambale
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Potlaj Kh.

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Gondale
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Pimploli
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Usar
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Nagshet
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Gomashi
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Atone
Maharashtra	Raigarh	Sudhagad	Koshimbale
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Tiware
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Riktoli
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Tivadi
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Bamnoli
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Pedhe Parshuram
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kadwad
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Nandivase
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Moravane
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Swayamdev
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Khopad
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Ganeshpur
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kalkavane
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Gane
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Owali
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Pedhambe
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kolkewadi
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Adare
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kamathe Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Terav Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Mundhe Tarf Chiplun
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kharavate
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Anari
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Ubhale
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Shirgaon
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kumbharli
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kondmala
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kond Fansavane
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Talsar
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Pophali
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kudap
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Pophali Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Dervan
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Turambao
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Mundhe Tarf Savarda
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Dhakmoli
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Phurus
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Durgwadi Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Durgwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Manjutri
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Talavade

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Pathe
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Majare (Goval)
Maharashtra	Ratnagiri	Chiplun	Kutare
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Tulashi Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Tulashi Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Wadgaon Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Shivtar
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kalambani Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kasaba Natu
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Pakharwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Dahivali
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Wadi-Beldar
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Divan-Khavati
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Wadgaon Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kinjale Tarf Natu
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Biramani
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kondwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Gherapalgad
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Shingri
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Pure Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Jamage
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Ghera-Sumargad
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kandoshi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Vihali
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kinjale Tarf Khed
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Nandivali
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kalambani Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Wadi Malde
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Poyanar Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Sakharoli Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Tise Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Astan
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Ghera-Rasalgad
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Wadi Bid
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Chatao
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Prabhuwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Devghar
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Humbari
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Khalachi(Humbari)
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Sanaghar
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kartel
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Chinchwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Varovali
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Ambavali
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Nawanagar
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kumbhad
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Nandgaon

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Sanglot
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Shirgaon
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Khopi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Nive
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Bajrang Nagar
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Morvande Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Choravane
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Shirgaon Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Mirle
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Shiv Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Talvat Khed
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Sapirli
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Talvat Javali
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Choravane Utekarwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Talvat Pal
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kavale
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kasai
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Ashti Mohalla
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Sakhar
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Bhelsai Budhawadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Dhamanand
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Bhelsai Chauthai
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Wave Chinchatwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Dhamanand Gaonthan
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kelane
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Javli Gaonthan
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Zagdewadi
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kumbhavali
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Kuraval Gaonthan
Maharashtra	Ratnagiri	Khed	Ambadas
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Vesurle
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Shirambavali
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kochari
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Daphale
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Salpe
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kurchumb
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Machal
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Chafet
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kangavali
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Veral
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Chinchurti
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Khorninko
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Palu
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Hasol
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Agargaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kumbhargaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Prabhanvalli

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Guravwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Khanavali
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Waghrat
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kante
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Katalgaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Buddhawadi T.Veravali Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Majal
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Ramgaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Isavali
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Javade
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Bhambad
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Puragaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kudewadi
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Bhade
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Ravari
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Hardkhale
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Bapere
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Nivoshi
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kurang
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Waked
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kondage
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Panore
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Vilavade
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Roon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Argaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Khorgaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Borthade
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Harche
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Kondgaon
Maharashtra	Ratnagiri	Lanja	Ringane
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Zarye
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Watul
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Yeradav
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kond Dasur
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Parule
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Chikhale
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kondsar Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Pangari Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Tiware
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Dhamanpe
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Haral
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Varchi Guravwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kotapur
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kolwankhadi
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Saundal
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Khingini
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kelavade



State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Patharde
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Pachal
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Agarewadi
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Bharade
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Karak
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Hardi
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Gothane Doniwade
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Oshiwale
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Walwad
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kajirda
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Phupere
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Rajapur (M Cl)
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kolamb
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Pahiliwadi (Tamhane)
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Jambhawali
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Miland
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Bag Kazi Husen
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Hasol Tarf Saundal
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Pangari Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Savadav
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Hatade
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Dongar
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Mosam
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Mahalunge
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Panhale Tarf Saundal
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Shejvali
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Valye
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Bandiwade
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Prindrawan
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Kumbhavade
Maharashtra	Ratnagiri	Pajapur	Palye
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kumbhar Khani Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Shirambe
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Ratambi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Rajivali
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Shinde Amberi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Vikas Nagar
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Asave
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kase
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kuchambe
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kutgiri
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Pachambe
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Rangav
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Ambet
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Mavalange
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Tural
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Shenavade

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kond Bhairav
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Masarang
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Katurdi Kond
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Nivali
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Golavali
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Shringapur
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Tambedi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Anderi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Shembavane
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kumbharkhani Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Hedali
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Dhamani
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Dingni
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Nayari
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Pirandavane
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Manjare
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Tivare Ghera Prachitgad
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Asurde
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Maladewadi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Umare
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Sangameshwar
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Upale
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kond Ambed
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kinjale
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Washi Tarf Sangameshwar
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Devale Ghera Prachitgad
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kule
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kurdhunda
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Phansavale
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Sayale
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Katavali
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Tamnale
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kundi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Nigudwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Gothane
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Belari Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Belariwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kond Ozare
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Talavade Tarf Devrukh
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Math Dhamapur
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Chandivane
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Belari Kh.
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Bamnoli
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Sonarwadi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Maral
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Agarewadi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Karandewadi

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Hativ
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Khadi Kolvan
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Angavali
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kondran
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Devghar
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Bondye
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Ozare Bk.
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Nivdhe
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Chaphavali
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Ninave
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Dakhin
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Murshi
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Bhadkambe
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Bhovade
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Kirbet
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Devade
Maharashtra	Ratnagiri	Sangameshwar	Wadi Adhishti
Maharashtra	Sangli	Shirala	Zolambi
Maharashtra	Sangli	Shirala	Washi
Maharashtra	Sangli	Shirala	Khundalapur
Maharashtra	Sangli	Shirala	Manadur (Ct)
Maharashtra	Sangli	Shirala	Manadur
Maharashtra	Sangli	Shirala	Gudhe
Maharashtra	Sangli	Shirala	Manewadi
Maharashtra	Sangli	Shirala	Panumbre Tarf Warun
Maharashtra	Sangli	Shirala	Meni
Maharashtra	Sangli	Shirala	Charan
Maharashtra	Sangli	Shirala	Shendgewadi
Maharashtra	Sangli	Shirala	Nathavade
Maharashtra	Satara	Jaoli	Bondarwadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Bhuteghar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Vahite
Maharashtra	Satara	Jaoli	Yerne Bk
Maharashtra	Satara	Jaoli	Valanjwadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Umbari
Maharashtra	Satara	Jaoli	Yerne Kh
Maharashtra	Satara	Jaoli	Majarewadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Achali
Maharashtra	Satara	Jaoli	Devasare
Maharashtra	Satara	Jaoli	Jarewadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kuraloshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Hateghar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Soundari
Maharashtra	Satara	Jaoli	Sayghar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kuroshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Dabhe Mohan
Maharashtra	Satara	Jaoli	Bhaleghar

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Satara	Jaoli	Sonat
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kalamgaon Kalamkar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Dabhe Dabhekar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Dabhe Turuk
Maharashtra	Satara	Jaoli	Okhavadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Shirnar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Lakhwad
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kotroshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Bhogavali T. Medha
Maharashtra	Satara	Jaoli	Khambil Pokale
Maharashtra	Satara	Jaoli	Amshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Rangeghar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Divdev
Maharashtra	Satara	Jaoli	Mamurdi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kandat
Maharashtra	Satara	Jaoli	Varsoli Koli
Maharashtra	Satara	Jaoli	Galdev
Maharashtra	Satara	Jaoli	Khambil Chorge
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kharoshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Vadgare
Maharashtra	Satara	Jaoli	Songaon
Maharashtra	Satara	Jaoli	Dare Bk.
Maharashtra	Satara	Jaoli	Renoshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Zadani
Maharashtra	Satara	Jaoli	Harchandi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Mhate Kh.
Maharashtra	Satara	Jaoli	Mohat
Maharashtra	Satara	Jaoli	Gondemal
Maharashtra	Satara	Jaoli	Vengale
Maharashtra	Satara	Jaoli	Belawade
Maharashtra	Satara	Jaoli	Rule
Maharashtra	Satara	Jaoli	Pali T. Ategaon
Maharashtra	Satara	Jaoli	Dodani
Maharashtra	Satara	Jaoli	Ganje
Maharashtra	Satara	Jaoli	Apti
Maharashtra	Satara	Jaoli	Gavadhoshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Maradmure
Maharashtra	Satara	Jaoli	Agalavewadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Saloshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Uchat
Maharashtra	Satara	Jaoli	Furus
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kumbhargani
Maharashtra	Satara	Jaoli	Awalan
Maharashtra	Satara	Jaoli	Morghar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Mhamulkarwadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Lamaj
Maharashtra	Satara	Jaoli	Walne

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Satara	Jaoli	Tambi T. Medha
Maharashtra	Satara	Jaoli	Morawale
Maharashtra	Satara	Jaoli	Valawan
Maharashtra	Satara	Jaoli	Sangvi T. Medha
Maharashtra	Satara	Jaoli	Nivali
Maharashtra	Satara	Jaoli	Narfdev
Maharashtra	Satara	Jaoli	Parwat T. Wagawale
Maharashtra	Satara	Jaoli	Ahire
Maharashtra	Satara	Jaoli	Tetli
Maharashtra	Satara	Jaoli	Maleshwar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Malchoundi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Nizare
Maharashtra	Satara	Jaoli	Gadhavali
Maharashtra	Satara	Jaoli	Dhanakwadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Akalpe
Maharashtra	Satara	Jaoli	Karandi T. Medha
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kolghar
Maharashtra	Satara	Jaoli	Sawari
Maharashtra	Satara	Jaoli	Sayali
Maharashtra	Satara	Jaoli	Araw
Maharashtra	Satara	Jaoli	Morni
Maharashtra	Satara	Jaoli	Dund
Maharashtra	Satara	Jaoli	Yekiv
Maharashtra	Satara	Jaoli	Shindi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Andhari
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kas
Maharashtra	Satara	Jaoli	Mhavshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Chakdev
Maharashtra	Satara	Jaoli	Pimpri T. Tamb
Maharashtra	Satara	Jaoli	Mhalunge
Maharashtra	Satara	Jaoli	Ravandi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Met Shindi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Majare Shevandi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Mauje Shevandi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Phalani
Maharashtra	Satara	Jaoli	Adoshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Madoshi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Khirkhandi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kusapur
Maharashtra	Satara	Jaoli	Munawale
Maharashtra	Satara	Jaoli	Umbarewadi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kargaon
Maharashtra	Satara	Jaoli	Met Indawli
Maharashtra	Satara	Jaoli	Tambi
Maharashtra	Satara	Jaoli	Vasota
Maharashtra	Satara	Jaoli	Maldev
Maharashtra	Satara	Jaoli	Kusawade

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Satara	Jaoli	Takawli
Maharashtra	Satara	Jaoli	Deur
Maharashtra	Satara	Jaoli	Pali T Tamb
Maharashtra	Satara	Jaoli	Vele
Maharashtra	Satara	Jaoli	Sawrat
Maharashtra	Satara	Jaoli	Jungti
Maharashtra	Satara	Jaoli	Jambruk
Maharashtra	Satara	Koregaon	Rautwadi
Maharashtra	Satara	Koregaon	Gujarwadi
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Kshetra Mahabaleshwar
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Jaoli
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Dare
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Avakali
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Nakinda
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Mahabaleshwar (M C1)
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Ran Adva Gaund
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Kumbharoshi
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Metgutad
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Haroshi
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Dudhoshi
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Petpar
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Parsond
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Met Taliye
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Bhekavali
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Kumthe
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Parpar
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Birwadi
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Shiravali
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Shindola
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Navali
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Malusar
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Birmani
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Manghar
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Tekavali
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Hatlot
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Dudhgaon
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Goroshi
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Parut
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Chikhali
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Yerandal
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Chaturbet
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Ghavari
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Dhardev
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Zanzwad
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Devali
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Vivar
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Ghonaspur

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Kalamgaon
Maharashtra	Satara	Mahabaleshwar	Taldev
Maharashtra	Satara	Patan	Maloshi
Maharashtra	Satara	Patan	Kusavade
Maharashtra	Satara	Patan	Kushi
Maharashtra	Satara	Patan	Dicholi
Maharashtra	Satara	Patan	Nivade
Maharashtra	Satara	Patan	Shirshinge
Maharashtra	Satara	Patan	Tondoshi
Maharashtra	Satara	Patan	Bharsakhale
Maharashtra	Satara	Patan	Dhokawale
Maharashtra	Satara	Patan	Van
Maharashtra	Satara	Patan	Dhoroshi
Maharashtra	Satara	Patan	Nivakane
Maharashtra	Satara	Patan	Marloshi
Maharashtra	Satara	Patan	Aral
Maharashtra	Satara	Patan	Kathi
Maharashtra	Satara	Patan	Divashi Kh
Maharashtra	Satara	Patan	Punvali
Maharashtra	Satara	Patan	Gawdewadi
Maharashtra	Satara	Patan	Mandure
Maharashtra	Satara	Patan	Zadoli
Maharashtra	Satara	Patan	Kisrule
Maharashtra	Satara	Patan	Gojegaon
Maharashtra	Satara	Patan	Nawaja
Maharashtra	Satara	Patan	Chafoli
Maharashtra	Satara	Patan	DhUILwadi
Maharashtra	Satara	Patan	Mendhoshi
Maharashtra	Satara	Patan	Mirgaon
Maharashtra	Satara	Patan	Ghanav
Maharashtra	Satara	Patan	Vatole
Maharashtra	Satara	Patan	Torane
Maharashtra	Satara	Patan	Nahimbe
Maharashtra	Satara	Patan	Humbarli
Maharashtra	Satara	Patan	Padloshi
Maharashtra	Satara	Patan	Ambavane
Maharashtra	Satara	Patan	Vajegaon
Maharashtra	Satara	Patan	Ghatmatha
Maharashtra	Satara	Patan	Ker
Maharashtra	Satara	Patan	Kamargaon
Maharashtra	Satara	Patan	Dhayati
Maharashtra	Satara	Patan	Kharadwadi
Maharashtra	Satara	Patan	Gokul Tarf Helwak
Maharashtra	Satara	Patan	Karvat
Maharashtra	Satara	Patan	Bondri
Maharashtra	Satara	Patan	Gadhav Khop
Maharashtra	Satara	Patan	Gheradategad

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Satara	Patan	Shivandeshwar
Maharashtra	Satara	Patan	Nanel
Maharashtra	Satara	Patan	Kemase
Maharashtra	Satara	Patan	Marul Tarf Patan
Maharashtra	Satara	Patan	Bopoli
Maharashtra	Satara	Patan	Rasati
Maharashtra	Satara	Patan	Thankal
Maharashtra	Satara	Patan	Baje
Maharashtra	Satara	Patan	Mastewadi
Maharashtra	Satara	Patan	Nechal
Maharashtra	Satara	Patan	Helwak
Maharashtra	Satara	Patan	Mendheghar
Maharashtra	Satara	Patan	Kondhavale
Maharashtra	Satara	Patan	Vanzole
Maharashtra	Satara	Patan	Waghane
Maharashtra	Satara	Patan	Govare
Maharashtra	Satara	Patan	Chafer
Maharashtra	Satara	Patan	Kadoli
Maharashtra	Satara	Patan	Zakade
Maharashtra	Satara	Patan	Taliye
Maharashtra	Satara	Patan	Maneri
Maharashtra	Satara	Patan	Patharpunj
Maharashtra	Satara	Patan	Kolane
Maharashtra	Satara	Patan	Risawad
Maharashtra	Satara	Patan	Natoshi
Maharashtra	Satara	Patan	Gothane
Maharashtra	Satara	Patan	Bahe
Maharashtra	Satara	Patan	Mala
Maharashtra	Satara	Patan	Ambrag
Maharashtra	Satara	Patan	Pachgani
Maharashtra	Satara	Patan	Atoli
Maharashtra	Satara	Patan	Kalkewadi
Maharashtra	Satara	Patan	Humbarwadi
Maharashtra	Satara	Patan	Kodal
Maharashtra	Satara	Patan	Kahir
Maharashtra	Satara	Patan	Asawalewadi
Maharashtra	Satara	Patan	Humbarne
Maharashtra	Satara	Patan	Palashi
Maharashtra	Satara	Patan	Paneri
Maharashtra	Satara	Patan	Karale
Maharashtra	Satara	Patan	Ruvale
Maharashtra	Satara	Patan	Satar
Maharashtra	Satara	Patan	Ghotil
Maharashtra	Satara	Patan	Nivi
Maharashtra	Satara	Patan	Kasani
Maharashtra	Satara	Satara	Chinchani
Maharashtra	Satara	Satara	Gogavalewadi



State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Satara	Satara	Akale
Maharashtra	Satara	Satara	Kamathi T.Satara
Maharashtra	Satara	Satara	Agudewadi
Maharashtra	Satara	Satara	Parambe
Maharashtra	Satara	Satara	Jotibachiwadi
Maharashtra	Satara	Satara	Atali
Maharashtra	Satara	Satara	Savali
Maharashtra	Satara	Satara	Bhambavali
Maharashtra	Satara	Satara	Kurulbaji
Maharashtra	Satara	Satara	Yavateshwar
Maharashtra	Satara	Satara	Pateghar
Maharashtra	Satara	Satara	Katavadi Kh
Maharashtra	Satara	Satara	Navali
Maharashtra	Satara	Satara	Kelavali
Maharashtra	Satara	Satara	Nitral
Maharashtra	Satara	Satara	Takawali
Maharashtra	Satara	Satara	Kus Kh.
Maharashtra	Satara	Satara	Khadegaon
Maharashtra	Satara	Satara	Sandavali
Maharashtra	Satara	Satara	Chalkewadi
Maharashtra	Satara	Satara	Thoseghar
Maharashtra	Satara	Satara	Raighar
Maharashtra	Satara	Satara	Boposhi
Maharashtra	Satara	Wai	Jambhali
Maharashtra	Satara	Wai	Gherakelanj
Maharashtra	Satara	Wai	Yeruli
Maharashtra	Satara	Wai	Kochalewadi
Maharashtra	Satara	Wai	Khavali
Maharashtra	Satara	Wai	Abhepuri
Maharashtra	Satara	Wai	Duichivadi
Maharashtra	Satara	Wai	Chorachiwadi
Maharashtra	Satara	Wai	Kironde
Maharashtra	Satara	Wai	Jor
Maharashtra	Satara	Wai	Kondhavale
Maharashtra	Satara	Wai	Golegaon
Maharashtra	Satara	Wai	Ulumb
Maharashtra	Satara	Wai	Balakavadi
Maharashtra	Satara	Wai	Asagaon
Maharashtra	Satara	Wai	Nandgane
Maharashtra	Satara	Wai	Paratavadi
Maharashtra	Satara	Wai	Jambhulane
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Dhalavali
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Pombhurle
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Phanasgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Welgave
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Waghivare
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Mahalunge

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Nad
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Gadhitamhane
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Shiravali
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Shevare
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Hadpid
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Nimatwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Chafed
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Lingdal
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Salashi
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Sherighera Kamte
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Are
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Tambaldeg
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Rembavali
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Kuvale
Maharashtra	Sindhudurg	Devgad	Khudi
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Waingani
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Sherpe
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Jambhalnagar
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Darum
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Dhadeshwar
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Ozaram
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Nagsawantwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Ghonsari
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Koloshi
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Phondaghat
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Damare
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Ayanal
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Uttar Bajar Peth
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Kondye
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Harkul Kh.
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Savdav
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Main
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Bharni
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Kumbhavade
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Tarandale
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Gandhinagar
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Rameshwarnagar
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Bhiravande
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Humbarane
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Pise Kamate
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Varavade
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Natal
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Dariste
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Digavale
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Shiraval
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Ranjangaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Kasavan

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Pimpalgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Osargaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Bhairavgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Yevteshwargaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Nardave
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Jambhalgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kankavli	Kalasuli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Kupavade
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Gavalgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Bhutvad
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Durganagar
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Bhadgaon Bk.
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Bhadgaon Kh.
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Sonavade Tarf Kalsuli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Bharani
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Ghotage
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Nirukhe
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Pangrad
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Warde
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Padave
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Kadawal
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Avalegaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Kusagaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Rumadgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Girgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Kinlos
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Nerur K.Narur
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Hirlok
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Anjivade
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Shivapur
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Narur
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Keravade K.Narur
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Nileli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Pandur
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Wasoli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Chafeli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Gothos
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Nivaje
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Sakirde
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Upavade
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Pulas
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Gandhigram
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Wados
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Walawal
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Amberi
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	More
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Mudyacha Kond

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Kanduli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Madgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Kaleli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Taligaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Munagi
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Bhattgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Tendoli
Maharashtra	Sindhudurg	Kudal	Akeri
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Shirshinge
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Amboli
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Gele
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Sawarwad
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Verle
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Sangeli
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Ambegaon
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Ovaliye
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Madkhol
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Kunkeri
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Parpoli
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Nene
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Kegad
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Devsu
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Masure
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Danoli
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Bhom
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Nirukhe
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Charathe
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Kesari
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Chaukul
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Fansavade
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Kariwade
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Bavlat
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Sawantwadi (M Cl)
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Brahmanpat
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Sarmale
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Dabhil
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Udeli
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Konas
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Gharap
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Majgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Asniye
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Tamboli
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Kumbhavade
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Degave
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Banda
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Padve Majgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Ronapal

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Padve
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Dandeli
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Madura
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Dingne
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Aros
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Galel
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Kondure
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Satarda
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Dongarpal
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Gulduve
Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi	Sateli Tarf Satarda
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Tiravade Tarf Soundal
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Nerle
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Palandewadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Jambhavade
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Akhavane
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Mandavkarwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Upale
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Mounde
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Bhom
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Ainari
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Bhui Bawada
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Tiravade Tarf Kharepatan
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Kumbharwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Ringewadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Madhaliwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Kumbhari
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Bhattiwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Kumbhavade
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Pimpalwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Bhuyadewadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Yedgaon
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Karul
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Narkarwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Navale
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Vayamboshi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Sangulwadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Vabhav
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Nim Arule
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Mohitewadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Tembewadi
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Sadure
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Shirale
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Achirne
Maharashtra	Sindhudurg	Vaibhavvadi	Kurli
Maharashtra	Thane	Jawhar	Bopdari
Maharashtra	Thane	Jawhar	Vavar

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Thane	Jawhar	Dahul
Maharashtra	Thane	Jawhar	Dadhari
Maharashtra	Thane	Jawhar	Ozar
Maharashtra	Thane	Jawhar	Vangani
Maharashtra	Thane	Jawhar	Kharonda
Maharashtra	Thane	Jawhar	Hateri
Maharashtra	Thane	Jawhar	Morchachapada
Maharashtra	Thane	Jawhar	Tilonde
Maharashtra	Thane	Jawhar	Palshin
Maharashtra	Thane	Jawhar	Kogade
Maharashtra	Thane	Jawhar	Alyachimet
Maharashtra	Thane	Jawhar	Akare
Maharashtra	Thane	Jawhar	Hade
Maharashtra	Thane	Jawhar	Garadwadi
Maharashtra	Thane	Jawhar	Kardhan
Maharashtra	Thane	Jawhar	Juni Jawhar
Maharashtra	Thane	Jawhar	Dengachimet
Maharashtra	Thane	Jawhar	Kaulale
Maharashtra	Thane	Jawhar	Kadachimet
Maharashtra	Thane	Jawhar	Dongarwadi
Maharashtra	Thane	Jawhar	Nandgaon
Maharashtra	Thane	Jawhar	Chauk
Maharashtra	Thane	Jawhar	Zap
Maharashtra	Thane	Jawhar	Aine
Maharashtra	Thane	Jawhar	Manmohadi
Maharashtra	Thane	Jawhar	Medhe
Maharashtra	Thane	Jawhar	Khidse
Maharashtra	Thane	Mokhada	Ase
Maharashtra	Thane	Mokhada	Dhamani
Maharashtra	Thane	Mokhada	Dandwal
Maharashtra	Thane	Mokhada	Khoch
Maharashtra	Thane	Mokhada	Dhondmaryachimet
Maharashtra	Thane	Mokhada	Dolhare
Maharashtra	Thane	Mokhada	Sayade
Maharashtra	Thane	Mokhada	Kurlod
Maharashtra	Thane	Mokhada	Nashera
Maharashtra	Thane	Mokhada	Botoshi
Maharashtra	Thane	Mokhada	Kevanale
Maharashtra	Thane	Mokhada	Gomghar
Maharashtra	Thane	Mokhada	Suryamal
Maharashtra	Thane	Mokhada	Pachaghar
Maharashtra	Thane	Mokhada	Vashind
Maharashtra	Thane	Mokhada	Wakadpada
Maharashtra	Thane	Mokhada	Kiniste
Maharashtra	Thane	Mokhada	Amale
Maharashtra	Thane	Mokhada	Kochale
Maharashtra	Thane	Mokhada	Kashti

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Thane	Mokhada	Sawarde
Maharashtra	Thane	Murbad	Alawe
Maharashtra	Thane	Murbad	Talegaon
Maharashtra	Thane	Murbad	Merdi
Maharashtra	Thane	Murbad	Shiroshi
Maharashtra	Thane	Murbad	Fangaloshi
Maharashtra	Thane	Murbad	Walhivale
Maharashtra	Thane	Murbad	Kochare Bk.
Maharashtra	Thane	Murbad	Thitabi Tarf Vaishakhare
Maharashtra	Thane	Murbad	Nyahadi
Maharashtra	Thane	Murbad	Diwanpada
Maharashtra	Thane	Murbad	Fangane
Maharashtra	Thane	Murbad	Moroshi
Maharashtra	Thane	Murbad	Sawarne
Maharashtra	Thane	Murbad	Udaldon
Maharashtra	Thane	Murbad	Karavale
Maharashtra	Thane	Murbad	Vaishakhare
Maharashtra	Thane	Murbad	Sajgaon
Maharashtra	Thane	Murbad	Pimpalgaon
Maharashtra	Thane	Murbad	Asose
Maharashtra	Thane	Murbad	Khutal Bangla
Maharashtra	Thane	Murbad	Ambele Kh.
Maharashtra	Thane	Murbad	Inde
Maharashtra	Thane	Murbad	Hireghar
Maharashtra	Thane	Murbad	Nandgaon
Maharashtra	Thane	Murbad	Pendhari
Maharashtra	Thane	Murbad	Eklahare
Maharashtra	Thane	Murbad	Mangaon
Maharashtra	Thane	Murbad	Vidhyanagar
Maharashtra	Thane	Murbad	Tembhare Bk.
Maharashtra	Thane	Murbad	Sonavale
Maharashtra	Thane	Murbad	Sajai
Maharashtra	Thane	Murbad	Madh
Maharashtra	Thane	Murbad	Padale
Maharashtra	Thane	Murbad	Kheware
Maharashtra	Thane	Murbad	Ghorale
Maharashtra	Thane	Murbad	Koloshi
Maharashtra	Thane	Murbad	Vidhe
Maharashtra	Thane	Murbad	Shiravali
Maharashtra	Thane	Murbad	Kalambhe
Maharashtra	Thane	Murbad	Kalambad Mu
Maharashtra	Thane	Murbad	Kole
Maharashtra	Thane	Murbad	Umbroli Kh.
Maharashtra	Thane	Murbad	Dudhanoli
Maharashtra	Thane	Murbad	Khopivali
Maharashtra	Thane	Murbad	Rao
Maharashtra	Thane	Murbad	Ganeshpur

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Thane	Murbad	Dehari
Maharashtra	Thane	Murbad	Uchale
Maharashtra	Thane	Murbad	Gorakhgad
Maharashtra	Thane	Murbad	Sidhgad
Maharashtra	Thane	Murbad	Mohaghar
Maharashtra	Thane	Murbad	Khanivare
Maharashtra	Thane	Murbad	Kachakoli
Maharashtra	Thane	Murbad	Mohghar
Maharashtra	Thane	Murbad	Jambhurde
Maharashtra	Thane	Murbad	Dongar Nhave
Maharashtra	Thane	Murbad	Patgaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vihigaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Dapur
Maharashtra	Thane	Shahapur	Tembhe
Maharashtra	Thane	Shahapur	Ajnup
Maharashtra	Thane	Shahapur	Belwad
Maharashtra	Thane	Shahapur	Dand
Maharashtra	Thane	Shahapur	Umbravane
Maharashtra	Thane	Shahapur	Ambivali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Dahigaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Fugale
Maharashtra	Thane	Shahapur	Palshin
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vashala Bk
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vaveghar
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vashala Kh
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kothale
Maharashtra	Thane	Shahapur	Veluk
Maharashtra	Thane	Shahapur	Jarandi
Maharashtra	Thane	Shahapur	Ghanepada
Maharashtra	Thane	Shahapur	Khardi
Maharashtra	Thane	Shahapur	Aghai
Maharashtra	Thane	Shahapur	Dhakane
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kalbhonde
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vaghivali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Umbarkhand
Maharashtra	Thane	Shahapur	Patol
Maharashtra	Thane	Shahapur	Pingalwadi
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kalamgaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kashti
Maharashtra	Thane	Shahapur	Hinglud
Maharashtra	Thane	Shahapur	Lahe
Maharashtra	Thane	Shahapur	Palheri
Maharashtra	Thane	Shahapur	Nevare
Maharashtra	Thane	Shahapur	Julawani
Maharashtra	Thane	Shahapur	Roadvahal
Maharashtra	Thane	Shahapur	Pendhari
Maharashtra	Thane	Shahapur	Nandgaon



State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Thane	Shahapur	Mohili
Maharashtra	Thane	Shahapur	Chondhe Kh.
Maharashtra	Thane	Shahapur	Tanasa
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kothare
Maharashtra	Thane	Shahapur	Taharpur
Maharashtra	Thane	Shahapur	Bhavse
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vehlonde
Maharashtra	Thane	Shahapur	Jambhulwad
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kanvinde
Maharashtra	Thane	Shahapur	Chondhe Bk.
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vedvahal
Maharashtra	Thane	Shahapur	Gandulwad
Maharashtra	Thane	Shahapur	Savaroli Kh.
Maharashtra	Thane	Shahapur	Sakharoli
Maharashtra	Thane	Shahapur	Khoste
Maharashtra	Thane	Shahapur	Atgaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Sajivali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Sakurli
Maharashtra	Thane	Shahapur	Khor
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kinaishet
Maharashtra	Thane	Shahapur	Savaroli Bk.
Maharashtra	Thane	Shahapur	Dehene
Maharashtra	Thane	Shahapur	Piwali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Mahuli
Maharashtra	Thane	Shahapur	Saralambe
Maharashtra	Thane	Shahapur	Khutadi
Maharashtra	Thane	Shahapur	Pundhe
Maharashtra	Thane	Shahapur	Chandroti
Maharashtra	Thane	Shahapur	Mamnoli
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kharade
Maharashtra	Thane	Shahapur	Bhorande
Maharashtra	Thane	Shahapur	Vandre
Maharashtra	Thane	Shahapur	Bhinar
Maharashtra	Thane	Shahapur	Lingayate
Maharashtra	Thane	Shahapur	Awale
Maharashtra	Thane	Shahapur	Gunde
Maharashtra	Thane	Shahapur	Katbao
Maharashtra	Thane	Shahapur	Adivali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Ambekhor
Maharashtra	Thane	Shahapur	Dahagaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Asangaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Malegaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Narayangaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Lavale
Maharashtra	Thane	Shahapur	Khativali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kudshet
Maharashtra	Thane	Shahapur	Borsheti Kh

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Thane	Shahapur	Bedisgaon
Maharashtra	Thane	Shahapur	Pashane
Maharashtra	Thane	Shahapur	Umbhrai
Maharashtra	Thane	Shahapur	Lenad Bk.
Maharashtra	Thane	Shahapur	Sane
Maharashtra	Thane	Shahapur	Ambivali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Kharivali
Maharashtra	Thane	Shahapur	Palsoli
Maharashtra	Thane	Shahapur	Bhagdai
Maharashtra	Thane	Vada	Akhada
Maharashtra	Thane	Vada	Virhe
Maharashtra	Thane	Vada	Ujjaini
Maharashtra	Thane	Vada	Pinjal
Maharashtra	Thane	Vada	Dabhon
Maharashtra	Thane	Vada	Pachghar
Maharashtra	Thane	Vada	Satronde
Maharashtra	Thane	Vada	Shilottar
Maharashtra	Thane	Vada	Pik
Maharashtra	Thane	Vada	Mandava
Maharashtra	Thane	Vada	Khodade
Maharashtra	Thane	Vada	Ogada
Maharashtra	Thane	Vada	Parali
Maharashtra	Thane	Vada	Dahivali Kumbhiste
Maharashtra	Thane	Vada	Amgaon
Maharashtra	Thane	Vada	Kumdai
Maharashtra	Thane	Vada	Ambhai
Maharashtra	Thane	Vada	Tilmal
Maharashtra	Thane	Vada	Karanjpada
Maharashtra	Thane	Vada	Devali
Maharashtra	Thane	Vada	Kolim Sarovar
Maharashtra	Thane	Vada	Posheri
Maharashtra	Thane	Vada	Shele
Maharashtra	Thane	Vada	Guhir
Maharashtra	Thane	Vada	Harosale
Maharashtra	Thane	Vada	Kanchad
Maharashtra	Thane	Vada	Dhapad
Maharashtra	Thane	Vada	Vaghote
Maharashtra	Thane	Vada	Dhadhare
Maharashtra	Thane	Vada	Balivali
Maharashtra	Thane	Vada	Galtare
Maharashtra	Thane	Vada	Vaveghar
Maharashtra	Thane	Vada	Nane
Maharashtra	Thane	Vada	Sange
Maharashtra	Thane	Vada	Kalambhe
Maharashtra	Thane	Vada	Sonale Kh.
Maharashtra	Thane	Vada	Nishet
Maharashtra	Thane	Vada	Pimparoli

State	District	Taluk	Village Name
Maharashtra	Thane	Vada	Moj
Maharashtra	Thane	Vada	Bilghar
Maharashtra	Thane	Vada	Tuse
Maharashtra	Thane	Vada	Varai Bk.
Maharashtra	Thane	Vada	Sonale Bk.
Maharashtra	Thane	Vada	Varai Kh.
Maharashtra	Thane	Vada	Avandhe
Maharashtra	Thane	Vada	Chikhale
Maharashtra	Thane	Vada	Savarkhand
Maharashtra	Thane	Vada	Asnas
Maharashtra	Thane	Vada	Abitghar
Maharashtra	Thane	Vada	Gaurapur
Maharashtra	Thane	Vada	Goleghar
Maharashtra	Thane	Vada	Kalambhai
Maharashtra	Thane	Vada	Devghar
Maharashtra	Thane	Vada	Devgaon
Maharashtra	Thane	Vada	Ambarbhui
Maharashtra	Thane	Vada	Budhvali
Maharashtra	Thane	Vada	Bilavali
Maharashtra	Thane	Vada	Kati
Maharashtra	Thane	Vada	Gunj
Maharashtra	Thane	Vada	Khaire Ambivali
Maharashtra	Thane	Vada	Varnol
Maharashtra	Thane	Vada	Dongaste
Tamil Nadu	Coimbatore	Coimbatore North	Thadagam R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Coimbatore North	Anaikatti (North)
Tamil Nadu	Coimbatore	Coimbatore North	Anaikatti (South)
Tamil Nadu	Coimbatore	Coimbatore North	Veerapandi
Tamil Nadu	Coimbatore	Coimbatore South	Boluvampatti (Block I)
Tamil Nadu	Coimbatore	Coimbatore South	Boolvampatti(Blockii)
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Odanthurai R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Jaganarai Slopes R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Kallar R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Hulical Drug R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Pillur Slope R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Nellithurai And Sundapatti R.F
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Kandiyur R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Nilgiri Eastern Slope R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Melur Slope R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Mettupalayam	Anaikatti North R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Udumalaipettai	Anamalai R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Udumalaipettai	Anamalai R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Udumalaipettai	Amravathi Rf/Anamalai Rf
Tamil Nadu	Coimbatore	Udumalaipettai	Amaravathi R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Udumalaipettai	Kudiraiar & Kukkal R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Udumalaipettai	Kudiraiar & Kukkal R.F.
Tamil Nadu	Coimbatore	Udumalaipettai	Manjampatti R.F.

State	District	Taluk	Village Name
Tamil Nadu	Coimbatore	Valparai	Valparai (Tp)
Tamil Nadu	Coimbatore	Valparai	Valparai (Tp)
Tamil Nadu	Coimbatore	Valparai	Area Under Forest
Tamil Nadu	Coimbatore	Valparai	Valparai (Tp)
Tamil Nadu	Coimbatore	Valparai	Area Under Forest
Tamil Nadu	Coimbatore	Valparai	Valparai (Tp)
Tamil Nadu	Coimbatore	Valparai	Valparai (Tp)
Tamil Nadu	Dindigul	Dindigul	Kannivadi (Tp)
Tamil Nadu	Dindigul	Dindigul	Adalur
Tamil Nadu	Dindigul	Dindigul	Kannivadi (Tp)
Tamil Nadu	Dindigul	Dindigul	Erukkalmalai R.F.
Tamil Nadu	Dindigul	Dindigul	Sirumalai
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Pachalur
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Vadagouchi
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Periyur
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Kilakkuchettipatti
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Kookkal
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Thandigudi
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Kamanur
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Adukkam
Tamil Nadu	Dindigul	Kodaikanal	Vellagavi
Tamil Nadu	Dindigul	Oddanchatram	Vadagadu
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Agastheeswaram	Thekkumalai Rf.(West And East)
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Kalkulam	Veerapuli R.F.
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Kalkulam	Veerapuli Extn. (Old Kulasekarapuram)
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Kalkulam	Surulacode
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Kalkulam	Velimalai Forest
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Veerapuli R.F.
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Asambu R.F.
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Poigaimalai R.F.
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Azhagiapandiapuram (Tp)
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Azhagiapandiapuram (Tp)
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Asambu Rf
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Thadagamalai Rf
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Velimalai R.F.
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Thadagamalai R.F.
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Chiramadam
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Aralvaimozhi (Tp)
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Thovala
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Thekkumalai West
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Thovala	Thekkumalai East
Tamil Nadu	Kanniyakumari	Vilavancode	Kilamalai R.F.
Tamil Nadu	The Nilgiris	Coonoor	Burliyar
Tamil Nadu	The Nilgiris	Coonoor	Coonoor
Tamil Nadu	The Nilgiris	Gudalur	Mudumalai
Tamil Nadu	The Nilgiris	Gudalur	Nellakotta
Tamil Nadu	The Nilgiris	Gudalur	Srimadurai

State	District	Taluk	Village Name
Tamil Nadu	The Nilgiris	Gudalur	Gudalur (Tp)
Tamil Nadu	The Nilgiris	Gudalur	O' Valley (Tp)
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kotagiri	Nilgiri Eastern Slopes
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kotagiri	Nandipuram
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kotagiri	Aracode
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kotagiri	Konakarai
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kotagiri	Kadinamala
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kotagiri	Kengarai
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kotagiri	Jackanarai
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kundah	Mulligoor
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kundah	Kilkunda (Tp)
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kundah	Melkundah
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kundah	Kinnakkorai
Tamil Nadu	The Nilgiris	Kundah	Kilkunda (Tp)
Tamil Nadu	The Nilgiris	Panthalur	Nelliyalam (Tp)
Tamil Nadu	The Nilgiris	Udhagamandalam	Masinagudi
Tamil Nadu	The Nilgiris	Udhagamandalam	Ebbanad
Tamil Nadu	The Nilgiris	Udhagamandalam	Kukkal
Tamil Nadu	The Nilgiris	Udhagamandalam	Sholur (Tp)
Tamil Nadu	The Nilgiris	Udhagamandalam	Naduvattam (Tp)
Tamil Nadu	Theni	Andipatti	Megamalai
Tamil Nadu	Theni	Bodinayakanur	Ahamalai
Tamil Nadu	Theni	Bodinayakanur	Bodi Hill North
Tamil Nadu	Theni	Bodinayakanur	Kottagudi
Tamil Nadu	Theni	Uthamapalayam	Erasakkanayackanur Hills
Tamil Nadu	Theni	Uthamapalayam	Suruli Rf
Tamil Nadu	Theni	Uthamapalayam	Koothanatchiyar Rf
Tamil Nadu	Theni	Uthamapalayam	Highways (Tp)
Tamil Nadu	Theni	Uthamapalayam	Vannathiparai Rf
Tamil Nadu	Theni	Uthamapalayam	Pandarathurai Rf
Tamil Nadu	Theni	Uthamapalayam	Melagudalur Rf
Tamil Nadu	Tirunelveli	Ambasamudram	Papanasam R.F.
Tamil Nadu	Tirunelveli	Ambasamudram	Dharmapuramatam
Tamil Nadu	Tirunelveli	Ambasamudram	Singampatti Zamindar Forest
Tamil Nadu	Tirunelveli	Ambasamudram	Papanasam Rf/Manimutharu (Tp)
Tamil Nadu	Tirunelveli	Ambasamudram	Therku Viravanallur R.F.
Tamil Nadu	Tirunelveli	Nanguneri	Kalakadu(R.F)
Tamil Nadu	Tirunelveli	Nanguneri	Vadagarai
Tamil Nadu	Tirunelveli	Shenkottai	Achampudur (Tp)
Tamil Nadu	Tirunelveli	Shenkottai	Puliyarai R.F (Part)
Tamil Nadu	Tirunelveli	Shenkottai	Achampudur (Tp)
Tamil Nadu	Tirunelveli	Shenkottai	Achampudur (Tp)
Tamil Nadu	Tirunelveli	Shenkottai	Puliyarai R.F.(Part)
Tamil Nadu	Tirunelveli	Sivagiri	Sivagiri Reserve Forest
Tamil Nadu	Tirunelveli	Tenkasi	Krishnapuram R.F.
Tamil Nadu	Tirunelveli	Tenkasi	Vairavankulam R.F.
Tamil Nadu	Tirunelveli	Tenkasi	Kadayanallur Upper Slopes

State	District	Taluk	Village Name
Tamil Nadu	Tirunelveli	Tenkasi	Kadayanallur Upper Slopes/Kambaneri Pudukudi
Tamil Nadu	Tirunelveli	Tenkasi	Courtallam Slopes R.F.
Tamil Nadu	Virudhunagar	Rajapalayam	Settur Rf
Tamil Nadu	Virudhunagar	Rajapalayam	Sappaniparambu (R.F)
Tamil Nadu	Virudhunagar	Rajapalayam	Kollankondan R.F.
Tamil Nadu	Virudhunagar	Rajapalayam	Kothankulam Rf
Tamil Nadu	Virudhunagar	Rajapalayam	Settur Rf
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Khansabpuram (Unnipath Rf)
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Srivilliputtur Rf
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Khansabpuram(Khansapuram Rf)
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Pudupatti R.F
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Sundarapandiyam(R.F)
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Srivilliputtur R.F.
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Venkateswarapuram Rf
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Venkateswarapuram R.F.
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Pillaiyarnatham R.F.
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Valaikkulam Rf
Tamil Nadu	Virudhunagar	Srivilliputhur	Valaikkulam R.F.

## ANNEXURE – D

## List of Red category of Industries

SI No.	List of RED Category Industry
1	Airports and Commercial Air Strips
2	Aluminum smelter
3	Asbestos and asbestos based industries
4	Automobiles manufacturing (Integrated facilities)
5	Basic Chemicals and electro chemicals and its derivatives including manufacture of acids
6	Ceramic, Refractories
7	Cement
8	Chlor Alkali
9	Chlorates, perchlorates and peroxides
10	Chlorine, Fluorine, bromine, iodine and their compounds
11	Coal Washeries
12	Copper smelter
13	Coke making, liquefaction, coal tar distillation or fuel gas making
14	Common treatment and disposal facilities (LEW, TSDF, E-Waste recycling, CBMWTF, Effluent conveyance project, incinerators , Solvent/acid recovery plant, MSW sanitary landfill sites, STP)
15	Distillery including fermentation industry
16	Dyes and Dye-intermediates
17	Dry coal processing /mineral processing, industries involving different furnaces through melting, refining, reprocessing, casting and alloy making
18	Emulsion of Oil & Water
19	Fermentation Industry including manufacture of yeast, beer, distillation of alcohol (ENA)
20	Fertilizer (basic) (excluding formulation)
21	Ferrous and Non-ferrous metal extraction involving different furnaces through melting, refining, reprocessing, casting and alloy making
22	Fiber glass production and processing (excluding moulding)
23	Fire crackers manufacturing and bulk storage facilities
24	Flakes from rejected PET bottles
25	Fly ash export, transport and disposal facilities
26	Health care establishments ( As defined in BMW rules)
27	Heavy engineering including Ship Building (With investment on Plant & machineries more than 710 crores)
28	Hot mix plants
29	Hotels (3 star & above) and Hotels having 100 rooms and above
30	Hydrocyanic acid and its derivatives
31	Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black
32	Industrial estates/ parks/complexes/areas/export processing zones/SEZs/Biotech parks/leather complex

SI No.	List of RED Category Industry
33	Industrial inorganic gases namely:- a) Chemical gases: Acetylene, hydrogen, chlorine, fluorine, ammonia. Sulphur dioxide, ethylene, hydrogen sulphide, phosphine b) Hydrogen gases: Methane, ethane, propane
34	Industries engaged in recycling/reprocessing/recovery/reuse of hazardous waste under Schedule N of Hazardous waste (M, H&TBM) Rules, 2008 and its amendments
35	Industry or process involving foundry operations
36	Industry or process involving metal surface treatment or process such as pickling/plating/electroplating/paint tripping/heat treatment /phosphating or finishing and anodizing/enamelling/galvanizing
37	Iron and Steel (involving processing from ore/integrated steel plants and or Sponge Iron units
38	Isolated storage of hazardous chemicals (as per schedule of manufacture, Storage & Import of hazardous Chemicals Rules, 1989 as amended)
39	Lead acid battery manufacturing (excluding assembling & charging of acid lead battery in micro scale [ $<$ Rs. 25 lakhs])
40	Lime manufacturing (Using Lime Kiln)
41	Manufacturing of Explosives, detonators, fuses including management and handling activities
42	Manufacturing of Glass
43	Manufacturing of Glue and gelatin
44	Manufacturing of Lubricating oils, greases or petroleum based products
45	Manufacturing of Paints, varnishes, pigments and intermediate (excluding blending/mixing)
46	Manufacturing of Starch/Saggo
47	Milk processing and dairy products (integrated project)
48	Mineral Stack yards/railway sidings
49	Mining and ore beneficiation
50	New Highway construction projects
51	Non alcoholic beverage (soft drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products (capital investment on plant & machinery $>$ Rs. 1 Crore)
52	Nuclear power plants
53	Oil & gas extraction including CBM (offshore & onshore extraction through drilling wells)
54	Oil and gas transportation pipeline
55	Oil refinery (Mineral Oil or Petro Refineries)
56	Organic chemicals manufacturing
57	Parboiled rice mills (more than 10 TPD) .....I
58	Pesticides (technical) (excluding formulation)
59	Petrochemicals (Manufacture of and nor merely use of raw material )
60	Pharmaceuticals (excluding formulation)
61	Pulp and paper (paper manufacturing with or without pulping)



SI No.	List of RED Category Industry
62	Phosphate rock processing plant
63	Phosphorus and its compounds
64	Photographic films and its chemicals
65	Ports & harbours, Jetties and dredging Operations
66	Power generation plants (except Wind, Solar and Mini Hydel power plants of capacity < 25 MW) and DG set of capacity > 5 MVAI
67	Processes involving chlorinated hydrocarbons
68	Railway Locomotive workshops/Integrated Road Transport workshop/Authorized service centres
69	Reprocessing of used oils and waste oil
70	Ship breaking activities
71	Slaughter houses [As per notification SO 270 (E) dated 26.3.2001] and meat processing, bone mill, processing of animal horns, hoofs and other body parts
72	Steel and steel products using various furnaces like blast furnace/open hearth furnace/induction furnace/arc furnace/submerged arc furnace/basic oxygen furnace/hot rolling using reheating furnace
73	Stone crushers
74	Sugar (excluding Khandsari)
75	Surgical and medical products involving prophylactics and latex
76	Synthetic detergents and soaps (excluding formulation)
77	Synthetic fibers including rayon, tyre cord, polyster filament yarn
78	Synthetic resins
79	Synthetic rubber excluding molding
80	Tanneries
81	Thermal Power Plants
82	Tobacco products including cigarettes and tobacco/opium processing
83	Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils
84	Yarn/textile processing involving any effluent/emission-generating process, bleaching, dyeing, printing and scouring
85	Zinc Smelter

**Note:** Any industry or industrial activity which is not covered in above list having coal fired boiler with steam generation capacity more than 5 T/hr will be covered under Red Category.

[F. No. 1-4/2012-RE (Pt.)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.